



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 13—अगस्त 19, 2005 (श्रावण 22, 1927)  
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13—AUGUST 19, 2005 (SRAVANA 22, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. डीपी/पर्स.-1/2005/092/3/38/97--राष्ट्रपति ने श्री अखिलेश, लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को 08.07.2005 (अपराह) से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. 2/32/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अवर सचिव श्री पी. एम. पिल्लै को विशेष कार्य अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 29.07.2005 से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल

उप सचिव

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. डीपी/पर्स.-1/2005/093/ए-19014/7/84-एडी.-5--श्री ए. डब्ल्यू. डेगवेकर ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 21.07.2005 (पूर्वाह) से संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एस. डी. बैजल

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जुलाई 2005

सं. ई-28017/5/अधि.से.नि./एमएसआर/05/कार्मिक-2/2311--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एम. एस. राठी, सरकारी सेवा से

दिनांक 30.06.2005 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने सहायक महानिरीक्षक (आयुद्ध), का पदभार के औसुब, नई दिल्ली से छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक

दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. ई.-16014(1)/03/97/कार्मिक-1/19--राष्ट्रपति, के औसुब इकाई डीएसपी दुर्गापुर के सह. कमान्डेन्ट, श्री ए. जी. मुखर्जी का त्याग-पत्र दिनांक 27.04.1997 के अपराह से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 23 जुलाई 2005

सं. 9/एस-ईएससी-1-10--श्री एस. जी. तलेकर, निरीक्षक नियंत्रण, को उप नियंत्रण अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 18.07.2005 से 17.01.2006 तक अथवा यह पद नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक, पदोन्नत किया जाता है।

उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी। उक्त तदर्थ पदोन्नति कोई भी कारण दर्शाए बिना समाप्त की जा सकती है।

अ. ना. इंगले  
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग  
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2005

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ने श्री जी. राजेश्वर राव, सहायक लेखा अधिकारी को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर लेखा अधिकारी के रूप में 19.07.2005 (अपराह) के प्रभावी तिथि से पदोन्नति सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे।

राम प्रकाश राव  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार सिविल (लेखापरीक्षा) का कार्यालय,  
आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 21 जुलाई 2005

महालेखाकार सिविल (लेखापरीक्षा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों/लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वैच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवा निवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	पी. गन्ना रेड्डी	व.ले.प.अ.	30.06.2005 (अपराह)
2.	सी. एच. अबधम	-वही-	-वही-
3.	के. रंगा राव	-वही-	-वही-
4.	वाई. आंजनेयुल मुर्ति	-वही-	-वही-
5.	वाई. रतनाकरा राव	-वही-	-वही-
6.	जी. मृत्युन्जय राव	-वही-	-वही-
7.	पी. आनन्द राव-I	-वही-	-वही-
8.	वी. जी. नरासिम्हम	-वही-	-वही-
9.	के. सोलमन राजु	-वही-	-वही-
10.	वी. रामा राव	-वही-	-वही-
11.	एम. वी. वर्धन	-वही-	-वही-
12.	भुपति राजु	-वही-	-वही-
13.	ए. लीला प्रसाद	-वही-	-वही-
14.	के. बापी राजु	-वही-	29.06.2005 (पूर्वाह) (स्वैच्छिक अधिवर्षिता)
15.	एल. वेंकटेश्वरलू	ले.प.अ.	-वही-
16.	मोहम्मद सादत अली	व.ले.प.अ.	04.07.2005 (पूर्वाह) (स्वैच्छिक अधिवर्षिता)

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार सिविल (लेखापरीक्षा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के

वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी(यों) का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नति की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	के. सत्यनारायण मूर्ति-II	48/30.06.2005	01.07.2005
2.	रिजवान-उर-रहीम	-वही-	-वही-
3.	सी. एच. बी. के. एस. वीरान्जनेयुल	-वही-	-वही-
4.	वी. गोविन्दा राजा स्वामी	-वही-	-वही-
5.	बी. बी. एन. आर. बी. प्रसाद	-वही-	-वही-
6.	जी. बी. सुब्बा राव-II	-वही-	-वही-
7.	ए. ए. हफीस खान	-वही-	-वही-
8.	के. नागा रानी	-वही-	-वही-
9.	ई. सिम्पसन विनय कुमार	-वही-	-वही-
10.	सी. राघवा राव	-वही-	04.07.2005
11.	के. गोपाल राव	-वही-	01.07.2005
12.	मोहम्मद सदुल्लाह खान	-वही-	-वही-
13.	जी. रमेश चन्द्र दत्त	-वही-	-वही-
14.	वी. हरी प्रसाद	-वही-	-वही-
15.	पी. बी. राधाकृष्णन मूर्ति-II	-वही-	-वही-
16.	टी. पी. शान्ता कुमारी	55/06.07.2005	06.07.2005

उपर्युक्त पदोन्नतियां उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित याचिकाओं के परिणामों के बशर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार का.जा. सं. एफ-7/1/80-स्था. (पी.-1) दिनांक 26.09.1981 तथा एफ-13/26/82-स्था. (पी.-1) दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 15 जुलाई 2005

स्था.आ.सं. 07-ज्ञापन सं. प्रशा.(सिले)/17-2(लेपअ)/भाग-V/476--दिनांक 31.05.2005 द्वारा सूचित का.आ.ग. 167 दिनांक 31.05.2005 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा

अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री प्रफुल्ल चंद्र कर	01.06.2005 (पूर्वाह)
2.	श्री कमल कृष्णा मिश्रा	01.06.2005 (पूर्वाह)
3.	श्री निझरिन्दु घोष	01.06.2005 (पूर्वाह)
4.	श्री रविन्द नाथ दास	02.06.2005 (पूर्वाह)
5.	श्री गौर मोहन मोहान्ती	01.06.2005 (पूर्वाह)

त्रिलोचन आचार्य  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

दिनांक 19 जुलाई 2005

स्था.आ.सं. 09-ज्ञापन सं. प्रशा.(सिले)/17-2(लेपअ)/भाग-V/737--दिनांक 30.06.2005 द्वारा सूचित का.आ.ग. 300 दिनांक 30.06.2005 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री नारायण बेहेरा	04.07.2005 (पूर्वाह)
2.	श्री लोकनाथ सिंह	05.07.2005 (पूर्वाह)

त्रिलोचन आचार्य  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग  
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. प्रशा.-I/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष

दर्शाई गई तारीख को पेन्शन स्थापना के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख	पेन्शन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
1.	(कु.) सोफी टंडन	20.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
2.	सर्वश्री नधुनी राम	09.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
3.	टी. पी. मुराव	01.08.1945 31.07.2005	01.08.2005
4.	डी. एस. सेठी	15.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
5.	एस. डी. उपाध्याय	25.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
6.	एस. कानन	26.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
7.	एस. पी. गुप्ता	11.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
8.	प्रीतम सिंह	01.08.1945 31.07.2005	01.08.2005
9.	आर. एस. मोनी	05.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
10.	सी. एस. हिंगे	18.07.1945 31.07.2005	01.08.2005
11.	बाबू सिंह	01.08.1945 31.07.2005	01.08.2005
	कंवलदीप सिंह रक्षा लेखा सहा. महानियंत्रक (प्रशासन)		

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. 5/1/2005-सी.पी.आई.--जून, 2005 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 2 अंक बढ़ कर 529 (पांच सौ उनतीस) अंक रहा।

आई. एस. नेगी  
उप निदेशक

खान मंत्रालय  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. ए-32013/1-भूवै.(वरि.)/2004-2005/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित भूवैज्ञानिकों (कनिष्ठ) को भूवैज्ञानिक (वरिष्ठ) के पद पर इसी विभाग में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेश तक प्रत्येक के सामने यथा दर्शाई गई तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
1.	डॉ. जयेश बागची	30.05.2005 (अपराह)
2.	श्री असित साहा	30.05.2005 (अपराह)
3.	श्री पी. जे. इट्टीकुंजु	30.05.2005 (अपराह)
4.	श्री बी. पी. मुखर्जी	30.05.2005 (अपराह)
5.	श्रीमती कृष्णा बसु	30.05.2005 (अपराह)
6.	श्री एम. के. पटेल	30.05.2005 (अपराह)
7.	श्री दीपायन गुहा	30.05.2005 (अपराह)
8.	डॉ. समीर कुमार घोष	30.05.2005 (अपराह)
9.	डॉ. तारकनाथ पाल	30.05.2005 (अपराह)
10.	श्री तपन कुमार जाना	30.05.2005 (अपराह)
11.	श्री एन. एल. गेरा	30.05.2005 (अपराह)
12.	श्री एच. करियन्ना	30.05.2005 (अपराह)
13.	श्री आर. एस. राजावत	30.05.2005 (अपराह)
14.	श्री बी. बी. शर्मा	30.05.2005 (अपराह)
15.	श्री देबाशीष चक्रवर्ती	30.05.2005 (अपराह)
16.	श्री सुभाशीष घोष	30.05.2005 (अपराह)
17.	डॉ. अमिताभ लाहिरी	30.05.2005 (अपराह)
18.	श्री आर. श्रीनिवास राव	30.05.2005 (अपराह)
19.	श्री डी. सी. एल. राजू	30.05.2005 (अपराह)
20.	श्री जे. के. श्रीवास्तव	01.06.2005 (अपराह)
21.	श्री एम. एच. अब्बास	30.05.2005 (अपराह)
22.	श्री विजय कुमार टीकू	30.05.2005 (अपराह)
23.	श्री रहमतुल्ला खान	30.05.2005 (अपराह)
24.	श्री के. विश्वनाथम	30.05.2005 (अपराह)

1	2	3
25.	श्री वी. अनिल कुमार	30.05.2005 (अपराह)
26.	श्री देबकुमार भट्टाचार्य	30.05.2005 (अपराह)
27.	श्री एस. चट्टोपाध्याय	30.05.2005 (अपराह)
28.	श्री के. बाबू राव	06.06.2005 (अपराह)
29.	मोहम्मद अमजद अली	30.05.2005 (अपराह)
30.	श्री पूर्ण चन्द्र दाश	30.05.2005 (अपराह)
31.	श्री संजय कुंबकर्णी	30.05.2005 (अपराह)
32.	श्री ए. के. सिंह	30.05.2005 (अपराह)
33.	श्री संजीव कुमार	31.05.2005 (पूर्वाह)
34.	श्री सुदीप कुमार सोम	30.05.2005 (अपराह)
35.	श्री बासुदेव राय	30.05.2005 (अपराह)
36.	डॉ. तपन पाल	30.05.2005 (अपराह)
37.	श्री सुप्रिय कुमार साहा	30.05.2005 (अपराह)
38.	श्री नीरोज कुमार सरकार	30.05.2005 (अपराह)
39.	श्री उत्तम चक्रवर्ती	31.05.2005 (पूर्वाह)
40.	श्री सांतनु भट्टाचार्य	13.06.2005 (पूर्वाह)
41.	श्री जी. एस. तिवारी	30.05.2005 (अपराह)
42.	श्री ए. के. त्रिपाठी	30.05.2005 (अपराह)
43.	श्री डी. के. श्रीवास्तव	30.05.2005 (अपराह)
44.	श्री जी. एस. अग्रवाल	30.05.2005 (अपराह)
45.	श्री ए. सी. निगम	30.05.2005 (अपराह)
46.	श्री जी. एस. मनहास	30.05.2005 (अपराह)
47.	श्री बृजेश कुमार	30.05.2005 (अपराह)
48.	श्री सत्य प्रकाश शुक्ला	30.05.2005 (अपराह)
49.	श्री राजेन्द्र कुमार	30.05.2005 (अपराह)
50.	डॉ. एम. सी. श्रीवास्तव	30.05.2005 (अपराह)
51.	श्री राजेश जोशी	30.05.2005 (अपराह)

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. ए-19011(1-एम.एस.)/05/19ए-राष्ट्रपति जी, श्रीमती मधुमिता  
सेनगुप्ता, सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को

भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) (समूह-क राजपत्रित) के पद पर इसी विभाग में  
रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के वेतन में अस्थायी  
रूप में 19.04.2005 के पूर्वाह से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त  
करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 25 जुलाई 2005

सं. स्था.-1-327/579-रूल्स/एल.सी.ई.--निम्नलिखित कार्मिकों को,  
जिनका सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा (अधिकारी सर्वेक्षक  
ग्रेड में) चयन हुआ है, को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'बी' सेवा में  
अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान  
में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर  
पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री निमरोद टिग्गा (अनु. जनजाति)	28.02.2005
2.	श्री रासानन्दा खण्डई (अनु. जनजाति)	23.02.2005

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग  
(प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र)

इन्दौर-452013, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. केट/प्रशा./भ-115(खंड-IV)/647--भारत के राष्ट्रपति ने  
श्री मांगीलाल इकवाले को दिनांक 08.07.2005 के पूर्वाह से आगामी  
आदेश होने तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में रु. 8,000-275-  
13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर स्थानापन्न  
रूप से नियुक्त किया है।

डी. एस. राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन.--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं  
अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी

ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर उनके समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :—

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री वी. एन. शह, वैज्ञानिक अधिकारी-ई	31.05.2005	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर
			श्रीमती आग्नस बेंसिली मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

#### आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. एफ.-301-एडी(एटी)/2005--श्रीमती जे. गीता, आशुलिपिक ग्रेड-II, मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, कोयम्बतूर को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-2), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, बंगलौर पीठें, बंगलौर में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 06.07.2005 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. एफ.-301-एडी(एटी)/2005--श्री वी. वी. बी. राजु, वरिष्ठ आशुलिपिक, टी. नं. 2648, हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुम्बई पीठें, मुम्बई में, रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में, दिनांक 01.07.2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कुमार गंगा हाऊसिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/19905/1404--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती

है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कुमार गंगा हाऊसिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कुमार गंगा ग्रीन फार्म्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/22435--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कुमार गंगा ग्रीन फार्म्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स आनन्देश्वर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/20682--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आनन्देश्वर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स के. सी. टोबैको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/21779--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स के. सी. टोबैको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि

कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स स्टिक एण्ड स्पार्क एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/14801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स स्टिक एण्ड स्पार्क एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ए टू जेड इन्सुलेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/20477--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए टू जेड इन्सुलेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स इन्टलैक्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर इन्फार्मेशन लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/21180--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स इन्टलैक्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर इन्फार्मेशन लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सिद्ध लक्ष्मी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/11045--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सिद्ध लक्ष्मी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स इसपैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/8209--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स इसपैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बनारस इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/7574--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बनारस इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि

कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अन्सार म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रंजीत सिंह एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/13161--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रंजीत सिंह एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

सं. एल.सी./560(3)/15728--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अन्सार म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जी. एस. ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कुमाऊं ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/4717--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कुमाऊं ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

सं. एल.सी./560(3)/24324--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जी. एस. ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ब्लू लोटस रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा मैसर्स उर्मिल ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560/एस.ई.एस./05/15831--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स उर्मिल ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

सं. एल.सी./560(3)/27877--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ब्लू लोटस रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल



कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स यतीश डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/6773--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स यतीश डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मसूरी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/11506--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मसूरी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मृत्युंजय एग्रो एण्ड प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/22251--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मृत्युंजय एग्रो एण्ड प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जी. एस. आउटसोर्सिंग सलूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/27887--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जी. एस. आउटसोर्सिंग सलूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स त्रिप्ति सेल्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/14920--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स त्रिप्ति सेल्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विद्या केबिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/11772/1710--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विद्या केबिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कालीचरन सिक्कोरिटीज लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. एल.सी./560(3)/17295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कालीचरन सिक्कोरिटीज लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स भरतपुर एग्रोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1185--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स भरतपुर एग्रोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सिद्धी विनायक टोल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/19049/1200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सिद्धी विनायक टोल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जया सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1204--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जया सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जया ग्रेनी मारमो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/10953/1210--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जया ग्रेनी मारमो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स समृद्धि नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/17846/1214--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स समृद्धि नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स निमबस सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/7279/1250--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स निमबस सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स माडर्न मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/4599/1227--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स माडर्न मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सत्यम गम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/6463/1231--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सत्यम गम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स भीलवाड़ा इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/4272/1236--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स भीलवाड़ा इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सत्यम रिफ्रेक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1739/1246--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सत्यम रिफ्रेक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मारवाड़ ऑटोमार्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/20311/1244--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मारवाड़ ऑटोमार्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सुशीला आसोपा हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1254--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सुशीला आसोपा हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रिद्धि-सिद्धि एडिबल ऑयल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/14903/1258--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रिद्धि-सिद्धि एडिबल ऑयल प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सनराइज ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/6211/1262--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सनराइज ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स प्रेम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/16910/1266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स प्रेम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स पूनम स्वीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/5919/1272--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पूनम स्वीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स स्मार्ट ऐन्टरेन्स मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/17459/1351--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्मार्ट ऐन्टरेन्स मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सरगुजा प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/12995/1355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सरगुजा प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स गेटवेल लीजिंग लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/3621/1359--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स गेटवेल लीजिंग लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स राजस्थान मिडवेज एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/3319/1363--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स राजस्थान मिडवेज एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स स्काई प्लेनेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/17593/1367--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्काई प्लेनेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बोडामाली मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/19582/1371--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स बोडामाली मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विनायक कन्फेक्शनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 30 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13372/1381--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स विनायक कन्फेक्शनरीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रेनबो फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 30 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/9983/1385--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रेनबो फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ओम मिनरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13049/1401--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ओम मिनरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स प्राइमरोज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/4239/1389--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स प्राइमरोज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स यूनाइटेड इण्डिया फिन्ट्रेड लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13413/1405--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स यूनाइटेड इण्डिया फिन्ट्रेड लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रीनाईसेन्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी.  
की धारा

1/1397--कम्पनी अधिनियम, 1956  
) के अनुसरण में एतद्वारा यह  
तीख के तीन माह के उपरान्त  
लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल  
का नाम कम्पनी रजिस्टर  
एगा और उक्त कम्पनी

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स लॉर्ड्स इण्डिया इक्विपमेन्ट्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13412/1409--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स लॉर्ड्स इण्डिया इक्विपमेन्ट्स लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

राजस्थान  
राजस्थान  
राजस्थान  
राजस्थान  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स यूनाइटेड यूनिकेम् इण्डिया लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/11364/1413--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स यूनाइटेड यूनिकेम् इण्डिया लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स आर. पी. एम. सतज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/17575/1425--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स आर. पी. एम. सतज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सरस्वती आर्ट पैलेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/16411/1417--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स सरस्वती आर्ट पैलेस प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स आस्था डायमण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/18282/1429--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स आस्था डायमण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वर्षेटाइल सिसन्टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/16962/1421--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स वर्षेटाइल सिसन्टेक प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स राजस्थान ट्रान्समास मीडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/17251/1433--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स राजस्थान ट्रान्समास मीडिया प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स गोरव एक्स्पोकॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15075/1437--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स गोरव एक्स्पोकॉम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ज्योति इरिगेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/14503/1441--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ज्योति इरिगेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स महादेव बिल्डकोन एण्ड मर्चेन्डाईस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15348/1445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स महादेव बिल्डकोन एण्ड मर्चेन्डाईस प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स चौधरी ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/14010/1449--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स चौधरी ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रिद्धि सिद्धि फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15930/1453--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स रिद्धि सिद्धि फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मोनार्क केम एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/2590/1457--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मोनार्क केम एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान



कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स राहुल ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/014229/1461--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स राहुल ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जेपीस ट्यूरिस्ट विलेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/5493/1473--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जेपीस ट्यूरिस्ट विलेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स हाइपर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13785/1465--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स हाइपर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विजय क्रेपफिन लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1477--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स विजय क्रेपफिन लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स लूसीफर मार्बल्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/11688/1469--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स लूसीफर मार्बल्स लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एस. के. कॉटन एण्ड ऑयल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/10664/1481--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एस. के. कॉटन एण्ड ऑयल प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स श्री पदम सीमेन्ट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/6267/1485--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स श्री पदम सीमेन्ट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स आशुतोष इनफिन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/9667/1489--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स आशुतोष इनफिन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स पुनसुमी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1493--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पुनसुमी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स पिकसिटी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1995/1497--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स पिकसिटी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स यश कन्सल्टेन्सी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/14120/1501--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स यश कन्सल्टेन्सी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जोधपुर इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1182/1501--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स जोधपुर इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनी लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एसीएल फोटोफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1509--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एसीएल फोटोफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विमला फिनकेप लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/12734/1513--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स विमला फिनकेप लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स टूल्स फोरजिंग्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/7024/1517--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स टूल्स फोरजिंग्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स शकुन प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/8748/1521--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स शकुन प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स खारीवाल हॉस्पिटल एण्ड फर्टिलिटी रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/14772/1525--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स खारीवाल हॉस्पिटल एण्ड फर्टिलिटी रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अम्बा कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/6715/1529--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अम्बा कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स फोटोफेक्स पेपर्स राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/11465/1533--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स फोटोफेक्स पेपर्स राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अजय प्रिन्टोपेप प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. आर.ओ.सी./560/11464/1537--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अजय प्रिन्टोपेप प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. क.र./प.बं./आईपीसी/मास्टर फाइल-2/560/एसईएस 2003--एसईएस 2003 के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 965 कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	52850	मैसर्स ए एण्ड ए प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	81663	मैसर्स ए एम टी लिमिटेड
3.	52933	मैसर्स ए एम डी टिम्बर एण्ड वेनियर प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
4.	39159	मैसर्स ए एन कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड
5.	47378	मैसर्स ए टी ट्रेकफास्टनर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
6.	84488	मैसर्स आपनजन इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	89331	मैसर्स आरपी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
8.	70503	मैसर्स आरवी कोम्मोडील प्राइवेट लिमिटेड
9.	73207	मैसर्स आशियाना सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	62882	मैसर्स आवेरी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	58466	मैसर्स एबीसी टेक्सटाईल्स प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
12.	77602	मैसर्स अभिसेख इन्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड
13.	81073	मैसर्स आभू फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	40816	मैसर्स एबल कंसल्टेन्ट्स एण्ड फिनांशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15.	57876	मैसर्स एबीएम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	85066	मैसर्स एक्कलैंड डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
17.	55657	मैसर्स एकोर्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	78683	मैसर्स एक्जुमेन ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
19.	58012	मैसर्स ऐस कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20.	43621	मैसर्स अच्छा मकान प्राइवेट लिमिटेड
21.	40400	मैसर्स एक्जुप्रेसर थरेपी हेल्थ सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
22.	51016	मैसर्स एक्जुशला लेदर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	36553	मैसर्स आदम एण्ड इव प्राइवेट लिमिटेड
24.	33196	मैसर्स एडिटिक्स एण्ड प्रिजर्वेटिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
25.	72743	मैसर्स एदेशरा जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	62250	मैसर्स आदिगम कोम्मोडीटीज लिमिटेड
27.	57856	मैसर्स आदित्य इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
28.	90047	मैसर्स आदित्य मुरारका एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
29.	79896	मैसर्स एडमायर कर्माशियल प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
30.	76326	मैसर्स एडमायर विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड	54.	88257	मैसर्स अल्टर इगो प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	47033	मैसर्स एडीपी ऑफिस इक्युपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	52996	मैसर्स एएम कंसल्टेन्ट्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	87910	मैसर्स एडीएस एक्युआटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	47130	मैसर्स आमार एविसिन इन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
33.	90161	मैसर्स एडवैता इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	57.	37345	मैसर्स आमार कोक प्राईवेट लिमिटेड
34.	89925	मैसर्स एडवान्तेज मिलेनियम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	58.	33028	मैसर्स अम्रीत डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	41002	मैसर्स अग्रवाल रोप्स एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	30273	मैसर्स अमरोप्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
36.	54673	मैसर्स अग्नि उजाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	69738	मैसर्स अनाभी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	42670	मैसर्स अगरानी कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	61.	94709	मैसर्स अनामिका रबड़ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	79824	मैसर्स एग्रिको क्वालिटी प्राईवेट लिमिटेड	62.	28802	मैसर्स अनामिका बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	14408	मैसर्स एग्रिकल्चरल मशीनरी एमएफजी कापॉरेशन प्राईवेट लिमिटेड	63.	50697	मैसर्स आनन्द ग्रीन लिक्स लिमिटेड
40.	46739	मैसर्स एग्रो फ्रिजर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	64.	45271	मैसर्स आनन्द इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	73276	मैसर्स अहमदाबाद जलधारा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	65.	42147	मैसर्स आनन्दा आश्रम प्राईवेट लिमिटेड
42.	58829	मैसर्स अजन्ता पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	50252	मैसर्स अनापोल रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	67387	मैसर्स अजमाला लेदर प्राईवेट लिमिटेड	67.	45892	मैसर्स अन्नोरा फर्श प्राईवेट लिमिटेड
44.	79996	मैसर्स एकेडमी कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	68.	69938	मैसर्स अनिहोन कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
45.	45946	मैसर्स अलमोड हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड	69.	40390	मैसर्स अनिरबान कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
46.	50729	मैसर्स अल्फा एडवाइजरी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	70.	69049	मैसर्स अनिरबान टाई-अप प्राईवेट लिमिटेड
47.	58638	मैसर्स अल्फा डीमीट्रीज शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	71.	34988	मैसर्स अन्जानेया इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
48.	76325	मैसर्स एलिस टाइअप प्राईवेट लिमिटेड	72.	75822	मैसर्स अंकित मर्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड
49.	87859	मैसर्स ऑल सीजन्स एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	73.	43203	मैसर्स अंकुर रसायन उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
50.	84387	मैसर्स आलक्रेडिट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	74.	79770	मैसर्स अंकुर ट्रेडर्स लिमिटेड
51.	37601	मैसर्स एलाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	85755	मैसर्स एएनएम इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	88017	मैसर्स एलाइड वाटरप्रूफिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	76.	85927	मैसर्स एएनएम सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
53.	69252	मैसर्स आललाइक कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	77.	71729	मैसर्स एन्टाअस इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
			78.	36753	मैसर्स अन्तरंग प्रकाशानी प्राईवेट लिमिटेड
			79.	81535	मैसर्स अनटीक फर्न प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
80.	88574	मैसर्स अनुराधा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	108.	82652	मैसर्स आशा कुंज ट्रेडलिक प्राईवेट लिमिटेड
81.	84955	मैसर्स अनुराग डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	75846	मैसर्स असीम कुमार कर एक्सपोर्ट लिमिटेड
82.	77808	मैसर्स अनुब्रत फैशनस प्राईवेट लिमिटेड	110.	76923	मैसर्स आशिर्वाद मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
83.	67383	मैसर्स अपेक्षा सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	15346	मैसर्स आशुतोष आयुर्वेद एण्ड केमिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	55293	मैसर्स एपीजी कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	112.	48532	मैसर्स आश्वथ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
85.	44785	मैसर्स अपोलो ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	113.	69766	मैसर्स अस्काईपैक सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड
86.	34482	मैसर्स एप्पलियांसेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	114.	42675	मैसर्स असोपा ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	61249	मैसर्स एप्पी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	115.	59917	मैसर्स असोपा मर्केनटाईल प्राईवेट लिमिटेड
88.	69732	मैसर्स एप्टीका मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	116.	86281	मैसर्स एसोसियेटेड फ्रेट कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
89.	78557	मैसर्स एक्युआ फ्रेश प्राईवेट लिमिटेड	117.	71251	मैसर्स एस्ट्रा फाइनांशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
90.	76716	मैसर्स आरती सेल्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	118.	60180	मैसर्स एटीआई एक्सपोर्ट लिमिटेड
91.	42936	मैसर्स अरावली पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	47520	मैसर्स एटलान्टेस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
92.	81061	मैसर्स अरहम कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	37811	मैसर्स एटलस कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
93.	79990	मैसर्स एरियकोम सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	34613	मैसर्स एटोमाइट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
94.	69110	मैसर्स अरिहन्त सिन्थेटिक्स एण्ड फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	39166	मैसर्स एटैयर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	87746	मैसर्स अरिता इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	123.	41966	मैसर्स अतुल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
96.	90292	मैसर्स एआरके प्रोग्रेसन प्राईवेट लिमिटेड	124.	59579	मैसर्स ऑकलैण्ड अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	69836	मैसर्स आरनोल्ड डीलिंग प्राईवेट लिमिटेड	125.	64956	मैसर्स औरिका प्रिन्ट ओ ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
98.	69829	मैसर्स आरनोल्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	62860	मैसर्स अव-फैत एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
99.	84257	मैसर्स अरोमा इन्जीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	127.	46727	मैसर्स अवध मेकेनिकल प्रोजेक्ट्स एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	59699	मैसर्स अरोरा एसोसिएट एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	67267	मैसर्स अवन्त ग्रेड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	51457	मैसर्स अरोरा लोटेरिज प्राईवेट लिमिटेड	129.	27550	मैसर्स अवेरी स्केल्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	79285	मैसर्स आरपी ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	130.	27551	मैसर्स अवेरी टेस्टिंग मशीन प्राईवेट लिमिटेड
103.	36688	मैसर्स आरथाबास उद्योग (इन्वेस्टमेन्ट) प्राईवेट लिमिटेड	131.	27552	मैसर्स अवेरी वेगिंग मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	71326	मैसर्स आर्टवर्क प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	132.	57211	मैसर्स एवियाज एक्सपोर्ट इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
105.	69765	मैसर्स असंभव केमिकल प्राईवेट लिमिटेड	133.	15279	मैसर्स बी सी सेन प्राईवेट लिमिटेड
106.	86162	मैसर्स अस्कोट प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	134.	42645	मैसर्स बी ए बी मेडिको लिमिटेड
107.	90639	मैसर्स आशा प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
135.	59454	मैसर्स बी बी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	162.	69209	मैसर्स बासु, राय कंस्ट्रक्शन्स एण्ड कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
136.	37383	मैसर्स बी बी सी इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	163.	33101	मैसर्स बाथीवाला एण्ड करानी इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	90567	मैसर्स बी एन पॉलिपैक प्राईवेट लिमिटेड	164.	86070	मैसर्स बीबीएस इन्फोरमोटेक प्राईवेट लिमिटेड
138.	62467	मैसर्स बाभनान ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	165.	59275	मैसर्स बीडीए होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	56790	मैसर्स बागला कोल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	166.	35244	मैसर्स बीयर एण्ड बुल इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
140.	84344	मैसर्स बैद एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	167.	81360	मैसर्स बेल्स कंट्रोलस फाइनान्स लिमिटेड
141.	84682	मैसर्स बैद कोमुटेक प्राईवेट लिमिटेड	168.	59740	मैसर्स बेंगाल एग्रो फार्म एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
142.	56644	मैसर्स बैद फिनकोन लिमिटेड	169.	12149	मैसर्स बेंगाल बिहार ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड
143.	84683	मैसर्स बैद इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	170.	86961	मैसर्स बेंगाल केन्स एण्ड कॉन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	27925	मैसर्स बाजना रिफ्रेक्टरिज प्राईवेट लिमिटेड	171.	10213	मैसर्स बेंगाल इलेक्ट्रिक सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड
145.	75433	मैसर्स बाजोरिया फोटोग्राफिक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	172.	65662	मैसर्स बेंगाल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
146.	91697	मैसर्स बालागढ़ आपरेटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	173.	69411	मैसर्स बेंगान गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
147.	86881	मैसर्स बालाजी बायो एग्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	174.	56925	मैसर्स बेंगाल सेविंग्स ओरगेनाइजेशन लिमिटेड
148.	85423	मैसर्स बालाजी ट्रेकॉन प्राईवेट लिमिटेड	175.	31516	मैसर्स बेंगाल स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	94748	मैसर्स बलराम वेब-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	176.	87328	मैसर्स बेंगाल वाटरवेज प्राईवेट लिमिटेड
150.	16998	मैसर्स बल्लभदास अग्रवाल लिमिटेड	177.	60563	मैसर्स भगवानदास कानाइलाल (एजेन्ट्स) प्राईवेट लिमिटेड
151.	14012	मैसर्स बालसुख रिफ्रेक्टरिज एण्ड सेरामिक्स लिमिटेड	178.	78321	मैसर्स भाग्यदीप कोम्पोडील प्राईवेट लिमिटेड
152.	66834	मैसर्स बमब्रह प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	179.	49451	मैसर्स भाग्यश्री टूडर्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	47805	मैसर्स बैण्ड बॉक्स कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	180.	87421	मैसर्स भारत बीडी फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
154.	32685	मैसर्स बानी-लोन रिसर्च केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	181.	48101	मैसर्स भारत बिस्कुट कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
155.	63676	मैसर्स बंसराज फाइनान्स लिमिटेड	182.	25284	मैसर्स भारत वायर एण्ड मेटल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	37460	मैसर्स बार्क मैनेजमेन्ट कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	183.	15456	मैसर्स भारती इन्वेस्टमेन्ट एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
157.	34735	मैसर्स बरिशा सिविकेम प्राईवेट लिमिटेड	184.	88793	मैसर्स भारतीय कृषि विकास प्राईवेट लिमिटेड
158.	34705	मैसर्स बर्नागोरे जूट फैक्टरी कम्पनी लिमिटेड			
159.	65416	मैसर्स बैरी फेयर्स प्राईवेट लिमिटेड			
160.	17867	मैसर्स बरूआ आर्ट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड			
161.	95186	मैसर्स बारूईपुर पैरेन्ट्स गार्डन प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
185.	36292	मैसर्स भार्गव सन्स पेपर प्राईवेट लिमिटेड	208.	67479	मैसर्स बोलेरा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	55411	मैसर्स भास्कर क्रेडिट एण्ड मर्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड	209.	57544	मैसर्स बोनाफाइड क्रेडिट एण्ड सेविंग्स कम्पनी लिमिटेड
187.	8018	मैसर्स भट्टाचार्या सन्स प्राईवेट लिमिटेड	210.	56268	मैसर्स बोर्निओ शिपिंग (एनडी) प्राईवेट लिमिटेड
188.	69946	मैसर्स भुवनेश्वरी चितराम प्राईवेट लिमिटेड	211.	31363	मैसर्स बोस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	76419	मैसर्स भुसागा रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	212.	86020	मैसर्स बोस रिसोर्ट एण्ड होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	79576	मैसर्स भुतरा कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	213.	76872	मैसर्स बोवमैन कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
191.	43292	मैसर्स बिल फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	214.	75455	मैसर्स बीआरडी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
192.	74300	मैसर्स बीना कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	215.	26404	मैसर्स ब्राइट ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	88103	मैसर्स बीरादा इन्जीनियरिंग एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड	216.	83098	मैसर्स ब्रिजधाम कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
194.	71851	मैसर्स बिरला इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड	217.	64415	मैसर्स ब्रिजधाम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
195.	52603	मैसर्स बिरला-डीपीएल स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	218.	92622	मैसर्स ब्राडबैंड केबलकॉम लिमिटेड
196.	71321	मैसर्स बिष्णुपद लैण्ड डेवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	219.	41711	मैसर्स बीएससी अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
197.	49275	मैसर्स बीकेपी फिस्कल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	220.	49784	मैसर्स बीएससी लीजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड
198.	76411	मैसर्स ब्लैक एण्ड ब्राइट फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	221.	47110	मैसर्स बीएसविल्लर (लिफ्ट) प्राईवेट लिमिटेड
199.	49152	मैसर्स ब्लैक डायमण्ड कार्गो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड	222.	38141	मैसर्स बड़ाबाजार केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	64551	मैसर्स ब्लैक ओपल प्रोपर्टीज एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	223.	54607	मैसर्स बुश इस्को टी प्राईवेट लिमिटेड
201.	76006	मैसर्स ब्लैक पैन्थर ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	224.	64350	मैसर्स सीएसएम पम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
202.	62275	मैसर्स ब्लोप्लास्ट पेपर प्राईवेट लिमिटेड	225.	36245	मैसर्स सीएडी सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड
203.	88033	मैसर्स ब्लू बर्ड कुरियर प्राईवेट लिमिटेड	226.	27634	मैसर्स कलकत्ता एण्ड काश्मीर ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
204.	73922	मैसर्स ब्लू स्काईज कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	227.	85906	मैसर्स कलकत्ता ग्रीन रिट्रीट एण्ड लैण्ड डेवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
205.	46534	मैसर्स ब्लू स्टार शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	228.	81304	मैसर्स कलकत्ता लैण्ड मार्क कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
206.	93884	मैसर्स बोदरा प्लास्टोकेम प्राईवेट लिमिटेड	229.	11270	मैसर्स कलकत्ता मेटल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
207.	43847	मैसर्स बोल पोल प्राईवेट लिमिटेड	230.	87687	मैसर्स कलकत्ता सॉफ्टवेयर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3	1	2	3
231.	19373	मैसर्स कलकत्ता स्टीमर्स प्राईवेट लिमिटेड	256.	53441	मैसर्स छाबड़ा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
232.	28484	मैसर्स कलकत्ता टी ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड	257.	78556	मैसर्स चिलका मैरिन सीफूड्स प्राईवेट लिमिटेड
233.	41329	मैसर्स कैलफुड्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	44247	मैसर्स चिन्ना वाह एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
234.	58585	मैसर्स कैलियन्टे सिस्टेम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	259.	85955	मैसर्स चोखानी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
235.	92095	मैसर्स कैलसॉफ्ट डिजिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	260.	21738	मैसर्स छोटानागपुर मिनेरल्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
236.	87877	मैसर्स कैलटेक केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	261.	60667	मैसर्स चौधरी फिनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
237.	44604	मैसर्स कैन कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	262.	68619	मैसर्स सीएचएस होलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	53541	मैसर्स कैन फिनवेस्ट कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	263.	30493	मैसर्स सिविका सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
239.	37181	मैसर्स केनाकोना कामर्शियल्स प्राईवेट लिमिटेड	264.	79692	मैसर्स क्लासिक डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
240.	60206	मैसर्स कैनडोर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	265.	22395	मैसर्स क्लेटोन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
241.	49664	मैसर्स कैन्थर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	266.	65694	मैसर्स कम्बाइन्ड प्रोफेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	53989	मैसर्स कैप-एड फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	267.	37890	मैसर्स कम्फोर्ट केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	65327	मैसर्स कैप्रिकोर्न होम्स प्राईवेट लिमिटेड	268.	36168	मैसर्स कोमाइन्ड केयर एण्ड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
244.	32638	मैसर्स केरावन ट्रेवल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	269.	87258	मैसर्स कॉमनकॉर्प ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
245.	53566	मैसर्स केयर कैपिटल मार्केट प्राईवेट लिमिटेड	270.	61516	मैसर्स कम्प्यूटिंग सोलुशन प्राईवेट लिमिटेड
246.	84831	मैसर्स केरोल कंस्ट्रक्शन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	271.	25838	मैसर्स कॉमट्रेको (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड
247.	62273	मैसर्स कैस्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	272.	46691	मैसर्स कॉमि इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
248.	92908	मैसर्स कैटेलेया इन्फोटेक इण्डिया लिमिटेड	273.	63317	मैसर्स कोनेम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
249.	84692	मैसर्स सीबीआर एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	274.	64416	मैसर्स कनेक्ट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
250.	79686	मैसर्स सेन्चुरी कोम्मोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड	275.	93636	मैसर्स कनक्वेस्ट इन्सुरेन्स एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	43573	मैसर्स चन्दा फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	276.	59167	मैसर्स कन्सोलिडेटेड इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
252.	40176	मैसर्स चन्दौसी राइस मिल्स लिमिटेड	277.	87202	मैसर्स कन्सोर्टियम फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड
253.	22347	मैसर्स चन्डी चरण मित्रा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	278.	44667	मैसर्स कंसल्टेन्ट्स एण्ड रिसर्च ब्यूरो ऑफ इन्डस्ट्री ट्रेड एण्ड एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
254.	59026	मैसर्स चन्डीसन्स (इन्टेरियर्स) प्राईवेट लिमिटेड	279.	90572	मैसर्स कंट्रेक्ट सॉफ्टवेयर सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
255.	11224	मैसर्स चारु चन्द्र इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
280.	24698	मैसर्स कंट्रेक्ट सप्लाय एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	304.	9035	मैसर्स दामोदर कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
281.	63308	मैसर्स कुलग्रेडिआ मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड	305.	29157	मैसर्स डंडा ब्रश प्राईवेट लिमिटेड
282.	87631	मैसर्स कोरनाटो कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	306.	57488	मैसर्स दशमेश फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	90160	मैसर्स कोरोना फेब्रिकॉन प्राईवेट लिमिटेड	307.	28945	मैसर्स डटसन इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
284.	66581	मैसर्स कोरोगेनॉन फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	308.	90737	मैसर्स डेविस मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
285.	42705	मैसर्स कॉस्मोपोलिटन लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	309.	91760	मैसर्स देबलिना शेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
286.	80424	मैसर्स क्रा फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड	310.	79134	मैसर्स डिसिजन सपोर्टिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
287.	81150	मैसर्स क्रेजी फाइनान्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	311.	48434	मैसर्स डी के कम्प्यूटर्स एण्ड डाटा कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
288.	91925	मैसर्स क्रिएटिव कनेक्शन प्राईवेट लिमिटेड	312.	30218	मैसर्स दीपक रबड़ इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
289.	85626	मैसर्स क्राइम कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड	313.	88524	मैसर्स डेलाइट कम्प्लेक्स मेन्टेनेन्स लिमिटेड
290.	65891	मैसर्स क्रिस क्रॉस फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	314.	49097	मैसर्स डरबी पेट्रोकार्बन लिमिटेड
291.	81501	मैसर्स क्रास रोड कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	315.	49096	मैसर्स डरबी रेयॉन लिमिटेड
292.	48313	मैसर्स क्रिस्टल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	316.	78390	मैसर्स डेटन इलेक्ट्रीकल एण्ड कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
293.	84501	मैसर्स साइबर डाय सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	317.	83956	मैसर्स डेक्सटरस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
294.	68990	मैसर्स सिग्नेट व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	318.	87186	मैसर्स डे ऑटो पार्क प्राईवेट लिमिटेड
295.	91102	मैसर्स साइटेक-कॉम प्राईवेट लिमिटेड	319.	49453	मैसर्स धनश्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
296.	15638	मैसर्स डी सी सेठिया लिमिटेड	320.	91420	मैसर्स धड़कती दुनिया पब्लिकेशन लिमिटेड
297.	88830	मैसर्स डी ई इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	321.	56046	मैसर्स ध्रुवको इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
298.	45132	मैसर्स डीपीएस डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	322.	92716	मैसर्स डिजिटल नेट स्ट्रीम.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
299.	48688	मैसर्स डीएसआर टर्नकी इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	323.	91054	मैसर्स डिजिटैक्स इन्फोवे प्राईवेट लिमिटेड
300.	72175	मैसर्स डीजे सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड	324.	41943	मैसर्स दिनयोग सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
301.	53407	मैसर्स डी रूटोजी (लिकर) प्राईवेट लिमिटेड	325.	45393	मैसर्स दीपाली सिनेमा प्राईवेट लिमिटेड
302.	78675	मैसर्स डेफोडील कॉम्पटेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	326.	91625	मैसर्स दीप्पु प्लाईवूड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड
303.	69734	मैसर्स दामका व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	327.	91977	मैसर्स डिस्काउंट इन्फोलाइन.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
			328.	50151	मैसर्स डिस्नीलैंड फ्रैन्चाइसी लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
329.	69606	मैसर्स डिस्टेन्ट विन-कॉम प्राईवेट लिमिटेड	356.	30696	मैसर्स इफेक्टिव सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड
330.	94464	मैसर्स डिस्टीन्कटिव ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	357.	69835	मैसर्स एक्चक्र विनिमोय प्राईवेट लिमिटेड
331.	94778	मैसर्स डियुरनल एप्लीयेन्सेज प्राईवेट लिमिटेड	358.	40481	मैसर्स एकसन्स मेडिसिनल प्राईवेट लिमिटेड
332.	80921	मैसर्स दिव्य दृष्टि कम्प्यूटरेड प्राईवेट लिमिटेड	359.	61703	मैसर्स एलान लेदर एसेसरिज प्राईवेट लिमिटेड
333.	63120	मैसर्स दिव्य सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	360.	49992	मैसर्स एल्कॉन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
334.	89159	मैसर्स डीएनके फाइनेन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	361.	51142	मैसर्स एलडॉट कम्प्यूटर सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड
335.	91904	मैसर्स डोमिनो सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड	362.	94758	मैसर्स एलाइट सिमेन्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
336.	60211	मैसर्स डोव कन्कलेव प्राईवेट लिमिटेड	363.	44695	मैसर्स एम्बीकॉन इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
337.	57449	मैसर्स डीपीबी केमफैब फायर प्रोटेक्शन प्राईवेट लिमिटेड	364.	59578	मैसर्स इएमसी रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
338.	81308	मैसर्स ड्रीम ऑर्गनाइज लिमिटेड	365.	76019	मैसर्स इमेराल्ड मैनेजमेन्ट लिमिटेड
339.	18973	मैसर्स ड्रम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	366.	72476	मैसर्स इमेरी सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
340.	68538	मैसर्स डुलासन मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	367.	85113	मैसर्स इम्पायर ड्राविंग इन्स्ट्रुमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
341.	84997	मैसर्स डुराकॉन्ट प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	368.	92116	मैसर्स इनिग्मा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
342.	83134	मैसर्स दुर्गापुर एश एण्ड एलॉयड गुड्स मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	369.	38626	मैसर्स इन्माल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
343.	70706	मैसर्स दुर्गेश ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	370.	82640	मैसर्स इन्प्रो इस्टेट्स लिमिटेड
344.	82073	मैसर्स दत्ता घोष एण्ड एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड	371.	64251	मैसर्स इन्सा कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
345.	77635	मैसर्स द्वारका फाइनेन्शियल रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड	372.	77692	मैसर्स इष्कॉन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
346.	76865	मैसर्स डायनेमिक फिन्कॉम प्राईवेट लिमिटेड	373.	74129	मैसर्स इपिका डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड
347.	72731	मैसर्स ई. के. आइसोलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	374.	69827	मैसर्स इरोड एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
348.	53390	मैसर्स ईगल कोल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	375.	33187	मैसर्स इरोस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
349.	89158	मैसर्स ईस्ट कोस्ट एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड	376.	46566	मैसर्स इशा ट्रेड्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
350.	65849	मैसर्स ईस्ट वेस्ट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	377.	76879	मैसर्स इस्से तार एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
351.	53465	मैसर्स ईस्ट-प्वाइन्ट कुरियर प्राईवेट लिमिटेड	378.	86550	मैसर्स इस्सेम प्रोजेक्ट एण्ड इस्टेट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
352.	77455	मैसर्स ईस्टर्न काओलिन्स प्राईवेट लिमिटेड	379.	33533	मैसर्स इस्सेन सिन्थेटिक्स (गाजियाबाद) प्राईवेट लिमिटेड
353.	28574	मैसर्स ईस्टर्न मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	380.	75821	मैसर्स एसके मर्कैन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
354.	28371	मैसर्स ईस्टर्न रोलर्स एण्ड स्टील टेप्स प्राईवेट लिमिटेड	381.	65951	मैसर्स एस्सपी इलेक्ट्रो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
355.	76466	मैसर्स ईस्टर्न स्पाइनर्स लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
382.	82074	मैसर्स इस्टेक टेक ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	407.	51231	मैसर्स एफएलटी-एएमबी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
383.	24217	मैसर्स यूरेका एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	408.	60848	मैसर्स फ्लुड टेक्निक प्राईवेट लिमिटेड
384.	80526	मैसर्स एवरब्राइट मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	409.	82829	मैसर्स फोरसम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
385.	63263	मैसर्स एवरेस्ट एडेसिव्स प्राईवेट लिमिटेड	410.	88445	मैसर्स फोरचून फ्यूजन कम्पोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
386.	61481	मैसर्स एवरेस्ट इन्डस्ट्रियल एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	411.	78290	मैसर्स फोटो मैन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
387.	88260	मैसर्स एवरीडे फूड प्राईवेट लिमिटेड	412.	87953	मैसर्स फोर कलर कम्प्यूनिक्शन प्राईवेट लिमिटेड
388.	45354	मैसर्स एकजीन्ट टी ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड	413.	49966	मैसर्स फ्रोनटेक पॉलीमर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
389.	17523	मैसर्स एक्सपर्ट एजेन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	414.	77989	मैसर्स फ्रगेन्टलाइन सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
390.	45457	मैसर्स एक्सपोजर (इण्डिया) जेम्स एण्ड जेवेलर्स प्राईवेट लिमिटेड	415.	83578	मैसर्स फर्न एन्टीक (इण्डिया) लिमिटेड
391.	17215	मैसर्स एक्सप्रेस प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	416.	60335	मैसर्स फुतुरा कैपिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड
392.	69837	मैसर्स एक्सटेरियर मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	417.	17568	मैसर्स जी बीयानी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
393.	35103	मैसर्स एक्सट्रुसन्स एग्रो ड्रेनेज लिमिटेड	418.	85229	मैसर्स जी एल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
394.	84221	मैसर्स एफ पी फाइनेन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	419.	59916	मैसर्स जी मर्कन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
395.	56624	मैसर्स फेयरडील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	420.	53431	मैसर्स जी डी सी डी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
396.	60132	मैसर्स फैंजी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	421.	81901	मैसर्स जी डी कान्टेक्ट इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	60207	मैसर्स फैल्कॉन इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	422.	74149	मैसर्स जी डी एस होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
398.	56981	मैसर्स फेव फिनवेस्ट इण्डिया लिमिटेड	423.	65282	मैसर्स जी वी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
399.	38439	मैसर्स फर्न इलेक्ट्रोमेक एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	424.	30893	मैसर्स गदोदिया प्राईवेट लिमिटेड
400.	65443	मैसर्स फाइवस्टार सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	425.	67386	मैसर्स गगन कैबिनेट प्राईवेट लिमिटेड
401.	85588	मैसर्स फ्लैड कंस्ट्रक्शन कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	426.	53724	मैसर्स गजमुक्ता ट्रेड एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
402.	94879	मैसर्स फ्लैगशिप इवेन्ट्स एण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	427.	61155	मैसर्स गमुत कम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड
403.	81586	मैसर्स फ्लेमिंगो इन्फोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	428.	61463	मैसर्स गणपति वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
404.	81587	मैसर्स फ्लेमिंगो सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड	429.	20627	मैसर्स गंगा कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
405.	24494	मैसर्स फ्लेक्स-ट्यूब प्राईवेट लिमिटेड	430.	86698	मैसर्स गार्डेन फार्म न्यूट्रीटीव प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
406.	54892	मैसर्स फ्लोवेल रबड़ एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	431.	88994	मैसर्स गार्डेन जूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			432.	69834	मैसर्स गार्गी व्यापार प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
433.	75483	मैसर्स गतनी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	459.	40554	मैसर्स गोल्डन पेन्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
434.	90270	मैसर्स गौरी गणेश मिल प्राईवेट लिमिटेड	460.	78460	मैसर्स गुड प्रोपले व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
435.	58886	मैसर्स गौरजा फिनकॉन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	461.	78684	मैसर्स गुडलक विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
436.	89562	मैसर्स जीडीएम इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	462.	78459	मैसर्स गुडन्यूज व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
437.	80544	मैसर्स जी पी पॉलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	463.	52656	मैसर्स गुडविल रिटर्नर्स प्राईवेट लिमिटेड
438.	51748	मैसर्स जी पी टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	464.	78876	मैसर्स गुडविन मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
439.	44279	मैसर्स गीत पुरुशोत्तम प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	465.	60590	मैसर्स गार्जियस लाइफ जेनरल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
440.	63292	मैसर्स गहना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	466.	64626	मैसर्स गौरव फिस्कल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
441.	85414	मैसर्स जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	467.	59433	मैसर्स गोवर्धन मर्केन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
442.	81299	मैसर्स जीम ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	468.	70851	मैसर्स ग्रीन हॉर्न कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
443.	31606	मैसर्स जेनरल सेरॉमिक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	469.	65445	मैसर्स ग्रीन मार्क वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
444.	20131	मैसर्स जेनरल लेबोरेटोरिज प्राईवेट लिमिटेड	470.	79943	मैसर्स ग्रीनेज रिसोर्ट एण्ड टूरिज्म लिमिटेड
445.	66013	मैसर्स घोष इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	471.	60768	मैसर्स गार्जियन परफार्मेंस पॉलिमर्स लिमिटेड
446.	88832	मैसर्स जिमपेक्स कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	472.	42935	मैसर्स गुप्ता पॉलिटैक्स प्राईवेट लिमिटेड
447.	69782	मैसर्स गिरिगंगा विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड	473.	33974	मैसर्स एच डी स्पाइसिज प्राईवेट लिमिटेड
448.	66640	मैसर्स जीकेडब्ल्यू प्रोपर्टीज लिमिटेड	474.	89958	मैसर्स एच एम सी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
449.	49790	मैसर्स ग्लासगो बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	475.	72489	मैसर्स हल्दिया इन्डस्ट्रियल गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
450.	87059	मैसर्स ग्लास फाइबर रीइनफोर्सड पॉलीमर्स लिमिटेड	476.	40850	मैसर्स हल्दिया मुदरान प्राईवेट लिमिटेड
451.	27485	मैसर्स ग्लासवेजियन सर्वेयर्स एण्ड एस्सेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	477.	58828	मैसर्स हल्दिया नाइट्रेट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
452.	50038	मैसर्स गोदावरी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	478.	42829	मैसर्स हल्दिया रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
453.	77042	मैसर्स गोदावरी मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	479.	46684	मैसर्स हैल्लोट्रेड एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
454.	74242	मैसर्स गोयल आर्किटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	480.	88116	मैसर्स हंस कागों केयर प्राईवेट लिमिटेड
455.	74241	मैसर्स गोयल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	481.	46023	मैसर्स हनुमान बारी कृषि कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
456.	30154	मैसर्स गोयल ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड	482.	38626	मैसर्स हनुमान (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
457.	44324	मैसर्स गोकुल डेयरी एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	483.	92129	मैसर्स हैप्पी एम्प्लूजमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
458.	26776	मैसर्स गोल्डन फाइबर फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	484.	90401	मैसर्स हैप्पी होम किचन एड्स लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
485.	53822	मैसर्स हरे कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	508.	71278	मैसर्स एचएमपी स्नेहलता उत्तर प्रदेश प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
486.	89355	मैसर्स हरजास होस्पीटेलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	509.	53548	मैसर्स होटेल स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
487.	77182	मैसर्स हेमाद्री प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	510.	74617	मैसर्स हमराही कार्मार्शियल प्राईवेट लिमिटेड
488.	45986	मैसर्स हरबर्ट केमिकल्स लिमिटेड	511.	56982	मैसर्स हाइपर मिडिया सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड
489.	88738	मैसर्स हरबी कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	512.	86260	मैसर्स आई आर इस्टेट्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
490.	44527	मैसर्स हरक्युलस पेपर बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड	513.	48575	मैसर्स आई पी ए मार्केटिंग लिमिटेड
491.	47363	मैसर्स हेरिटेज फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	514.	64423	मैसर्स आईडियल चेम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड
492.	31092	मैसर्स हरमेसेतास ऑफ इण्डिया लिमिटेड	515.	78152	मैसर्स आईडियल ट्रेडलिक प्राईवेट लिमिटेड
493.	90260	मैसर्स हाई टेक ल्यूब्रीकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	516.	76530	मैसर्स इमकॉन इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
494.	54915	मैसर्स हाई-टेक-निर्माण इन्जीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	517.	25367	मैसर्स इण्डियन बिल्डिंग एलिमेन्ट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
495.	45387	मैसर्स हाईपोलीमेरीक इन्सुलेशन इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	518.	30612	मैसर्स इण्डियन गॉलीअमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
496.	61839	मैसर्स हाईवे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	519.	14535	मैसर्स इण्डियन टिकवुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
497.	50990	मैसर्स हिमाद्री फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	520.	81204	मैसर्स इन्डोबेल कम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड
498.	39471	मैसर्स हिमाद्री वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	521.	75491	मैसर्स इन्द्रानी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	22191	मैसर्स हिन्द प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	522.	71792	मैसर्स इन्द्रनील होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
500.	57671	मैसर्स हीरालाल ऑयल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	523.	69647	मैसर्स इन्दु प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
501.	43047	मैसर्स हाईटेक डेवलपमेन्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	524.	45701	मैसर्स इन्दु सिलिका प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
502.	28644	मैसर्स हिरिड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	525.	14634	मैसर्स इन्डस प्रेस एण्ड पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड
503.	59698	मैसर्स एचकेएम कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	526.	48297	मैसर्स इन्फोरमेटिका सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
504.	59326	मैसर्स एचएमसी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	527.	90586	मैसर्स इन्फोरमेशन कीस्ट्रोक्स ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड
505.	91093	मैसर्स एचएमपी रैलीफेन मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड	528.	59852	मैसर्स आईएनआई मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
506.	65434	मैसर्स एचएमपी शाहाबाद सिमेन्ट्स लिमिटेड	529.	89375	मैसर्स इन्नोप्लान (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
507.	73281	मैसर्स एचएमपी स्नेहलता तमिल नाडु प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	530.	77365	मैसर्स इन्सेट मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
			531.	87196	मैसर्स इन्स्टीच्यूट ऑफ होटेल मैनेजमेन्ट एण्ड टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
532.	28738	मैसर्स इन्स्ट्रुमेन्ट सिस्टम्स ईस्टर्न प्राईवेट लिमिटेड	557.	46685	मैसर्स जय विजय ट्रेड एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
533.	39280	मैसर्स इन्सु इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	558.	63716	मैसर्स जयेर ऑयल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
534.	29386	मैसर्स इन्श्योरेन्स कंसल्टेन्ट्स एण्ड रि-इन्श्योरेन्स ब्रोकर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	559.	64075	मैसर्स जयपी कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
535.	27180	मैसर्स इन्टरनेशनल कैफेटेरिया प्राईवेट लिमिटेड	560.	45236	मैसर्स जेसीटीआर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
536.	68704	मैसर्स इन्टरनेशनल फण्ड मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	561.	73663	मैसर्स जीवनसुधा ट्रेडलिक प्राईवेट लिमिटेड
537.	36520	मैसर्स इन्टरविजन विडियो एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	562.	24857	मैसर्स जेलोका इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
538.	91106	मैसर्स इन्ट्रेपीड डिजिटल प्राईवेट लिमिटेड	563.	30938	मैसर्स जेम्स इलेक्ट्रोमेक प्राईवेट लिमिटेड
539.	82075	मैसर्स इन्वेस्टमेन्ट स्ट्रेटेजी एण्ड रिस्क एनालिसिस प्राईवेट लिमिटेड	564.	92672	मैसर्स जेन्सन एण्ड निकोलसन इन्डस्ट्रियल कोर्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
540.	94470	मैसर्स इरिस टी इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	565.	92683	मैसर्स जेन्सन एण्ड निकोलसन पाऊडर कोर्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
541.	77945	मैसर्स इशान कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	566.	75609	मैसर्स जेपी मार्बल एण्ड मिनेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
542.	74596	मैसर्स इशिता एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड	567.	72407	मैसर्स जेवेल पैक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
543.	76727	मैसर्स आईएसआर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	568.	53481	मैसर्स जोरिन कार्बन प्राईवेट लिमिटेड
544.	43659	मैसर्स आईएसएस होल्डिंग्स लिमिटेड	569.	27824	मैसर्स जोशी हायर पर्चेज एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
545.	49045	मैसर्स जैकर्स इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड	570.	19972	मैसर्स जूट फाइबर कम्पनी लिमिटेड
546.	82655	मैसर्स जगदम्बा मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	571.	38041	मैसर्स ज्योति वस्त्रालय प्राईवेट लिमिटेड
547.	65762	मैसर्स जगधात्री एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड	572.	46849	मैसर्स के एण्ड आर मर्केन्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
548.	34913	मैसर्स जैन जूट कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	573.	65385	मैसर्स के पी बी बुक्स प्राईवेट लिमिटेड
549.	79365	मैसर्स जैन मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	574.	29398	मैसर्स काझुमा इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
550.	30631	मैसर्स जैनसन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	575.	49395	मैसर्स काका रोडलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
551.	32474	मैसर्स जजोदिया टिम-को प्राईवेट लिमिटेड	576.	53825	मैसर्स कालिका कोल एण्ड एलायड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
552.	11213	मैसर्स जेम्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	577.	72401	मैसर्स कामक्षी एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
553.	58021	मैसर्स जनहित सेविंग्स एण्ड क्रेडिट (इण्डिया) लिमिटेड	578.	37897	मैसर्स कानोई कामर्शियल्स प्राईवेट लिमिटेड
554.	21463	मैसर्स जनार्दन राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	579.	30615	मैसर्स कनोरिया पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
555.	94985	मैसर्स जानी नोवेल्टीज प्राईवेट लिमिटेड	580.	90651	मैसर्स कपीश मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
556.	45671	मैसर्स जैप कंस्ट्रक्शन एण्ड फैब्रिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	581.	52932	मैसर्स कपूर विनियर एण्ड वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
582.	87259	मैसर्स करीमबक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	608.	47661	मैसर्स किट केट फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
583.	79182	मैसर्स कर्नावती डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड	609.	72741	मैसर्स किट्टी मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
584.	74125	मैसर्स कसा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	610.	43248	मैसर्स केएलडीज द्वायज प्राईवेट लिमिटेड
585.	60305	मैसर्स कस्तुरी स्टॉकइन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	611.	31204	मैसर्स केएलआईएम कामर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
586.	62277	मैसर्स कावेरी सुगर प्राईवेट लिमिटेड	612.	57105	मैसर्स केएमपी ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
587.	85809	मैसर्स कहीम फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	613.	85143	मैसर्स केएमआर इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
588.	77409	मैसर्स केबीएस फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	614.	30766	मैसर्स कोचर ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
589.	40108	मैसर्स केदारनाथ मन्नालाल प्राईवेट लिमिटेड	615.	4085	मैसर्स कोहिनूर फ्लोर मिल्लिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
590.	29270	मैसर्स केडिया फोर्जिंग एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	616.	27322	मैसर्स कोजानी जूट बालिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
591.	46016	मैसर्स केडिया साड़ी प्राईवेट लिमिटेड	617.	66515	मैसर्स कोन्कन ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
592.	75358	मैसर्स केनिलवर्थ एबीसी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	618.	67190	मैसर्स केपीके इन्टरनेशनल लिमिटेड
593.	74126	मैसर्स केन्नेक्स डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड	619.	31840	मैसर्स क्रान्सविप इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
594.	59071	मैसर्स कर्नेल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	620.	86033	मैसर्स क्राटिव टेक्स्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
595.	68151	मैसर्स केशन टेक्स्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	621.	93853	मैसर्स केआरडी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
596.	65493	मैसर्स खेतान फिस्कल एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	622.	41944	मैसर्स केआरएन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
597.	66979	मैसर्स खण्डेलवाल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	623.	89233	मैसर्स केएसडी मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
598.	21786	मैसर्स खास गोविन्दपुर कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	624.	91730	मैसर्स केएसपीएन मैरिटाइम एकेडेमी प्राईवेट लिमिटेड
599.	43957	मैसर्स खतुन्दी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	625.	59988	मैसर्स कुबेर व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
600.	67192	मैसर्स केआईसी पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड	626.	76269	मैसर्स एल मदनलाल मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
601.	29726	मैसर्स किमती बेनेफिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	627.	71197	मैसर्स ला नॉयर फ्यूल्स लिमिटेड
602.	38072	मैसर्स काइनेटिक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	628.	83690	मैसर्स लबपुर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
603.	90040	मैसर्स किंजल एक्सपोर्ट एण्ड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	629.	80616	मैसर्स लाहोती फिन्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
604.	27495	मैसर्स किरण ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड	630.	86739	मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
605.	50963	मैसर्स किर्ती होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	631.	47071	मैसर्स लालजी राम छाजूमल प्राईवेट लिमिटेड
606.	78300	मैसर्स किशन लक्ष्मी एग्रो एण्ड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड			
607.	44028	मैसर्स किशोरी लाल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड			



1	2	3	1	2	3
632.	60223	मैसर्स लैन्सी हाऊसिंग फाईनेन्शियल प्राईवेट लिमिटेड	657.	93917	मैसर्स एम एस सी इन्वोरेन्स एजेन्स प्राईवेट लिमिटेड
633.	58448	मैसर्स लैसडाउन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	658.	47173	मैसर्स मां तारा बोर्ड एण्ड पेपर मिल प्राईवेट लिमिटेड
634.	57279	मैसर्स लापोग इन्वेस्टमेन्ट एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	659.	91349	मैसर्स मां इन्फोटेड प्राईवेट लिमिटेड
635.	72327	मैसर्स लासनी कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	660.	88365	मैसर्स मां मंगल चंडी एल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
636.	63983	मैसर्स लूरल मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	661.	76099	मैसर्स मां सरस्वती रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड
637.	67493	मैसर्स लाविश टैक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड	662.	86930	मैसर्स माधवलाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
638.	83139	मैसर्स लाब्योय इनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	663.	72587	मैसर्स मधुरीमा गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
639.	82218	मैसर्स एलसीबी कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	664.	80917	मैसर्स माद्री ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
640.	57443	मैसर्स लियो कार्ड बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड	665.	68050	मैसर्स माई एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड
641.	79778	मैसर्स लेक्सीस एक्सपोर्टक प्राईवेट लिमिटेड	666.	38974	मैसर्स मगनो पल्स प्राईवेट लिमिटेड
642.	89685	मैसर्स लाइफ गार्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	667.	57139	मैसर्स मगनम कनक्लेव फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
643.	52069	मैसर्स लिमटेक्स एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड	668.	69341	मैसर्स महाघन ट्रेक प्राईवेट लिमिटेड
644.	43597	मैसर्स लिटिल हट्स एण्ड होम्स प्राईवेट लिमिटेड	669.	61237	मैसर्स महारगी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
645.	80946	मैसर्स लोकनाथ कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	670.	82193	मैसर्स महारानी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
646.	80863	मैसर्स लॉगलाइफ डिलकम प्राईवेट लिमिटेड	671.	39996	मैसर्स महासंगम फाइनेन्स एण्ड इन्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
647.	88649	मैसर्स लोर्ड्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	672.	76168	मैसर्स महावीर स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड
648.	78696	मैसर्स लवकुश एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	673.	60185	मैसर्स मजुमदार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
649.	63694	मैसर्स लक्नो जर्दा फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	674.	78572	मैसर्स मालाबर पेरल प्राईवेट लिमिटेड
650.	63909	मैसर्स लुमक्स मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	675.	44590	मैसर्स मल्होत्रा ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
651.	74875	मैसर्स लुन्डिया स्टील एण्ड फब प्राईवेट लिमिटेड	676.	52747	मैसर्स मालासिसरी फिजिकल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
652.	47307	मैसर्स एम एच टी फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	677.	46689	मैसर्स मलया ट्रेड एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
653.	22613	मैसर्स एम पी बिल्डर्स लिमिटेड	678.	75084	मैसर्स माम इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
654.	56776	मैसर्स एम भट्टाचारिया लेबोरेटोरिज प्राईवेट लिमिटेड	679.	77310	मैसर्स माम रिप्रोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
655.	60164	मैसर्स एम. डी. एस. सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड	680.	89510	मैसर्स माम्स सॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
656.	90566	मैसर्स एम. आर. पॉलिपैक प्राईवेट लिमिटेड	681.	75225	मैसर्स मनीषा कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
			682.	48200	मैसर्स मन्त्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
683.	47078	मैसर्स मारिया कन्स्यूमर्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	710.	24680	मैसर्स मित्रा मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
684.	41373	मैसर्स मरलीन लेबोरेटोरीज प्राईवेट लिमिटेड	711.	86457	मैसर्स एम एम जी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
685.	81737	मैसर्स मारमेक प्राईवेट लिमिटेड	712.	92736	मैसर्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
686.	74055	मैसर्स मरुभूमि गुड्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	713.	51311	मैसर्स एम एम आई इम्पेक्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
687.	48973	मैसर्स मारभेलन इन्डस्ट्रियल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	714.	74463	मैसर्स मोबर मिनीगं लिमिटेड
688.	45228	मैसर्स मस्कट टेनरी प्राईवेट लिमिटेड	715.	22190	मैसर्स मोबाइल फिनान्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
689.	46279	मैसर्स मास्टर क्रिएटिव कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	716.	17206	मैसर्स मोबिलिटी एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
690.	72996	मैसर्स मौरीन फैशन प्राईवेट लिमिटेड	717.	78209	मैसर्स मोडर्न डेलकम्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
691.	87741	मैसर्स मैक्सीट्रान्ज प्राईवेट लिमिटेड	718.	43321	मैसर्स मोडर्न पब्लिसर एण्ड ट्रेडर्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
692.	56756	मैसर्स एम बी एस टेकमाटीक्स प्राईवेट लिमिटेड	719.	50420	मैसर्स मोडर्न स्पॉन्सरेट एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
693.	46261	मैसर्स मीरा विलेज रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	720.	34229	मैसर्स मोदी एण्ड लखौटिया कन्सल्टेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
694.	81039	मैसर्स मेगा ग्रीनफील्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	721.	54321	मैसर्स मोहित कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
695.	82985	मैसर्स मेगा स्क्रीन एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	722.	51718	मैसर्स मोनेक्स कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
696.	56284	मैसर्स मेगाठेरम प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	723.	45051	मैसर्स मोनेक्स फिनान्स प्राईवेट लिमिटेड
697.	25976	मैसर्स मेरकन्टिल ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	724.	28906	मैसर्स मोनीफ्रेज प्राईवेट लिमिटेड
698.	78957	मैसर्स मेट्रो गुड्स प्राईवेट लिमिटेड	725.	80488	मैसर्स मनोज स्क्रीन प्रीटिंग एण्ड मिटिंग प्राईवेट लिमिटेड
699.	42973	मैसर्स मेट्रो पॉलिटन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	726.	78095	मैसर्स मृदुल कॉमर्सियल प्राईवेट लिमिटेड
700.	24164	मैसर्स माइक्रो मैनुफैक्चर प्राईवेट लिमिटेड	727.	79025	मैसर्स मृगनैनी सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
701.	84453	मैसर्स माइक्रो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	728.	67495	मैसर्स मुदिता कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड
702.	73446	मैसर्स मिडको कन्सल्टेन्ट्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	729.	44249	मैसर्स मल्टी स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
703.	88279	मैसर्स मिल्लत ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	730.	87159	मैसर्स मल्टी टेक सोलियो इकोनॉमिक सर्वे कन्सल्टेन्ट्स एण्ड इन्टरप्राइजेज
704.	69844	मैसर्स मिल्लिया विनकोम प्राईवेट लिमिटेड	731.	93229	मैसर्स मल्टीकॉन हाऊसिंग प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
705.	89741	मैसर्स मान्डवर्क सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड	732.	45058	मैसर्स मल्टीपरपज डेवलपर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
706.	50680	मैसर्स मिंक इन्फोरमेशन प्राईवेट लिमिटेड			
707.	66824	मैसर्स मिंक लेदर्स फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड			
708.	87188	मैसर्स मिनू मिनरल प्राईवेट लिमिटेड			
709.	78464	मैसर्स मिरीन्डा मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
733.	72340	मैसर्स मल्टीविजन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	760.	66552	मैसर्स नव केतन इम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
734.	67876	मैसर्स मुनीराज मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	761.	27700	मैसर्स नवदीपम रेडियो प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज
735.	76061	मैसर्स मुन्ना बाबु फुड्स प्राईवेट लिमिटेड	762.	63321	मैसर्स नवदुर्गा सिन्टेक्स
736.	34282	मैसर्स मुरारका इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	763.	35879	मैसर्स नवीन कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
737.	62950	मैसर्स मुरेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	764.	45678	मैसर्स नवीण इन्डस्ट्रियल स्पेयर प्राईवेट लिमिटेड
738.	83521	मैसर्स मिरीन्डा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	765.	79204	मैसर्स नरोल्क कॉमर्श प्राईवेट लिमिटेड
739.	50035	मैसर्स एन जे फिजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	766.	93635	मैसर्स न्यू एज इन्वोरेन्स एजेन्स प्राईवेट लिमिटेड
740.	80636	मैसर्स एन आर बी इन्टीरियर एण्ड डिजाइनर प्राईवेट लिमिटेड	767.	93536	मैसर्स न्यू फ्रान्चियर फायर फाइटर प्राईवेट लिमिटेड
741.	23649	मैसर्स एन आर मुखर्जी प्राईवेट लिमिटेड	768.	70834	मैसर्स न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
742.	53726	मैसर्स एन जी इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	769.	51652	मैसर्स न्यू इण्डिया फाइनान्स लिमिटेड
743.	8570	मैसर्स एन एम. रावचौधुरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	770.	85698	मैसर्स न्यूफाइलड मॉडलर डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
744.	71139	मैसर्स एन एस वूलेन गार्मेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	771.	77827	मैसर्स नवजेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
745.	31904	मैसर्स नाहा इन्जीनियरिंग एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	772.	91860	मैसर्स न्यू लाइफ फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
746.	79705	मैसर्स नमन एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	773.	39379	मैसर्स न्यूटेक रॉल्स एमफीज एण्ड प्रोपर्टीज
747.	90177	मैसर्स नमन सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	774.	28525	मैसर्स निगम ब्रदर्स (सेल्स) प्राईवेट लिमिटेड
748.	63053	मैसर्स मानदिनी टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड	775.	90173	मैसर्स निखार कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
749.	91528	मैसर्स नारायणी नीटवेल प्राईवेट लिमिटेड	776.	63266	मैसर्स निखिल अकॉन प्राईवेट लिमिटेड
750.	57800	मैसर्स नारायणी गारान्टिज प्राईवेट लिमिटेड	777.	35055	मैसर्स निकुंज कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
751.	79721	मैसर्स नरूला डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	778.	81055	मैसर्स निलोग कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
752.	11031	मैसर्स नारुन्दि ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	779.	85859	मैसर्स निप्पन टेकना सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
753.	63436	मैसर्स नरविक इक्विप प्राईवेट लिमिटेड	780.	72952	मैसर्स निरी किशन गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
754.	94203	मैसर्स नस्कर कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	781.	62414	मैसर्स निशिचिन्त कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
755.	43829	मैसर्स नाथवेल्ड एण्ड मेटल इन्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	782.	86010	मैसर्स नॉरफ्रोस्ट एसी सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
756.	9925	मैसर्स नेशनल मॉडल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	783.	79478	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट रोड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
757.	22403	मैसर्स नेशनल उद्योग प्राईवेट लिमिटेड			
758.	47274	मैसर्स नेचर क्योर फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड			
759.	28375	मैसर्स नव भारत प्लास्टिक मोल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
784.	86295	मैसर्स नार्थ प्वाइन्ट रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	812.	48405	मैसर्स पी एस रबर उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
785.	65857	मैसर्स नार्थ वेस्ट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	813.	75238	मैसर्स पिसिफिक ट्रेडकॉम प्राईवेट लिमिटेड
786.	37162	मैसर्स नॉदर्न इण्डिया ब्लेड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	814.	71740	मैसर्स पदमावती कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
787.	74935	मैसर्स एन आर आई रेट्रेस प्राईवेट लिमिटेड	815.	93125	मैसर्स पीजस ब्रान्ड स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
788.	53552	मैसर्स एन वी सर्वो टेक प्राईवेट लिमिटेड	816.	39952	मैसर्स पहाड़ीमाता प्रोप्राइर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
789.	86087	मैसर्स ऑब्जेक्टिविटी सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	817.	58912	मैसर्स पैलेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
790.	51908	मैसर्स ओ बी एस ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड	818.	59930	मैसर्स पल्लिबन्धु सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
791.	56243	मैसर्स ओडसि हाऊसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	819.	84679	मैसर्स परदेशी वेजेटेशन फार्म प्राईवेट लिमिटेड
792.	28022	मैसर्स ओक्टी टी स्टेट प्राईवेट लिमिटेड	820.	76376	मैसर्स पारामाऊण्ट कन्फेक्शनर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
793.	57559	मैसर्स ऑलपम्स बुक्स प्राईवेट लिमिटेड	821.	73799	मैसर्स पारामाऊण्ट विजन प्राईवेट लिमिटेड
794.	63658	मैसर्स ऑम आनन्दम डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	822.	74056	मैसर्स पारस बिन्द्रेड प्राईवेट लिमिटेड
795.	52184	मैसर्स ऑमकृशना डेवलपर्स एण्ड कन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	823.	69861	मैसर्स परिक्रमा मर्केन्टायल प्राईवेट लिमिटेड
796.	37332	मैसर्स औरेंज वेल्ली टी लिमिटेड	824.	51422	मैसर्स पारामाऊण्ट वर्ल्डवाइड कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
797.	80674	मैसर्स अरबित एम्पलियेंस प्राईवेट लिमिटेड	825.	63231	मैसर्स पारॉट नेस्टकॉन प्राईवेट लिमिटेड
798.	70965	मैसर्स अरबित कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	826.	81522	मैसर्स पास्का फाइनान्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
799.	59727	मैसर्स अरियन इन्टर ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	827.	51810	मैसर्स पटोकोला राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
800.	64005	मैसर्स अरमग ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड	828.	86875	मैसर्स पाट्रीट सिक्कुरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
801.	75332	मैसर्स ऑस्ट्रे ट्रेडिंग	829.	32495	मैसर्स पी भाग केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
802.	63887	मैसर्स ऑटक्लिन विनिमय प्राईवेट लिमिटेड	830.	75211	मैसर्स पर्ल ट्रेडकॉम
803.	75139	मैसर्स ऑटो पैकेज प्राईवेट लिमिटेड	831.	89764	मैसर्स पेकॉन इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
804.	57078	मैसर्स ऑवर-टेक सेविंग हाऊसिंग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	832.	52631	मैसर्स पिआन इन्डस्ट्रियल फैब्रिक प्राईवेट लिमिटेड
805.	34109	मैसर्स ऑन (इण्डिया) फाइनान्स लिमिटेड	833.	22659	मैसर्स पेलिकॉन इन्जीनियरिंग
806.	88007	मैसर्स एफ डी एफ पोलमर प्राईवेट लिमिटेड	834.	66546	मैसर्स पर्सी आयराॅन प्राईवेट लिमिटेड
807.	33941	मैसर्स पी एच एसोसियेट प्राईवेट लिमिटेड	835.	76422	मैसर्स परफेक्ट वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
808.	46971	मैसर्स पी के बल्वस प्राईवेट लिमिटेड	836.	60208	मैसर्स पेडुनिया होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
809.	94519	मैसर्स पी के दास एसोसिएट्स एण्ड कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	837.	86675	मैसर्स पिनेकल शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
810.	31643	मैसर्स पी के टी प्राईवेट लिमिटेड			
811.	62399	मैसर्स पी ओ डी एग्री फोरेस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
838.	75236	मैसर्स पिताम्बरी ट्रेडकॉम प्राईवेट लिमिटेड	863.	80799	मैसर्स प्रिन्ट ओ एडवरटाइजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
839.	18216	मैसर्स प्लास्टो आयरन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	864.	40058	मैसर्स प्रिन्टेड सरक्यूट्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
840.	36333	मैसर्स प्लाजा इलैक ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	865.	24324	मैसर्स प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
841.	80978	मैसर्स प्लुटस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	866.	42755	मैसर्स प्रिन्टोप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
842.	68015	मैसर्स प्लुटस टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	867.	88904	मैसर्स प्रोकोमॉन प्राईवेट लिमिटेड
843.	42997	मैसर्स पीएमपी सील्स प्राईवेट लिमिटेड	868.	87950	मैसर्स प्रोलांग कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
844.	11582	मैसर्स पोड्यार माइनिंग कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड	869.	88474	मैसर्स प्रोमेगा एयरकॉन इम्पलक्स प्राईवेट लिमिटेड
845.	57067	मैसर्स पोलिकिड रेसिन प्राईवेट लिमिटेड	870.	88134	मैसर्स प्रोसॉफ्ट इन्जीनियर्स एण्ड एसोसिएट्स
846.	28023	मैसर्स पूलबॉग टी गार्डन प्राईवेट लिमिटेड	871.	90802	मैसर्स प्रोसिस ई कॉम प्राईवेट लिमिटेड
847.	90701	मैसर्स प्रभात रजनी इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	872.	68192	मैसर्स प्रोटेक्स सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
848.	57659	मैसर्स प्रभु निवास हाऊसिंग एण्ड लैण्ड डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	873.	42495	मैसर्स प्रोटोस्टार इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
849.	48400	मैसर्स प्रगति गियर्स लिमिटेड	874.	50854	मैसर्स प्रुडेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
850.	37377	मैसर्स प्रगति प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	875.	86896	मैसर्स पी एस ए मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
851.	81943	मैसर्स प्रकाश सेल्स एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	876.	49052	मैसर्स पूजा टर्नकीज प्राईवेट लिमिटेड
852.	61032	मैसर्स प्रक्रीतप्लान्ट मीडिया लिमिटेड	877.	16069	मैसर्स प्योर ड्रग एण्ड केमिकल्स लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड
853.	18599	मैसर्स प्रसाद एण्ड स्टीफेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	878.	86733	मैसर्स प्योर होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
854.	39114	मैसर्स प्रसाद कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	879.	78466	मैसर्स पुष्पक कमाडिटीज प्राईवेट लिमिटेड
855.	50066	मैसर्स प्रसेनासेन्टर इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	880.	72360	मैसर्स क्वालिटी फ्राइट्स लिमिटेड
856.	26917	मैसर्स प्रतापमहल गोविन्दराम फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	881.	63480	मैसर्स क्यूलेमेन विनिमेय प्राईवेट लिमिटेड
857.	73108	मैसर्स प्रीमियर एडकॉन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	882.	23048	मैसर्स आर. सेन एण्ड को टिम्बर ट्रीटमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
858.	36320	मैसर्स प्रिटी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	883.	32608	मैसर्स आर. बी. एच. फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
859.	63642	मैसर्स प्राइमोसोनिक टेलिविजन प्राईवेट लिमिटेड	884.	85945	मैसर्स आर. के. एम्ब्राइडरी प्राईवेट लिमिटेड
860.	82984	मैसर्स प्राइम पेट्रोप्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	885.	58347	मैसर्स आर. के. लैण्ड एण्ड हाऊस प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
861.	60209	मैसर्स प्राइम रोस इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	886.	27590	मैसर्स आर. एल. सरॉफ एण्ड को जूट एण्ड गनी प्राईवेट लिमिटेड
862.	60005	मैसर्स प्रिंक फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	887.	57050	मैसर्स आर. आर. कन्फेक्शनर्स प्राईवेट लिमिटेड
			888.	59919	मैसर्स आर. आर. मर्कनटाइल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
889.	37259	मैसर्स रास मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	918.	42510	मैसर्स रेलवेवन्स कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
890.	51621	मैसर्स रेसवे कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	919.	83032	मैसर्स रिलाएबल एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
891.	30609	मैसर्स रचना सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	920.	24312	मैसर्स रिलाएबल मेटल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
892.	40140	मैसर्स राधा कृष्ण राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	921.	74688	मैसर्स रिलाएबल रेडिएन्ट्स (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड
893.	84602	मैसर्स राधे फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	922.	63097	मैसर्स रेलायन्ट लीजिंग एण्ड सिक्युरिटी प्राईवेट लिमिटेड
894.	76873	मैसर्स रेडियन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	923.	43107	मैसर्स रिसोर्स विजेन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
895.	69722	मैसर्स रेडिक्स सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	924.	88266	मैसर्स रेक्स एपार्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
896.	55384	मैसर्स राघव ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड	925.	88182	मैसर्स रेक्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
897.	42943	मैसर्स राहुल पोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	926.	80386	मैसर्स रिद्वीयम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
898.	44377	मैसर्स राय सिंघ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	927.	68980	मैसर्स रिंगर टाइअप प्राईवेट लिमिटेड
899.	20030	मैसर्स रेलवे लेवर लिमिटेड	928.	29583	मैसर्स राइज सेविंग एण्ड चिटफण्ड प्राईवेट लिमिटेड
900.	43550	मैसर्स रॉय सन्स एग्रो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	929.	59648	मैसर्स रीता पेपरकेम प्राईवेट लिमिटेड
901.	88318	मैसर्स राज रिप्रेसमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	930.	91912	मैसर्स रिश्वर एण्ड स्ट्रावेरी मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
902.	41163	मैसर्स राजा कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	931.	52741	मैसर्स आरकेएके मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
903.	44743	मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	932.	59918	मैसर्स आर के ओ मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
904.	19474	मैसर्स राजगडिया ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	933.	91579	मैसर्स आर एम एस सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
905.	65035	मैसर्स राजलक्सी फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	934.	30635	मैसर्स रॉबर्ट्स मेकलिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
906.	75227	मैसर्स राजपूत इन्जीनियरिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	935.	32561	मैसर्स रॉबर्ट मेकलिंग कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
907.	82806	मैसर्स राकेश प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड	936.	48230	मैसर्स राबिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
908.	91098	मैसर्स रैल्लीवूल्फ एचएमपी मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड	937.	50812	मैसर्स रॉकेट हाऊसिंग फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
909.	89269	मैसर्स रेजिता क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड	938.	49053	मैसर्स रोहन इन्जीनियर प्राईवेट लिमिटेड
910.	43155	मैसर्स रत्नदीप स्टेड्स प्राईवेट लिमिटेड	939.	32563	मैसर्स रॉकम ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
911.	16089	मैसर्स रेज प्राईवेट लिमिटेड	940.	80177	मैसर्स राहित कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
912.	89323	मैसर्स आरसीजी टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	941.	60451	मैसर्स रोलैण्ड पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
913.	60190	मैसर्स आर डी जी कम्प्यूटी प्राईवेट लिमिटेड	942.	78465	मैसर्स रोलैण्ड सेल्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
914.	66554	मैसर्स रेबेना कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड			
915.	79312	मैसर्स रेकॉन डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड			
916.	91696	मैसर्स रेडस्टार इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड			
917.	46102	मैसर्स रेडशन्स शिवा सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
943.	50796	मैसर्स रोडोमैक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
944.	81931	मैसर्स राव टेक कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
945.	59040	मैसर्स राव ट्रेडिंग्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
946.	80901	मैसर्स रॉयल फाज्कोज एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
947.	66616	मैसर्स रॉयल देनरीज प्राईवेट लिमिटेड
948.	87172	मैसर्स रॉयच औग्रेनिज प्राईवेट लिमिटेड
949.	70176	मैसर्स रॉजेली मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
950.	54842	मैसर्स रेंक शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
951.	90117	मैसर्स रेस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
952.	67417	मैसर्स रूबी टूर एण्ड कोरियर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
953.	70310	मैसर्स रूडिया इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
954.	52252	मैसर्स रूडिया हाऊसिंग डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
955.	87566	मैसर्स रूमानी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
956.	63290	मैसर्स रून्नर कोरिया एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
957.	67429	मैसर्स रूपतारा अभरा प्राईवेट लिमिटेड
958.	66543	मैसर्स रूपतारा फुड प्राईवेट लिमिटेड
959.	76026	मैसर्स रूरमल रत्नलाल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
960.	80604	मैसर्स रस्ल स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
961.	37604	मैसर्स एस एण्ड सी स्पेशिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
962.	8913	मैसर्स एस एस देवी जाम्बद कॉल कन्सर्न प्राईवेट लिमिटेड
963.	83638	मैसर्स एस एस के इण्डिका सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
964.	40175	मैसर्स एस एस मेरीन प्राईवेट लिमिटेड
965.	57125	मैसर्स एस डी निर्माण हाऊसिंग डेवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

टी. पी. शमी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. क.र./प.ब./आईपीसी/मास्टर फाइल-2/560/एसईएस/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 300 कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	55977	मैसर्स एस जी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	39015	मैसर्स एस के सन्स हाऊस ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	93547	मैसर्स एस एम गेस्ट हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
4.	54812	मैसर्स एस एम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	39642	मैसर्स एस एन फ्रेमेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	63635	मैसर्स एककस आर बी डेसेज प्राईवेट लिमिटेड
7.	71143	मैसर्स एस एस कम्प्यूटेक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	47272	मैसर्स सबरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	30318	मैसर्स साधुखान ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	45054	मैसर्स सफरर फुटवेयर प्राईवेट लिमिटेड
11.	80091	मैसर्स सेप्टी फिनकॉम प्राईवेट लिमिटेड
12.	43601	मैसर्स सागरिका इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
13.	38649	मैसर्स साहाल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	82938	मैसर्स सै हार्ड्स राम इन्क्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	65607	मैसर्स सेमन्डस एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
16.	56225	मैसर्स सेक्लर ट्रे फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
17.	75456	मैसर्स सालासरजी स्टील प्राईवेट लिमिटेड
18.	74353	मैसर्स समग्र टाई-अप प्राईवेट लिमिटेड
19.	74713	मैसर्स सम्प्रती कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
20.	60587	मैसर्स सम्राट फीड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	29925	मैसर्स समरांस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	47331	मैसर्स संगम होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
23.	86738	मैसर्स संगनेरिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड	48.	47024	मैसर्स सी बड होटल एण्ड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
24.	42925	मैसर्स संगीता किरण बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	49.	42897	मैसर्स सी टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड
25.	87158	मैसर्स संयोग एसोसिएट कारपोरेट सर्विसेज लिमिटेड	50.	68054	मैसर्स सीरीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
26.	64662	मैसर्स सानमति सिक्कुरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	51.	87177	मैसर्स सेक्रेट आई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
27.	50619	मैसर्स सनरोज मार्केटिंग एण्ड इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	52.	80331	मैसर्स शेखर विल्विंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
28.	28123	मैसर्स सन्तोष टूल्स मैनुफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	53.	69006	मैसर्स शेखमीन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	58843	मैसर्स सप्पहीरे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	54.	55404	मैसर्स सेन एण्ड पण्डित सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30.	64886	मैसर्स शरद एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	55.	90908	मैसर्स सेम्बो कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31.	47015	मैसर्स शारदा इलेक्ट्रीकल इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	56.	65893	मैसर्स सेनोरीता एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
32.	87358	मैसर्स सराफ ऑटो फाइन प्राइवेट लिमिटेड	57.	65458	मैसर्स सेनसेक्स कारपोरेट फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड
33.	12944	मैसर्स सराफ ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड	58.	74478	मैसर्स सेन्सकॉन कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
34.	5218	मैसर्स सरला प्रिन्टिंग वर्क्स लिमिटेड	59.	48528	मैसर्स सेनट्रान्स प्रोपर्टीज एण्ड मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
35.	33449	मैसर्स शारदाराम मनमोहनलाल लिमिटेड	60.	45498	मैसर्स सेनट्रान्स ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
36.	53262	मैसर्स सरोस स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	61.	60755	मैसर्स सधिकेम्न ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
37.	45807	मैसर्स सर्वमंगला प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	62.	81885	मैसर्स सेठी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
38.	53372	मैसर्स शताब्दी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	63.	86967	मैसर्स सेवा मन्दिर प्राइवेट लिमिटेड
39.	73394	मैसर्स स्टेलाइट पॉलीवुड प्राइवेट लिमिटेड	64.	47512	मैसर्स सुगम टेक्सटाईल इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
40.	41887	मैसर्स सत्या ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	65.	58834	मैसर्स सैलन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
41.	71102	मैसर्स सुदित्य फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	66.	70805	मैसर्स शाकित होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
42.	63502	मैसर्स सावन्तिवादी काम्मोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड	67.	28086	मैसर्स शारदीक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
43.	78000	मैसर्स सवेरा कन्सल्टेन्सी एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	68.	34269	मैसर्स शारदिया फाइनान्स एण्ड जेनरल इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
44.	16700	मैसर्स सावित्री ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	69.	43647	मैसर्स शर्मा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
45.	83136	मैसर्स शयूज रीडिंग एण्ड कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड	70.	57157	मैसर्स शर्मा लक्ष्मी नारायण प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
46.	70907	मैसर्स शसिफिकेट डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड			
47.	23802	मैसर्स स्क्रीन शॉ प्राइवेट लिमिटेड			



1	2	3	1	2	3
71.	82039	मैसर्स शशिकान्त कॉम्पडियल प्राईवेट लिमिटेड	94.	62890	मैसर्स शुभ लक्ष्मी इक्युटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
72.	17578	मैसर्स सिक्को ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	95.	49524	मैसर्स श्याम इन्द्रेया प्राईवेट लिमिटेड
73.	45368	मैसर्स सेल्टर हाऊसिंग फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	96.	89093	मैसर्स श्याम इक्सक्लूसिव प्राईवेट लिमिटेड
74.	47172	मैसर्स शिब शंकर ऑटो एण्ड बाइक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	97.	85706	मैसर्स श्यामजी स्टॉक ब्रोकरेज प्राईवेट लिमिटेड
75.	71385	मैसर्स साइन हैंडलूम एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	98.	68863	मैसर्स सिद्धमहादेव व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
76.	27061	मैसर्स शिवा हैक्शौ प्राईवेट लिमिटेड	99.	75482	मैसर्स सिद्धार्थ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
77.	59316	मैसर्स शिवा लाइट एण्ड साउण्ड प्राईवेट लिमिटेड	100.	74948	मैसर्स सिकारिया मर्केन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
78.	74064	मैसर्स शिवमनि कॉम्मेडिटीज प्राईवेट लिमिटेड	101.	90039	मैसर्स सिलबती होटल एण्ड लगेज लिमिटेड
79.	92148	मैसर्स सोडा बाइअटिक प्राईवेट लिमिटेड	102.	29122	मैसर्स शिल्कॉम इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
80.	59090	मैसर्स सोपरना एड एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	103.	59886	मैसर्स शिलजाती एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	84020	मैसर्स शोरेक्स विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड	104.	63033	मैसर्स शिलवरन पेट्रोलियम लिमिटेड
82.	84515	मैसर्स श्री अम्बे इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	105.	49735	मैसर्स शिम्पलेक्स लैण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	72117	मैसर्स श्री अमृतनागर सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	106.	51453	मैसर्स शिम्पशन ट्रेडर्स एण्ड एजेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
84.	83124	मैसर्स श्री रानी शक्ति मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	107.	83099	मैसर्स सीमरन कॉम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड
85.	60462	मैसर्स श्री शामजी फाइनान्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	108.	28024	मैसर्स सिंगल टी स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
86.	26137	मैसर्स श्री कमल मर्केन्टाइल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	109.	79704	मैसर्स सिंगिरी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
87.	69874	मैसर्स श्री लखवी ब्रदर प्राईवेट लिमिटेड	110.	67874	मैसर्स सिंगला मार्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
88.	81020	मैसर्स श्री विगनेश्वर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	90470	मैसर्स सिन्हा टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
89.	30036	मैसर्स श्रीराम (ओवरसीज) प्राईवेट लिमिटेड	112.	82624	मैसर्स साइऑन अप्परेल्स इण्डिया लिमिटेड
90.	42721	मैसर्स श्रीराम जेम्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	27323	मैसर्स सिपनबस इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
91.	69787	मैसर्स श्रेया नेस्टकॉम प्राईवेट लिमिटेड	114.	77184	मैसर्स सिप्रा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
92.	70054	मैसर्स श्रीया जमिनवाला प्राईवेट लिमिटेड	115.	87619	मैसर्स एस के एम प्रोपर्टीज एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
93.	74841	मैसर्स सरूति कन्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	116.	80014	मैसर्स एस के एस ट्रिक्विज प्राईवेट लिमिटेड
			117.	50347	मैसर्स स्काई रॉकेट फिजिकल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
			118.	78463	मैसर्स स्काईलाइन डेलकॉम प्राईवेट लिमिटेड
			119.	34357	मैसर्स स्माइल्स बॉयोकेम प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
120.	67247	मैसर्स स्मृति फाइनान्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	143.	73490	मैसर्स सृष्टि एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
121.	61395	मैसर्स एस एम एस एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	144.	67733	मैसर्स सृष्टि कंसल्टेन्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	30365	मैसर्स सोधानि इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	145.	62210	मैसर्स एसएसएंबी मेरिनइम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	49693	मैसर्स सोनी कंसल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड	146.	87487	मैसर्स एसएसएम प्रोपर्टीज एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
124.	29482	मैसर्स सोनी मेटालर्जिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	147.	58854	मैसर्स स्टालियन इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
125.	56825	मैसर्स सोनथालिया ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	148.	78309	मैसर्स स्टापी कंसल्टेन्सी एण्ड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
126.	50036	मैसर्स सानुमेरिन इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	149.	80175	मैसर्स स्टार ट्रेडलिक प्राईवेट लिमिटेड
127.	48229	मैसर्स साऊथ इण्डिया फर्टिलाइजर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	150.	88873	मैसर्स स्टारलिंगर बजाज मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	68223	मैसर्स साउथेण्ड इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	151.	80571	मैसर्स एसटीसी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
129.	15335	मैसर्स सदर्न इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	152.	65530	मैसर्स स्टेरिड रिसर्च लेबोरेटोरी प्राईवेट लिमिटेड
130.	82874	मैसर्स स्पंदन ट्रेडकॉम प्राईवेट लिमिटेड	153.	85426	मैसर्स स्टारलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
131.	71388	मैसर्स स्पार्कल टाइप प्राईवेट लिमिटेड	154.	56682	मैसर्स स्टोन टेलीकॉम लिमिटेड
132.	86015	मैसर्स स्फाइन्क्स लाटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	155.	43651	मैसर्स स्ट्राइड्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	50109	मैसर्स स्प्रीटिव फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लिमिटेड	156.	83799	मैसर्स स्ट्रिश कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
134.	78176	मैसर्स स्पोर्टलाइट सेल्स प्रोमोशन प्राईवेट लिमिटेड	157.	61167	मैसर्स सु-बास्तु (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
135.	92526	मैसर्स एस पी टी पेन्ट्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	158.	44674	मैसर्स सुबर्न लोक हाऊसिंग डेवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
136.	59194	मैसर्स एस आर फ़ैल्श प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	159.	82773	मैसर्स सक्सेस प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	69157	मैसर्स सराबान्थि टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड	160.	82645	मैसर्स सुदर्शन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
138.	87361	मैसर्स सरासथ कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	161.	56263	मैसर्स सुधा हर्ब ऑयल क्रिस्टल्स एक्सट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	80267	मैसर्स श्री अरोबिन्द ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	162.	73431	मैसर्स सुकान्तो कम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड
140.	88348	मैसर्स श्री विनायक लेटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	163.	62264	मैसर्स सुखचैन टी प्राईवेट लिमिटेड
141.	61162	मैसर्स श्रीदेवी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	164.	88356	मैसर्स सुमंगल मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
142.	65947	मैसर्स श्रीजी इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	165.	73158	मैसर्स सुमनश्री सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
			166.	59175	मैसर्स सुमिकॉन्स इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
167.	79395	मैसर्स सुमित टेक्सफैब्स प्राईवेट लिमिटेड	192.	51644	मैसर्स टालबोट हाऊसिंग फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड
168.	89707	मैसर्स सन पॉलिएक्सटरूजन्स लिमिटेड	193.	83941	मैसर्स तमखुवाला डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	63484	मैसर्स सनबीम वूडवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	194.	53650	मैसर्स तमरालिप्ता एग्रो इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
170.	44433	मैसर्स सुन्दर मर्केन्टाइल्स लिमिटेड	195.	68027	मैसर्स तांतिया कॉटन यार्न्स लिमिटेड
171.	33100	मैसर्स सुनील कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	196.	36990	मैसर्स तारक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
172.	82528	मैसर्स सनमैन मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	197.	53161	मैसर्स तरुचाया जेनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
173.	83214	मैसर्स सनमार्क इस्टेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	198.	52567	मैसर्स मरुचाया हाऊसिंग डेवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स (इण्डिया) लिमिटेड
174.	92108	मैसर्स सनराइज ई.कॉम नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	199.	28269	मैसर्स तौनस इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
175.	84326	मैसर्स सुपर फ्लाइट कुरियर्स एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड	200.	35502	मैसर्स तौनस स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	53198	मैसर्स सुपर प्लास्ट इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	201.	56700	मैसर्स तायल फर्नीचर एण्ड फिनिशिंग प्राईवेट लिमिटेड
177.	60273	मैसर्स सुपरलाइफ इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	202.	54240	मैसर्स टी वर्थ प्राईवेट लिमिटेड
178.	62382	मैसर्स सुपरनाइट सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	203.	87286	मैसर्स टेकमैन इन्टिग्रेटेड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
179.	29702	मैसर्स सुप्रिम कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	204.	62413	मैसर्स टेकनिका कम्प्युटिटीज प्राईवेट लिमिटेड
180.	53059	मैसर्स सुरभी बिजनेस एण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	205.	80998	मैसर्स टेक्नो पॉल्यूशन कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
181.	30008	मैसर्स सुरानास प्राईवेट लिमिटेड	206.	42089	मैसर्स टेक्नो सेल्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
182.	56425	मैसर्स सुरेका एक्जुऑटिक फार्म्स लिमिटेड	207.	49402	मैसर्स टेक्नोकनवर्ट अधिसिव प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
183.	44495	मैसर्स सुर्या फैशन प्राईवेट लिमिटेड	208.	64080	मैसर्स तेराइ टी प्रोसेस लिमिटेड
184.	55067	मैसर्स शू श्री जूता प्राईवेट लिमिटेड	209.	82752	मैसर्स तेशिमला टी प्रोसेसिंग फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
185.	22005	मैसर्स स्वदेशी प्रिन्टिंग्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	210.	90192	मैसर्स थर्ड आई सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
186.	73003	मैसर्स स्वमान प्रोजेक्ट्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	211.	53068	मैसर्स टिब्रेवाला ट्रेड्स एण्ड फिस्कल प्राईवेट लिमिटेड
187.	60453	मैसर्स स्वाम्प इलेक्ट्रोड प्राईवेट लिमिटेड	212.	63884	मैसर्स टिमबक ट्रेक्सीम प्राईवेट लिमिटेड
188.	84362	मैसर्स स्वर्नरेखा कम्प्युटिटीज प्राईवेट लिमिटेड	213.	75220	मैसर्स टिमकॉन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	45968	मैसर्स स्वाती डिस्ट्रीब्यूटर प्राईवेट लिमिटेड	214.	42087	मैसर्स तिरूलक्ष्मी टेक्स्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	59010	मैसर्स स्वीफटेयर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड			
191.	85995	मैसर्स साइबोन्ड इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
215.	86642	मैसर्स तिरुसल सॉफ्टकेम प्राईवेट लिमिटेड	242.	18627	मैसर्स यूनाइटेड सिन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
216.	95394	मैसर्स टीएनएस लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	243.	72375	मैसर्स यूनटी डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	78462	मैसर्स टॉप पिपुल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	244.	84264	मैसर्स उपाध्याय ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
218.	75210	मैसर्स तुरन्त व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	245.	43736	मैसर्स उषा इन्डस्ट्रियल सर्विसेज लिमिटेड
219.	77979	मैसर्स तोशा वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड	246.	65845	मैसर्स उषा मेटकोर लिमिटेड
220.	92715	मैसर्स टोटल केबल कनेक्ट प्राईवेट लिमिटेड	247.	85458	मैसर्स उषा प्रिती होटेल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
221.	63470	मैसर्स टौटन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	248.	59580	मैसर्स यूटिलिटी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
222.	85934	मैसर्स टाउनस्कोप डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	249.	70863	मैसर्स वैली मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
223.	33663	मैसर्स ट्रान्स कॉरपोरेट प्राईवेट लिमिटेड	250.	73430	मैसर्स वसुधा कम्पोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
224.	81639	मैसर्स ट्रान्समिशन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	251.	70115	मैसर्स वीके इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
225.	31557	मैसर्स ट्रान्सपावर सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	252.	33744	मैसर्स वीके टीम एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
226.	56383	मैसर्स ट्रेजर मैनुफैक्चर्स एण्ड प्रोपर्टी डेवलपर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	253.	85835	मैसर्स वेल्लारा ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
227.	38414	मैसर्स ट्रेबोर ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड	254.	88105	मैसर्स वेरदंत मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
228.	35198	मैसर्स ट्रेन्ड सेटर्स (एक्सपोर्टर्स) प्राईवेट लिमिटेड	255.	77161	मैसर्स विधान डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	73801	मैसर्स ट्रिफो फैशन एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	256.	37448	मैसर्स विजय वनस्पति एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
230.	76220	मैसर्स ट्रीडेन्ट टूर एण्ड ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	257.	50637	मैसर्स विजयश्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	58709	मैसर्स ट्रीजेग इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	258.	75522	मैसर्स विकास होम्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	53115	मैसर्स त्रिवेदी इलेक्ट्रोमेक प्राईवेट लिमिटेड	259.	63723	मैसर्स विकिरा ट्रेडर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
233.	89364	मैसर्स ट्रोटेरनामा रेसिंग प्राईवेट लिमिटेड	260.	44359	मैसर्स विन्ध्याचल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
234.	75237	मैसर्स टस्सल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	261.	74515	मैसर्स विन्टेक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	30457	मैसर्स यू एम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	262.	40248	मैसर्स विराम होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
236.	50160	मैसर्स उदान ट्रेवल्स लिमिटेड	263.	26473	मैसर्स विश्वेश्वरी खान्ना कोलियरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
237.	43085	मैसर्स उदय फाइनेन्शियल एण्ड मैनेजमेन्ट कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	264.	82395	मैसर्स विजन प्रिन्टपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	77757	मैसर्स उद्गम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	265.	63004	मैसर्स विजन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
239.	51220	मैसर्स अल्ट्रा कंसल्टेन्सी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	266.	75316	मैसर्स वाइजाग व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
240.	57545	मैसर्स अल्ट्रा एक्सपो प्राईवेट लिमिटेड	267.	69865	मैसर्स बोलन्टर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
241.	31124	मैसर्स उमंग एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	268.	93122	मैसर्स व्यास एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
			269.	32064	मैसर्स वारले (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
270.	79748	मैसर्स वाटरलू प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड	295.	75995	मैसर्स जिउस एडवर्टाईजिंग एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	91459	मैसर्स वेबप्लाजा कलकत्ता.कॉम प्राईवेट लिमिटेड	296.	72779	मैसर्स जिम्केले डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	59395	मैसर्स वेल्कॉन इन्जीनियर्स एण्ड डेवलपर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	297.	78812	मैसर्स जोडियक सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	51920	मैसर्स वेल्डन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	298.	85795	मैसर्स जूम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
274.	89468	मैसर्स वेल्ब्रेड कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	299.	32834	मैसर्स जूड फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	87799	मैसर्स वेल्लेस्ले मेडिसेन्टर एण्ड रिसर्च लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	300.	52857	मैसर्स ज्वीनगली इलेक्ट्रिकल इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
276.	93723	मैसर्स वेस्ट लैण्ड इन्श्योरेन्स एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			टी. पी. शमी कम्पनी रजिस्ट्रार पश्चिम बंगाल
277.	89474	मैसर्स वेस्ट वूड केयर हेल्थ लिमिटेड			
278.	43271	मैसर्स वाइल्ड ग्रास नेचर रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड			कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पूना ट्रेडिंग लिमिटेड के विषय में।
279.	78098	मैसर्स विन्कॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड			बेंगलूर, दिनांक 29 जुलाई 2005
280.	51099	मैसर्स वूना होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			सं. 560(5)/4395/आरओसीबी/एसवीके/05-06--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पूना ट्रेडिंग लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।
281.	64176	मैसर्स वूली टाइअप प्राईवेट लिमिटेड			वी. सी. दवे कम्पनियों के रजिस्ट्रार कर्नाटक
282.	85069	मैसर्स वर्थी इन्फोटेक लिमिटेड			
283.	85072	मैसर्स वर्थी विद्यास लिमिटेड			
284.	86736	मैसर्स वूस्ली प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड			
285.	67496	मैसर्स जेवियर्स एग्रो प्राईवेट लिमिटेड			
286.	75856	मैसर्स एसक्सेलेन्ट सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड			
287.	79723	मैसर्स एक्सेबेक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड			
288.	53420	मैसर्स एक्सीटीज ट्रेड एण्ड कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड			कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याणी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।
289.	66558	मैसर्स यार्डले एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड			बेंगलूर, दिनांक 29 जुलाई 2005
290.	77267	मैसर्स येलस्पॉर्ट्स इन्फो प्राईवेट लिमिटेड			सं. 560(5)/7736/आरओसीबी/एसवीके/05-06--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कल्याणी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।
291.	86694	मैसर्स येस्सेमित्सु प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड			वी. सी. दवे कम्पनियों के रजिस्ट्रार कर्नाटक
292.	72628	मैसर्स योक मर्कैन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड			
293.	72859	मैसर्स वाईएसएल सिक्युरिटीज लिमिटेड			
294.	43349	मैसर्स जेस्ट इन्टेरियर डेकोरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड			

**CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION**

New Delhi-110003, the 28th July 2005

No. DPPERS. 1/2005/092/3/38/97.—The President is pleased to appoint Shri Akhilesh, Public Prosecutor, CBI as Senior Public Prosecutor in the CBI with effect from the afternoon of 08.07.2005 and until further orders.

S. D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/Pers.I/2005/093/A-19014/7/84-Ad. V.—Shri A. W. Degwekar relinquished charge of the post of Joint Director, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of July 21, 2005, on voluntary retirement.

S. D. BAIJAL  
Administrative Officer (Pers.)

**CENTRAL VIGILANCE COMMISSION**

New Delhi, the 01st August 2005

No. 2/32/05-Admn./3096.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri P. M. Pillai, Under Secretary in the Commission as Officer on Special Duty, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, on ad hoc basis with effect from the forenoon of 29.07.2005, for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-110 003, the 25th July 2005

No. E-28017/5/MSR/05/Pers-II/2311.—Consequent to his retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, Shri M. S. Rathi, AIG, relinquished the charge of the post of AIG/Ord, CISF Campus, Saket, New Delhi in the afternoon of 30.06.2005.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General

The 28th July 2005

No. E-16014/1/3/97/Pers. I/19.—The President is pleased to accept the resignation of Shri A. G. Mukherjee, Asstt. Commandant, CISF Unit DSP Durgapur with effect from 27.04.1997 (A/N).

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General

**MINISTRY OF FINANCE  
(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)  
CURRENCY NOTE PRESS**

Nashik Road, the 23rd July 2005

No. 9S/ESC-1-10.—Shri S. G. Talekar, Inspector Control, Currency Note Press, Nashik road is hereby promoted as Deputy Control Officer (Group 'B' Gazetted) purely on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500 with effect fro 18.07.2005 to 17.01.2006 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above ad hoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the ad hoc service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for regular promotion. The above ad hoc promotion is also liable for termination without assigning any reasons.

A. N. INGLE  
General Manager

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)  
ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500 004, the 2005

Accountant General (A & E), A. P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date shown against his name :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A. O.
1.	Sri G. Rajeswara Rao	19.7.2005 A. N.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

M. PRAKASA RAO  
Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500 004, the 21st July 2005

Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers/Audit Officers (Civil) with effect from the dates noted against the names :—

Sl. No.	Name of the Officer & Designation	Date of retirement
	S/Shri	
01.	P. Gnana Reddy, SAO	30.06.2005 AN
02.	Ch. Abaddham, SAO	Do.
03.	K. Ranga Rao, SAO	Do.
04.	Y. Anjaneya Murthy, SAO	Do.
05.	Y. Ratnakara Rao, SAO	Do.
06.	G. Mruthyunjaya Rao, SAO	Do.
07.	P. Ananda Rao-I, SAO	Do.
08.	V. G. Narasimham, SAO	Do.
09.	K. Solomon Raju, SAO	Do.
10.	V. Rama Rao, SAO	Do.
11.	M. V. Vardhan, SAO	Do.
12.	Bhoopathy Raju, SAO	Do.
13.	A. Leela Prasad, SAO	Do.
14.	K. Bapi Raju, SAO	29.06.2005 FN (VR)
15.	L. Venkateswarlu, AO	29.06.2005 FN (VR)
16.	Mohd. Sadat Ali, SAO	04.07.2005 FN (VR)
C. SAILAJA Sr. DAG (Admn.)		

Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this office to the cadre of "Audit Officers (Civil)" in the scale of Rs. 7500-250-12000 with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No./ Date	Date of assumption of charge
1	2	3	4
	S/Shri		
01.	K. Satyanarayana Murthy-II	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
02.	Rizwan-ur-Rahim	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
03.	Ch. V. K. S. Veeranjanyulu	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
04.	V. Govinda Raja Swamy	48/30.06.2005	01.07.2005 FN

1	2	3	4
	S/Shri		
05.	V. V. N. R. V. Prasad	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
06.	G. V. Subba Rao-II	48/30/06.2005	01.07.2005 FN
07.	A. A. Hafeez Khan	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
08.	K. Naga Rani	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
09.	E. Simpson Vinay Kumar	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
10.	C. Raghava Rao	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
11.	K. Gopala Rao	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
12.	Mohd. Sadullah Khan	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
13.	G. Ramesh Chandra Dutt	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
14.	B. Hari Prasad	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
15.	P. V. Radhakrishna Murthy-II	48/30.06.2005	01.07.2005 FN
16.	T. P. Shanta Kumari	55/06.07.2005	06.07.2005 FN

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

They should exercise option of fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O. M. No. F. 7/1/80-Estt. (P. I) dated 26.09.1981 and F. 13/26/82-Estt. (P. I) dated 08.02.1983.

C. SAILAJA  
Sr. DAG (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 15th July 2005

E. O. No. 07.—In pursuance of OOC N. 167 dtd. 15.07.2005, communicated vide Memo No. Admn. (CA) 17-2(AO)/Vol-V/476 dtd. 15.07.2005, the following Officers on promotion have assumed charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date as indicated against them :—

Sl. No.	Name of the Officer taken over charge as Audit Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
	S/Shri	
1.	Praful Chandra Kar	01.06.2005 (FN)
2.	Kamal Krishna Mishra	01.06.2005 (FN)
3.	Nirjharendu Ghosh	01.06.2005 (FN)
4.	Rabindranath Das	02.06.2005 (FN)
5.	Gouramohan Mohanty	01.06.2005 (FN)

TRILOCHAN ACHARYA  
Sr. Audit Officer/Admn

The 19th July 2005

E. O. No. 9.—In pursuance of OOC No. 300 dated 30.06.2005, communicated vide Memo No. Admn (CA)17-2(AO)/Vol-V/737 dated 30.6.2005, the following Officers on promotion have assumed charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date as indicated against them :—

Sl. No.	Name of the Officer taken over charge as Audit Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
	S/Shri	
1.	Narayan Behera-II	04.07.2005 (FN)
2.	Lokanath Singh	05.07.2005 (FN)

TRILOCHAN ACHARYA  
Sr. Audit Officer/Admn

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF  
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-66, the 1st August 2005

No. AN-1/1467/5/1 (G).—The undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
1	2	3	4
1.	(Kum.) Somi Tandon	<u>20.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
	S/Shri		
2.	Nathuni Ram	<u>09.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
3.	T. P. Murao	<u>01.08.45</u> 31.07.05	01.08.2005

1	2	3	4
	S/Shri		
4.	D. S. Sethi	<u>15.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
5.	S. D. Upadhyay	<u>25.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
6.	S. Kannan	<u>26.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
7.	S. P. Gupta	<u>11.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
8.	Pritam Singh	<u>01.08.45</u> 31.07.05	01.08.2005
9.	R. S. Mone	<u>05.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
10.	C. S. Hinge	<u>18.07.45</u> 31.07.05	01.08.2005
11.	Babu Singh	<u>1.08.45</u> 31.07.05	01.08.2005

KANWALDEEP SINGH  
Assistant Controller General of Defence Accounts  
(Admin.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 29th July 2005

No. 5/1/2005-C. P. 1.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1982=100 has increased by 2 points to stand at 529 (Five hundred & twenty-nine) for the month of June, 2005.

I. S. NEGI  
Dy. Director

KHAN MANTRALAYA  
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 20th July 2005

No. A-32013/1-Geol (Sr.)/2004-2005/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Geologist (Jr.), Geological Survey of India, on promotion to the post of Geologist (Sr.) in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the date as mentioned against each on regular basis until further order :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1	2	3
1.	Dr. Joyesh Bagchi	30.05.2005 (AN)
2.	Shri Asit Saha	30.05.2005 (AN)
3.	Shri P. J. Ittykunju	30.05.2005 (AN)
4.	Shri B. P. Mukherjee	30.05.2005 (AN)
5.	Smt. Krishna Basu	30.05.2005 (AN)
6.	Shri M. K. Patel	30.05.2005 (AN)



1	2	3
7.	Shri Dipayan Guha	30.05.2005 (AN)
8.	Dr. Samir Kumar Ghosh	30.05.2005 (AN)
9.	Dr. Taraknath Pal	30.05.2005 (AN)
10.	Shri Tapan Kumar Jana	30.05.2005 (AN)
11.	Shri N. L. Gera	30.05.2005 (AN)
12.	Shri H. Kariyanna	30.05.2005 (AN)
13.	Shri R. S. Rajawat	30.05.2005 (AN)
14.	Shri B. B. Sharma	30.05.2005 (AN)
15.	Shri Debasish Chakraborty	30.05.2005 (AN)
16.	Shri Subhasish Ghosh	30.05.2005 (AN)
17.	Dr. Amitava Lahiri	30.05.2005 (AN)
18.	Shri R. Srinivasa Rao	30.05.2005 (AN)
19.	Shri D. C. L. Raju	30.05.2005 (AN)
20.	Shri J. K. Srivastava	01.06.2005 (AN)
21.	Shri M. H. Abbas	30.05.2005 (AN)
22.	Shri Vijay Kumar Tiku	30.05.2005 (AN)
23.	Shri Rahamathulla Khan	30.05.2005 (AN)
24.	Shri K. Viswanatham	30.05.2005 (AN)
25.	Shri V. Aneel Kumar	30.05.2005 (AN)
26.	Shri Deb Kumar Bhattacharyya	30.05.2005 (AN)
27.	Shri S. Chattopadhyay	30.05.2005 (AN)
28.	Shri K. Babu Rao	06.06.2005 (AN)
29.	Shri Mohammed Anjed Ali	30.05.2005 (AN)
30.	Shri Purna Chandra Dash	30.05.2005 (AN)
31.	Shri Sanjay Kumbkarni	30.05.2005 (AN)
32.	Shri A. K. Singh	30.05.2005 (AN)
33.	Shri Sanjiv Kumar	31.05.2005 (FN)
34.	Shri Sudip Kumar Som	30.05.2005 (AN)
35.	Shri Basudev Ray	30.05.2005 (AN)
36.	Dr. Tapan Pal	30.05.2005 (AN)
37.	Shri Supriya Kumar Saha	30.05.2005 (AN)
38.	Shri Niroj Kumar Sarkar	30.05.2005 (AN)
39.	Shri Uttam Chakraborty	31.05.2005 (FN)
40.	Shri Santanu Bhattacharjee	13.06.2005 (FN)
41.	Shri G. S. Tiwari	30.05.2005 (AN)
42.	Shri A. K. Tripathi	30.05.2005 (AN)
43.	Shri D. K. Srivastava	30.05.2005 (AN)
44.	Shri G. S. Agarwal	30.05.2005 (AN)
45.	Shri A. C. Nigam	30.05.2005 (AN)

1	2	3
46.	Shri G. S. Manhas	30.05.2005 (AN)
47.	Shri Brijesh Kumar	30.05.2005 (AN)
48.	Shri Satya Prakash Shukla	30.05.2005 (AN)
49.	Shri Rajendra Kumar	30.05.2005 (AN)
50.	Dr. M. C. Srivastava	30.05.2005 (AN)
51.	Shri Rajesh Joshi	30.05.2005 (AN)

S. K. SINHA  
Sr. Administrative Officer  
for Director General

The 1st August 2005

No. 1378/A-19011 (1-MS)/Q5/19A.—The President is pleased to appoint Smt. Madhumita Sengupta, Asstt. Geologist Gr. I, Geological Survey of India to the post of Geologist (Jr.) (Group 'A', Gazetted) in the same department in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 19.4.2005 until further orders.

S. K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Director General

#### SURVEY OF INDIA SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 25th July 2005

No. E1-327/579-Rules/LCE.—The undermentioned personnel who have been selected through the Limited Departmental Competitive Examination (Selection to Officer Surveyor's Grade) are promoted as Officer Surveyor Group 'B' Service in Survey of India on regular basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the date(s) as indicated against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Appointment
1.	Shri Nimrod Tigga (ST)	28.02.2005
2.	Shri Rasananda Khandei (ST)	23.02.2005

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452 013, the 29th July 2005

No. CAT/Admn/R-115 (Vol.-IV)/647.—The President is pleased to appoint Shri Mangilal Ekwale as Scientific

Officer/C in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 8.7.2005 in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO  
Chief Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION AND RESEARCH**

Hyderabad-500 016, the 28th July 2005

No. AMD-51(59)/2002-Pen./586.—On attaining the age of superannuation, the following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the date mentioned.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Shri V. N. Sah, Scientific Officer-E	31.5.2005 (AN)	Superannuation

Smt. AGNES BENSELY  
Chief Administrative and Accounts Officer

**INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL**

Mumbai-400 020, the 19th July 2005

No. F. 301-Ad (AT)/2005.—Smt. J. Geetha, Steno Gr. II, Office of the Chief Commissioner of Income-tax, Coimbatore is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Bangalore Benches Bangalore in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 06.07.2005 (A. N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

The 20th July 2005

No. F. 301-Ad (AT)/2005.—Shri V. V. B. Raju, Sr. Steno, T. No. 2648, Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani is appointed to officiate as Senior Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches Mumbai in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from 01.07.2005 (FN) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances

and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

**MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES**

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumar Ganga Housing and Finance Limited

Kanpur-208001, the 22nd July 2005

No. 560(3)/SES-05/19905/1404.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kumar Ganga Housing and Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumar Ganga Green Farms Limited

Kanpur-208001, the 22nd July 2005

No. 560(3)/SES-05/22435/1408.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kumar Ganga Green Farms Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anandeshwar Steels Private Limited

Kanpur-208001, the 26th July 2005

No. 560(3)/SES-05/20682/1442.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anandeshwar Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. C. Tobacco Products Private Limited

Kanpur-208001, the 26th July 2005

No. 560(3)/SES-05/21779/1446.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. C. Tobacco Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stick & Spark Agencies Private Limited

Kanpur-208001, the 28th July 2005

No. 560(3)/SES-05/14801/1562.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Stick & Spark Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Intellect Institute of Computer Information Limited

Kanpur-208001, the 28th July 2005

No. 560(3)/SES-05/21180/1571.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Intellect Institute of Computer Information Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Esspack Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/8209/1578.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Esspack Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A to Z Insulation House Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/20447/1615.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A to Z Insulation House Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sidh Laxmi Builders Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/11045/1619.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sidh Laxmi Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Banaras Engineering Works Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/7574/1623.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Banaras Engineering Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ranjit Singh & Sons Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/1316/1627.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ranjit Singh & Sons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumaon Travels Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/4717/1631.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kumaon Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Urmil Drugs Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/15831/1635.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Urmil Drugs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ansar Mutual Benefits Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/15728/1671.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ansar Mutual

Benefits Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. S. Drugs Private Limited

Kanpur-208001, the 29th July 2005

No. 560(3)/SES-05/24324/1675.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G. S. Drugs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Blue Lotus Resorts & Hotels Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/27877/1679.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Blue Lotus Resorts & Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yateesh Distributors & Associates Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/6773/1683.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yateesh Distributors & Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mritunjay Agro and Plantation Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/22251/1687.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mritunjay Agro & Plantation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tripti Sales & Services Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/14920/1696.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tripti Sales & Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mussoorie Investment Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/11506/1700.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mussoorie Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. S. Outsourcing Solutions Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/27887/1704.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G. S. Outsourcing Solutions Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vidya Cables Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/11772/1710.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vidya Cables Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalicharan Securities Private Limited

Kanpur-208001, the 1st August 2005

No. 560(3)/SES-05/17295.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalicharan Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharatpur Agrofuels Private Limited

Jaipur, the 21st July 2005

No. ROC/JPR/560/13363/1185.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Bharatpur Agrofuels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Siddhi Vinayak Tolls Private Limited

Jaipur, the 22nd July 2005

No. ROC/JPR/560/19049/1200.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Siddhi Vinayak Tolls Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaya Synthetics Private Limited

Jaipur, the 22nd July 2005

No. ROC/JPR/560/5806/1204.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Jaya Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaya Granimarmo (India) Private Limited

Jaipur, the 22nd July 2005

No. ROC/JPR/560/10953/1210.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Jaya Granimarmo (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samridhi Network Private Limited

Jaipur, the 22nd July 2005

No. ROC/JPR/560/17846/1214.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Samridhi Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nimbus Systems Private Limited

Jaipur, the 27th July 2005

No. ROC/JPR/560/7279/1250.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Nimbus Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Modern Metal Works Private Limited

Jaipur, the 26th July 2005

No. ROC/JPR/560/4599/1227.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Modern Metal Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satyam Gums Private Limited

Jaipur, the 26th July 2005

No. ROC/JPR/560/6463/1231.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Satyam Gums Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhilwara Investment Private Limited

Jaipur, the 26th July 2005

No. ROC/JPR/560/4272/1236.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Bhilwara Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satyam Refractories Private Limited

Jaipur, the 26th July 2005

No. ROC/JPR/560/11739/1240.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Satyam Refractories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marwar Automart Private Limited

Jaipur, the 26 July 2005

No. ROC/JPR/560/20311/1244.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Marwar Automart Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sushila Asopa Hospital Private Limited

Jaipur, the 27 July 2005

No. ROC/JPR/560/16488/1254.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Sushila Asopa Hospital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ridhi Sidhi Edible Oils Private Limited

Jaipur, the 27 July 2005

No. ROC/JPR/560/14903/1258.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Ridhi Sidhi Edible Oils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunrise Oils Private Limited

Jaipur, the 27th July 2005

No. ROC/JPR/560/6211/1262.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Sunrise Oils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prem Infotech Private Limited

Jaipur, the 27th July 2005

No. ROC/JPR/560/16910/1266.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Prem Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poonam Sweet Products Private Limited

Jaipur, the 27th July 2005

No. ROC/JPR/560/5919/1272.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Poonam Sweet Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Smart Entrance Marketing and Trading Company  
Private Limited

Jaipur, the 28th July 2005

No. ROC/JPR/560/17459/1351.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Smart Entrance Marketing and

Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surguja Plastics Private Limited

Jaipur, the 29th July 2005

No. ROC/JPR/560/12995/1355.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Surguja Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Getwell Leasing Limited

Jaipur, the 29th July 2005

No. ROC/JPR/560/3621/1359.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Getwell Leasing Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajasthan Midways and Motels Private Limited

Jaipur, the 29th July 2005

No. ROC/JPR/560/3319/1363.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Midways and Motels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sky Planet Marketing Private Limited

Jaipur, the 29th July 2005

No. ROC/JPR/560/17593/1367.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Sky Planet Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bodamali Marbles Private Limited

Jaipur, the 29th July 2005

No. ROC/JPR/560/19582/1371.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Bodamali Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vinayak Confectioneries Private Limited

Jaipur, the 30th July 2005

No. ROC/JPR/560/13372/1381.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Vinayak Confectioneries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rainbow Finvest Private Limited

Jaipur, the 30th July 2005

No. ROC/JPR/560/9983/1385.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Rainbow Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Primrose Investments Private Limited

Jaipur, the 30th July 2005

No. ROC/JPR/560/4239/1389.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Primrose Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Renaissance Chemicals Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/14374/1397.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Renaissance Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Om Minerals Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/13049/1401.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Om Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. United India Fintrade Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/13413/1405.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. United India Fintrade Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lords India Equipments Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/13412/1409.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Lords India Equipments Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. United Unichem India Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/11364/1413.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. United Unichem India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saraswati Art Palace Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/16411/1417.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Saraswati Art Palace Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Versatile Sys-Tech Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/16962/1421.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Versatile Sys-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. P. M. Sulz Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/17575/1425.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. R. P. M. Sulz Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aastha Diamonds Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/18282/1429.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Aastha Diamonds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajasthan Transmass Media Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/17251/1433.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasthan Transmass Media Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gaurav Expocom Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/15075/1437.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Gaurav Expocom Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jyoti Irrigation System Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/14503/1441.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Jyoti Irrigation System Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahadev Buildcon and Merchandise Private  
Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/15348/1445.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Mahadev Buildcon and Merchandise Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Choudhary Automobiles Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/14010/1449.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Choudhary Automobiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ridhi Sidhi Phosphates & Fertilizers Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/15930/1453.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Ridhi Sidhi Phosphates &

Fertilizers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Monarch Chem and Allied Products Private  
Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/2590/1457.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Monarch Chem and Allied Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rahul Breweries Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/14229/1461.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Rahul Breweries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hyper Marketing Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/13785/1465.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Hyper Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lucifer Marbles Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/11688/1469.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Lucifer Marbles Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. JP's Tourist Village Resort Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/5493/1473.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. JP's Tourist Village Resort Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vijay Capfin Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/8940/1477.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Vijay Capfin Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ess Kay Cotton and Oils Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/10664/1481.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Ess Kay Cotton and Oils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Padam Cement Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/6267/1485.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Padam Cement Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashutosh Infin Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/9667/1489.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Ashutosh Infin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Punsumi Farms Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/6895/1493.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Punsumi Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pinkcity Chemicals Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/1995/1497.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Pinkcity Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yes Consultancy and Services Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/14120/1501.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Yes Consultancy and Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jodhpur Electric Power Company Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/11821/1505.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Jodhpur Electric Power Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ACL Photo Films Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/11525/1509.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. ACL Photo Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vimla Fincap Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/12734/1513.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Vimla Fincap Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tools Forgings (India) Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/7024/1517.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Tools Forgings (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shakun Processors Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/8748/1521.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Shakun Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khariwal Hospital and Fertility Research Center  
Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/14772/1525.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Khariwal Hospital and Fertility Research Center Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amba Colonisers Private Limited

Jaipur, the 31st July 2005

No. ROC/JPR/560/6715/1529.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Amba Colonisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Photofax Papers Rajasthan Private Limited

Jaipur, the 1st August 2005

No. ROC/JPR/560/11465/1533.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Photofax Papers Rajasthan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ajay Printopep Private Limited

Jaipur, the 1st August 2005

No. ROC/JPR/560/11464/1537.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Ajay Printopep Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following companies

Kolkata, the 22nd July 2005

No. ROC/WB/IPC/Master File-2/560/SES-2003.—Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sub-Section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 under SES-2003 the names of the following 965 companies have this day been struck off from the 'Register' of Registrar of Companies and are dissolved :—

			Annexure-A		
Sl. No.	Reg No.	Company Name	1	2	3
1	2	3			
1.	52850	M/s. A & A Promoters Private Limited	29.	79896	M/s. Admire Commercial Private Limited
2.	81663	M/s. A. M. Tea Limited	30.	76326	M/s. Admire Vincom Private Limited
3.	52933	M/s. A. M. D. Timber & Veneer Private Limited	31.	47033	M/s. ADP Office Equipments Private Limited
4.	39159	M/s. A. N. Concrete Private Limited	32.	87910	M/s. ADS Aquatics Private Limited
5.	47378	M/s. A. T. Trackfasteners India Private Limited	33.	90161	M/s. Advaita Infotech Private Limited
6.	84488	M/s. Aapanjan Engineers Private Limited	34.	89925	M/s. Advantage Millenium Distribution Services Private Limited
7.	89331	M/s. Aarpee Ispat Private Limited	35.	41002	M/s. Agarwal Ropes & Steels Private Limited
8.	70503	M/s. Aarvee Commodeal Private Limited	36.	54673	M/s. Agni Ujala Electronics Private Limited
9.	73207	M/s. Aashiyana Suppliers Private Limited	37.	42670	M/s. Agrani Commercial Private Limited
10.	62882	M/s. Aaveri Impex Private Limited	38.	79824	M/s. Agrico Quality Private Limited
11.	58466	M/s. ABC Textiles Processing Private Limited	39.	14408	M/s. Agricultural Machinery Mfg Corpn. Private Limited
12.	77602	M/s. Abhisekh Intra Private Limited	40.	46739	M/s. Agro Freezer India Private Limited
13.	81073	M/s. Abhoo Fabrics Private Limited	41.	73276	M/s. Ahmedabad Jaldhara Properties Private Limited
14.	40816	M/s. Able Consultants & Financial Services Private Limited	42.	58829	M/s. Ajanta Pipes Private Limited
15.	57876	M/s. ABM Impex Private Limited	43.	67387	M/s. Ajmala Leather Private Limited
16.	85066	M/s. Ackland Dealcom Private Limited	44.	79996	M/s. AKD Consultancy Services Private Limited
17.	55657	M/s. Accord Chemicals Private Limited	45.	45946	M/s. Alamode Housing Private Limited
18.	78683	M/s. Accumen Trading Company Private Limited	46.	50729	M/s. Alfa Advisory & Services Private Limited
19.	58012	M/s. ACE Consultants Private Limited	47.	58638	M/s. Alfa Dimitries Shipping Company Private Limited
20.	43621	M/s. Achha Makan Private Limited	48.	76325	M/s. Alice Tieup Private Limited
21.	40400	M/s. Acupressure Therapy Health Centre Private Limited	49.	87859	M/s. All Seasons Agro Private Limited
22.	51016	M/s. Acushla Leather Creations Private Limited	50.	84387	M/s. All credit Finance Co. Limited
23.	36553	M/s. Adam & Eve Private Limited	51.	37601	M/s. Allied Distributors Private Limited
24.	33196	M/s. Additives & Preservative (India) Private Limited	52.	88017	M/s. Allied Waterproofing Company Private Limited
25.	72743	M/s. Adeshra Jewellers Private Limited	53.	69252	M/s. All like Commercial Private Limited
26.	62250	M/s. Adigum Commodities Limited	54.	88257	M/s. Alter Ego Press Private Limited
27.	57856	M/s. Aditya Investment Private Limited	55.	52996	M/s. AM Consultants & Projects Private Limited
28.	90047	M/s. Aditya Murarka & Co. Private Limited	56.	47130	M/s. Amar Avicine Enterprise Private Limited
			57.	37345	M/s. Amar Coke Private Limited
			58.	33028	M/s. Amrit Dealers Private Limited

1	2	3	1	2	3
59.	30273	M/s. Amropt India Private Limited	94.	69110	M/s. Arihant Synthetics & Fibres Private Limited
60.	69738	M/s. Anabhi Agencies Private Limited	95.	87746	M/s. Arita Engineering Private Limited
61.	94709	M/s. Anamika Rubber Products Private Limited	96.	90292	M/s. ARK Progression Private Limited
62.	28802	M/s. Anamika Builders Private Limited	97.	69836	M/s. Arnold Dealing Private Limited
63.	50697	M/s. Anand Green Leaves Limited	98.	69829	M/s. Arnold Sales Private Limited
64.	45271	M/s. Anand Impex Private Limited	99.	84257	M/s. Aroma Engineering & Construction Co. Private Limited
65.	42147	M/s. Ananda Ashram Private Limited	100.	59699	M/s. Arora Associate & Electronics Private Limited
66.	50252	M/s. Anapol Real Estates Private Limited	101.	51457	M/s. Arora Lotteries Private Limited
67.	45892	M/s. Angora Furs Private Limited	102.	79285	M/s. Arpee Trading Company Private Limited
68.	69938	M/s. Anihon Commercial Private Limited	103.	36688	M/s. Arthabas Udyog (Investment) Private Limited
69.	40390	M/s. Anirban Construction Private Limited	104.	71326	M/s. Artwork Properties Private Limited
70.	69049	M/s. Anirudh Tie-up Private Limited	105.	69765	M/s. Asambhav Chemical Private Limited
71.	34988	M/s. Anjaneya Engineering Private Limited	106.	86162	M/s. Ascot Properties Private Limited
72.	75822	M/s. Ankit Mercantile Private Limited	107.	90639	M/s. Asha Plaza Private Limited
73.	43203	M/s. Ankur Rasayan Udyog Private Limited	108.	82652	M/s. Asha Kunj Tradelink Private Limited
74.	79770	M/s. Ankur Tradelinks Private Limited	109.	75846	M/s. Ashim Kumar Kar Exports Limited
75.	85755	M/s. ANM Investments Private Limited	110.	76923	M/s. Ashirvad Management Services Private Limited
76.	85927	M/s. ANM Securities Private Limited	111.	15346	M/s. Ashutosh Ayurved & Chemical Works Private Limited
77.	71729	M/s. Antaeus Enterprises Private Limited	112.	48532	M/s. Ashwath Marketing Private Limited
78.	36753	M/s. Antaranga Prakashani Private Limited	113.	69766	M/s. Askypack Supply Private Limited
79.	81535	M/s. Antique Furn Private Limited	114.	42675	M/s. Asopa Brothers Private Limited
80.	88574	M/s. Anuradha Infotech Private Limited	115.	59917	M/s. Asopa Mercantile Private Limited
81.	84955	M/s. Anurag Distributors Private Limited	116.	86281	M/s. Associated Freight Carriers Private Limited
82.	77808	M/s. Anuvrat Fashions Private Limited	117.	71251	M/s. Astra Financial Services Limited
83.	67383	M/s. Apeksha Syntex Private Limited	118.	60180	M/s. ATI Exports Limited
84.	55293	M/s. APG Consultants Private Limited	119.	47520	M/s. Atlantes Services Private Limited
85.	44785	M/s. Apollo Overseas Private Limited	120.	37811	M/s. Atlas Commercial Private Limited
86.	34482	M/s. Appliances (India) Private Limited	121.	34613	M/s. Atomite (India) Private Limited
87.	61249	M/s. Appy Export Private Limited	122.	39166	M/s. Attair Synthetics Private Limited
88.	69732	M/s. Aptika Merchants Private Limited	123.	41966	M/s. Atul Packaging Private Limited
89.	78557	M/s. Aqua Fresh Private Limited	124.	59579	M/s. Auckland Apartments Private Limited
90.	76716	M/s. Arati Sales Agencies Private Limited	125.	64956	M/s. Auriga Print-O-Trade Private Limited
91.	42936	M/s. Aravali Packers Private Limited			
92.	81061	M/s. Arham Computers Private Limited			
93.	79990	M/s. Ariecom Systems Private Limited			

1	2	3
126.	62860	M/s. AV-Fait Export Private Limited
127.	46727	M/s. Avadh Mechanical Projects and Finance Private Limited
128.	67267	M/s. Avant Grade Impex Private Limited
129.	27550	M/s. Avery Scales Private Limited
130.	27551	M/s. Avery Testing Machine Private Limited
131.	27552	M/s. Avery Weighing Machines Private Limited
132.	57211	M/s. Aviaz Export Ispat Private Limited
133.	15279	M/s. B. C. Sen Private Limited
134.	42645	M/s. B. A. B. Medico Limited
135.	59454	M/s. B. B. Builders Private Limited
136.	37383	M/s. B. B. C. International Private Limited
137.	90567	M/s. B. N. Polypack Private Limited
138.	62467	M/s. Babhnan Traders Private Limited
139.	56790	M/s. Bagla Coal Sales Private Limited
140.	84344	M/s. Baid Agencies Private Limited
141.	84682	M/s. Baid Comutech Private Limited
142.	56644	M/s. Baid Fincon Limited
143.	84683	M/s. Baid Infotech Private Limited
144.	27925	M/s. Bajna Refractories Private Limited
145.	75433	M/s. Bajoria Photographic Services Private Limited
146.	91697	M/s. Balagarh Operating Company Private Limited
147.	86881	M/s. Balaji Bio Agro Chemicals Private Limited
148.	85423	M/s. Balaji Tracon Private Limited
149.	94748	M/s. Balaram Web-Soft Private Limited
150.	16998	M/s. Ballabhadas Agarwal Limited
151.	14012	M/s. Balsukh Refractories & Ceramics Limited
152.	66834	M/s. Bambrab Plantation Private Limited
153.	47805	M/s. Band Box Commercial Private Limited
154.	32685	M/s. Bani-Lon Research Chemicals Private Limited
155.	63676	M/s. Bansraj Finance Limited
156.	37460	M/s. Bare Management Consultants Private Limited

1	2	3
157.	34735	M/s. Barisha Sivechem Private Limited
158.	34705	M/s. Barnagore Jute Factory Co. Limited
159.	65416	M/s. Barry Fairs Private Limited
160.	17867	M/s. Barua Art Press Private Limited
161.	95186	M/s. Baruipur Parents Garden Private Limited
162.	69209	M/s. Basu, Roy Constructions & Consultancy Private Limited
163.	33101	M/s. Bathivala & Karani Impex Private Limited
164.	86070	M/s. BBS Informotech Private Limited
165.	59275	M/s. B. D. A. Holdings Private Limited
166.	35244	M/s. Bear & Bull Investments Limited
167.	81360	M/s. Bells Controls Finance Limited
168.	59740	M/s. Bengal Agro Farm & Resorts Private Limited
169.	12149	M/s. Bengal Bihar Transport Company (Calcutta) Private Limited
170.	86961	M/s. Bengal Cans & Containers Private Limited
171.	10213	M/s. Bengal Electric Supply Corpn. Limited
172.	65662	M/s. Bengal Exports Private Limited
173.	69411	M/s. Bengal Gases Private Limited
174.	56925	M/s. Bengal Savings organisation Limited
175.	31516	M/s. Bengal Smelters Private Limited
176.	87328	M/s. Bengal Waterways Private Limited
177.	60563	M/s. Bhagwandas Kanaialall (Agents) Private Limited
178.	78321	M/s. Bhagyadeep Commodore Private Limited
179.	49451	M/s. Bhagyashree Traders Private Limited
180.	87421	M/s. Bharat Biri Factory Private Limited
181.	48101	M/s. Bharat Biscuit Consultancy Private Limited
182.	25284	M/s. Bharat Wire & Metal Products Private Limited
183.	15456	M/s. Bharati Investment & Industries Private Limited
184.	88793	M/s. Bharatiya Krishi Bikash Private Limited
185.	36292	M/s. Bhargava Sons Paper Private Limited



1	2	3	1	2	3
186.	55411	M/s. Bhaskar Credit & Mercantiles Private Limited	213.	76872	M/s. Bowman Commercial Private Limited
187.	8018	M/s. Bhattacharyya Sons Private Limited	214.	75455	M/s. BRD Marketing Private Limited
188.	69946	M/s. Bhubaneswari Chitram Private Limited	215.	26404	M/s. Bright Traders Private Limited
189.	76419	M/s. Bhusarga Resorts Private Limited	216.	83098	M/s. Brijdham Commercial Private Limited
190.	79576	M/s. Bhutra Commercial Private Limited	217.	64415	M/s. Brijdham Distributors Private Limited
191.	43292	M/s. BIL Pharmaceuticals Private Limited	218.	92622	M/s. Broadband Cablecom Limited
192.	74300	M/s. Bina Capital Services Private Limited	219.	41711	M/s. BSC Apartments Private Limited
193.	88103	M/s. Birada Engineering Associates Private Limited	220.	49784	M/s. BSC Leasing & Finance Company Limited
194.	71851	M/s. Birla Information Technology Limited	221.	47110	M/s. BSVILLER (Lift) Private Limited
195.	52603	M/s. Birla-DPL Steel & Industries Limited	222.	38141	M/s. Burrabazar Chemicals Private Limited
196.	71321	M/s. Bishnupada Land Development and Construction Co. Private Limited	223.	54607	M/s. Bush Esskay Tea Private Limited
197.	49275	M/s. BKP Fiscal Services Private Limited	224.	64350	M/s. C S M Pumps Private Limited
198.	76411	M/s. Black & Bright Fastners Private Limited	225.	36245	M/s. CAD Systems Private Limited
199.	49152	M/s. Black Diamond Cargo Movers Private Limited	226.	27634	M/s. Calcutta & Kashnir Transport Private Limited
200.	64551	M/s. Black Opal Properties & Exports Private Limited	227.	85906	M/s. Calcutta Green Retreat & Land Development Company Private Limited
201.	76006	M/s. Black Panther Transport Private Limited	228.	81304	M/s. Calcutta Land Mark Company Private Limited
202.	62275	M/s. Blowplast Paper Private Limited	229.	11270	M/s. Calcutta Metal Industries Private Limited
203.	88033	M/s. Blue Bird Courier Private Limited	230.	87687	M/s. Calcutta Software Company Private Limited
204.	73922	M/s. Blue Skies Consultancy Private Limited	231.	19373	M/s. Calcutta Steamers Private Limited
205.	46534	M/s. Blue Star Shipping Company Private Limited	232.	28484	M/s. Calcutta Tea Brokers Private Limited
206.	93884	M/s. Bodra Plastochem Private Limited	233.	41329	M/s. Calfoods Private Limited
207.	43847	M/s. Bol Pole Private Limited	234.	58585	M/s. Caliente Systems India Private Limited
208.	67479	M/s. Bolera Traders Private Limited	235.	92095	M/s. Calsoft Digital Services Private Limited
209.	57544	M/s. Bonafide Credit & Savings Company Limited	236.	89877	M/s. Caltek Chemicals Private Limited
210.	56268	M/s. Borneo Shipping (ND) Private Limited	237.	40604	M/s. Can Consultants Private Limited
211.	31363	M/s. Bose Exports Private Limited	238.	53541	M/s. Can Finvest Consultants Private Limited
212.	86020	M/s. Bose Resorts & Hotels Private Limited	239.	37181	M/s. Canacona Commercials Private Limited
			240.	60206	M/s. Candor Estates Private Limited

1	2	3
241.	49664	M/s. Canther Exports Private Limited
242.	53989	M/s. Cap-Aid Finance and Investment Co. Limited
243.	65327	M/s. Capricorn Homes Private Limited
244.	32638	M/s. Caravan Travels (India) Private Limited
245.	53566	M/s. Care Capital Market Private Limited
246.	84831	M/s. Carol Constructions & Development Co. Private Limited
247.	62273	M/s. Castron Distributors Private Limited
248.	92908	M/s. Cateleya Infotech India Limited
249.	84692	M/s. CBR Agencies Private Limited
250.	79686	M/s. Century Commodities Private Limited
251.	43573	M/s. Chanda Flour Mills Private Limited
252.	40176	M/s. Chandausi Rice Mills Limited
253.	22347	M/s. Chandi Charan Mitra & Co. Private Limited
254.	59026	M/s. Chandysons (Interiors) Private Limited
255.	11224	M/s. Charu Chandra Estates Private Limited
256.	53441	M/s. Chhabra Enterprises Private Limited
257.	78556	M/s. Chilka Marine Seafoods Private Limited
258.	44247	M/s. Ching Wah and Company (India) Private Limited
259.	85955	M/s. Chokhani Enterprises Private Limited
260.	21738	M/s. Chotanagpur Minerals & Agencies Private Limited
261.	60667	M/s. Choudhary Fintrade Private Limited
262.	68619	M/s. CHS Holdings Private Limited
263.	30493	M/s. Civika Syntex Private Limited
264.	79692	M/s. Classic Dealers Private Limited
265.	22395	M/s. Clayton Construction Co. Private Limited
266.	65694	M/s. Combined Professionals Private Limited
267.	37890	M/s. Comfort Chemicals Private Limited
268.	36168	M/s. Comind Care & Investors Private Limited

1	2	3
269.	87258	M/s. Commencorp Trading Private Limited
270.	61516	M/s. Computing Solutions Private Limited
271.	25838	M/s. Comtraco (Calcutta) Private Limited
272.	46691	M/s. Comy Electronics Private Limited
273.	63317	M/s. Conem Exports Private Limited
274.	64416	M/s. Connect Impex Private Limited
275.	93636	M/s. Conquest Insurance Agents Private Limited
276.	59167	M/s. Consolidated Engineering Services Private Limited
277.	87202	M/s. Consortium Flora Private Limited
278.	44667	M/s. Consultants & Research Bureau of Industry Trade & Exmi Private Limited
279.	90572	M/s. Contract Software Solutions Private Limited
280.	24698	M/s. Contract Supplies & Construction Private Limited
281.	63308	M/s. Coolgradia Merchandise Private Limited
282.	87631	M/s. Cornato Consultants Private Limited
283.	90160	M/s. Corona Fabcon Private Limited
284.	66581	M/s. Corrogonan Pharmaceuticals Private Limited
285.	42705	M/s. Cosmopolitan Leasing Co. Private Limited
286.	80424	M/s. CRA Finance Private Limited
287.	81150	M/s. Crazy Financial Services Private Limited
288.	91925	M/s. Creative Connection Private Limited
289.	85626	M/s. Crime Control Private Limited
290.	65891	M/s. Criss Cross Finance & Investment Private Limited
291.	81501	M/s. Cross Roads Commercial Private Limited
292.	48313	M/s. Crystal Travels Private Limited
293.	84501	M/s. Cyber Data System Private Limited
294.	68990	M/s. Cygnet Vyapaar Private Limited
295.	91102	M/s. Cytech-com Private Limited
296.	15638	M/s. D C Sethia Limited
297.	88830	M/s. D E Engineering Products Private Limited

1	2	3	1	2	3
298.	45132	M/s. D P S Development Projects Private Limited	327.	91977	M/s. Discount Infoline.com Private Limited
299.	48688	M/s. D S R Turnkey Engineering Services Private Limited	328.	50151	M/s. Disneyland Fantasy Limited.
300.	72175	M/s. D. J. Surgical Private Limited	329.	69606	M/s. Distent Vin.com Private Limited
301.	53407	M/s. D. Ruttonji (Liquor) Private Limited	330.	94464	M/s. Distinctive Travels Private Limited
302.	78675	M/s. Daffodil Competech Services Private Limited	331.	94778	M/s. Diurnal Appliances Private Limited
303.	69734	M/s. Damka Vyapaar Private Limited	332.	80921	M/s. Divya Drishti Comotrade Private Limited
304.	9035	M/s. Damodar Coal Co. Private Limited	333.	63120	M/s. Divya Syntex Private Limited
305.	29157	M/s. Danda Bros Private Limited	334.	89159	M/s. DNK Financial Services Private Limited
306.	57488	M/s. Dasmesh Finance Private Limited	335.	91904	M/s. Domino Systems Private Limited
307.	28945	M/s. Datson Engineering Private Limited	336.	60211	M/s. Dove Conclave Private Limited
308.	90737	M/s. Davis Medicare Private Limited	337.	57449	M/s. DPB Chemfab Fire Protection Private Limited
309.	91760	M/s. Deblina Share Services Private Limited	338.	81308	M/s. Dream Orchard Limited
310.	79134	M/s. Decision Supporting Centre Private Limited	339.	18973	M/s. Drums (India) Private Limited
311.	48434	M/s. Dee Kay Computers and Data Consultancy Private Limited	340.	68538	M/s. Dulason Management Private Limited
312.	30218	M/s. Deepak Rubber Industries Private Limited	341.	84997	M/s. Duracont Plastics Private Limited
313.	88524	M/s. Delite Complex Maintenance Limited	342.	83134	M/s. Durgapur Ash & Allied Goods Manufacturing Private Limited
314.	49097	M/s. Derby Petrocarbon Limited	343.	70706	M/s. Durgesh Trading Company Private Limited
315.	49096	M/s. Derby Rayon Limited	344.	82073	M/s. Dutta Ghosh & Associates Private Limited
316.	78390	M/s. Detan Electricals & Control Private Limited	345.	77635	M/s. Dwarka Financial Resources Private Limited
317.	83956	M/s. Dexterous Software Systems Private Limited	346.	76865	M/s. Dynamic fincom Private Limited
318.	87186	M/s. Dey Auto Park Private Limited	347.	72731	M/s. E. K. Isolators Private Limited
319.	49453	M/s. Dhansree Products Private Limited	348.	53390	M/s. Eagle Coal Sales Private Limited
320.	91420	M/s. Dharakti Dunya Publication Limited	349.	89158	M/s. East Coast Exim Private Limited
321.	56046	M/s. Dhruvko Enterprises Private Limited	350.	65849	M/s. East West Promoters Private Limited
322.	92716	M/s. Digital Net Stream.com Private Limited	351.	53465	M/s. East-Point Courier Private Limited
323.	91054	M/s. Digitex Infoway Private Limited	352.	77455	M/s. Eastern Kaolines Private Limited
324.	41943	M/s. Dinyog Syntex Private Limited	353.	28574	M/s. Eastern Marketing Services Private Limited
325.	45393	M/s. Dipali Cinema Private Limited	354.	28371	M/s. Eastern Rolls & Steel Tapes Private Limited
326.	91625	M/s. Diphu Plywood Manufacturing Limited	355.	76466	M/s. Eastern Spinners Limited
			356.	30696	M/s. Effective Systems Private Limited

I	2	3	1	2	3
357.	69835	M/s. Ekchakra Vinimoy Private Limited	388.	45354	M/s. Exint Tea Brokers Private Limited
358.	40481	M/s. Eksons Medicinal Private Limited	389.	17523	M/s. Expert Agency Service Private Limited
359.	61703	M/s. Elan Leather Accessories Private Limited	390.	45437	M/s. Exposure (India) Gems & Jewellers Private Limited
360.	49992	M/s. Elcon Projects Private Limited	391.	17215	M/s. Express Printers Private Limited
361.	51142	M/s. Eldot Computer Systems Private Limited	392.	69837	M/s. Exterior Merchants Private Limited
362.	94758	M/s. Elite Cement India Private Limited	393.	35103	M/s. Extrusions Agro Drainage Limited
363.	44695	M/s. Embeecon Engineers Private Limited	394.	84221	M/s. F. P. Financial Services Private Limited
364.	59578	M/s. EMC Real Estates Private Limited	395.	56624	M/s. Faireddeal Marketing Private Limited
365.	76019	M/s. Emerald Management Limited	396.	60132	M/s. Faizi Savings and Investment Company Private Limited
366.	72476	M/s. Emery Suppliers Private Limited	397.	60207	M/s. Falcon Estates Private Limited
367.	85113	M/s. Empire Drawing Instrument Co. Private Limited	398.	56981	M/s. Fave Finvest India Limited
368.	92196	M/s. Enigma Infotech Private Limited	399.	38439	M/s. Fern Electromech & Co. Private Limited
369.	38626	M/s. Enpal Construction Private Limited	400.	65443	M/s. Fivestar Suppliers Private Limited
370.	82640	M/s. Enpro Estates Limited	401.	85588	M/s. Flad Construction Consultancy Private Limited
371.	64251	M/s. Ensa Consultants Private Limited	402.	94879	M/s. Flagship Events & Entertainment Private Limited
372.	77692	M/s. Epcon Marketing Private Limited	403.	81586	M/s. Flamingo Infomatics Private Limited
373.	74129	M/s. Epica Dealcomm. Private Limited	404.	81587	M/s. Flamingo Systems Private Limited
374.	69827	M/s. Erode Agency Private Limited	405.	24494	M/s. Flax-Tube Private Limited
375.	33187	M/s. Eros Trading Co. Private Limited	406.	54852	M/s. Flowell Rubber & Engineering Works Private Limited
376.	46566	M/s. Esha Trades & Agencies Private Limited	407.	51231	M/s. Flt-Amb Trading Private Limited
377.	76879	M/s. Essay Tar & Chemicals Private Limited	408.	60848	M/s. Fluid Technic Private Limited
378.	86550	M/s. Essem Project & Estate Services Private Limited	409.	82829	M/s. Foresome Traders Private Limited
379.	33533	M/s. Essen Synthetics (Ghaziabad) Private Limited	410.	88445	M/s. Fortune Fusion Commotrade Private Limited
380.	75821	M/s. Esskay Mercantile Private Limited	411.	78290	M/s. Foto Man Sales Private Limited
381.	65951	M/s. Esspee Electro (India) Private Limited	412.	87953	M/s. Four Colour Communication Private Limited
382.	82074	M/s. Estech Tech Trade Private Limited	413.	49966	M/s. Frontec Polymer Industries Private Limited
383.	24217	M/s. Eureka & Co. Private Limited	414.	77989	M/s. Frontline Suppliers Private Limited
384.	80526	M/s. Everbright Merchants Private Limited	415.	83578	M/s. Furn Antique (India) Limited
385.	63263	M/s. Everest Adhesives Private Limited	416.	60335	M/s. Futura Capital Marketing Services Limited
386.	61481	M/s. Everest Industrial Agency Private Limited	417.	17568	M/s. G Biyani & Co. Limited
387.	88260	M/s. Everyday Food Private Limited			

1	2	3	1	2	3
418.	85219	M/s. G. L. Finvest Private Limited	449.	49790	M/s. Glassgow Builders Private Limited
419.	59916	M/s. G. Mercantile Private Limited	450.	87059	M/s. Glassfibre Reinforced Polymers Limited
420.	53431	M/s. G. D. C. D. Enterprises Private Limited	451.	27485	M/s. Glaswegian Surveyors & Assessors Private Limited
421.	81901	M/s. G. D. Contact Electrodes Private Limited	452.	50038	M/s. Godavari Industries Limited
422.	74149	M/s. G. D. S. Home Products Private Limited	453.	77042	M/s. Godavari Management Services Private Limited
423.	65282	M/s. G. V. Impex Private Limited	454.	74242	M/s. Goel Architects Private Limited
424.	30893	M/s. Gadodia Private Limited	455.	74241	M/s. Goel Developers Private Limited
425.	67386	M/s. Gagan Cabinet Private Limited	456.	30154	M/s. Goel Tubes Private Limited
426.	53724	M/s. Gajmukta Trade & Finance Private Limited	457.	44324	M/s. Gokul Dairy & Allied Products Private Limited
427.	61155	M/s. Gamut Commodities Private Limited	458.	26776	M/s. Golden Fibre Fabrics Private Limited
428.	61463	M/s. Ganapati Vanijya Private Limited	459.	40554	M/s. Golden Paints (India) Private Limited
429.	20627	M/s. Ganga Commercial Private Limited	460.	78460	M/s. Good Prople Vyapaar Private Limited
430.	86698	M/s. Garden Farm Nutritive Products Private Limited	461.	78684	M/s. Goodluck Vinimay Private Limited
431.	88994	M/s. Garden Jute Products Private Limited	462.	78459	M/s. Goodnews Vyapaar Private Limited
432.	69834	M/s. Gargi Vyapaar Private Limited	463.	52656	M/s. Goodwill Retainers Private Limited
433.	75483	M/s. Gattani Finance & Investments Private Limited	464.	78876	M/s. Goodwin Merchants Private Limited
434.	90270	M/s. Gauri Ganesh Mill Private Limited	465.	60590	M/s. Gorgeous Life General Finance & Investment Company Limited
435.	58886	M/s. Gaurja Fincon Marketing Private Limited	466.	64626	M/s. Gourav Fiscal Services Private Limited
436.	89562	M/s. GDM Enterprises Private Limited	467.	59433	M/s. Govardhan Merchandise Private Limited
437.	80544	M/s. Gee Pee Polytex Private Limited	468.	70851	M/s. Green Horn Commercial Private Limited
438.	51748	M/s. Gee Pee Tex Private Limited	469.	65445	M/s. Green Mark Vanijya Private Limited
439.	44279	M/s. Geet Purushottam Properties Private Limited	470.	79943	M/s. Greenedge Resorts & Tourism Limited
440.	63292	M/s. Gehena Exports Private Limited	471.	60768	M/s. Guardian Performance Polymers Limited
441.	85414	M/s. Gem Jewellery Export Private Limited	472.	42935	M/s. Gupta Polytex Private Limited
442.	81299	M/s. Gemus Trading Private Limited	473.	33974	M/s. H. D. Spices Private Limited
443.	31606	M/s. General Ceramic Industries Private Limited	474.	89958	M/s. H. M. C. Agencies Private Limited
444.	20131	M/s. General Laboratories Private Limited	475.	72489	M/s. Haldia Industrial Gases Private Limited
445.	66013	M/s. Ghose Impex Private Limited	476.	40850	M/s. Haldia Mudran Private Limited
446.	88832	M/s. Gimpex Commercial Private Limited	477.	58828	M/s. Haldia Nitrates and Chemicals Private Limited
447.	69782	M/s. Giriganga Vincom Private Limited	478.	42829	M/s. Haldia Resorts Private Limited
448.	66640	M/s. GKW Properties Limited			

1	2	3	1	2	3
479.	46684	M/s. Hallowtrade and Finance Private Limited	507.	73281	M/s. HMP Snehlata Tamil Nadu Properties Private Limited
480.	88116	M/s. Hanns Cargo Care Private Limited	508.	73278	M/s. HMP Snehlata Uttar Pradesh Properties Private Limited
481.	46023	M/s. Hanuman Bari Krishi Company Private Limited	509.	53548	M/s. Hotel Status Private Limited
482.	38636	M/s. Hanuman (India) Private Limited	510.	74617	M/s. Humraahi Commercial Private Limited
483.	92129	M/s. Happy Amusements Private Limited	511.	56982	M/s. Hyper Media Systems Private Limited
484.	90401	M/s. Happy Home Kitchen Aids Limited	512.	86260	M/s. I R Estates Services Private Limited
485.	53822	M/s. Hare Krishna Food Products Private Limited	513.	48575	M/s. I. P. A. Marketing Limited
486.	89355	M/s. Harjas Hospitalities Private Limited	514.	64423	M/s. Ideal Chambers Private Limited
487.	77182	M/s. Hemadri Properties Private Limited	515.	78152	M/s. Ideal Tradelink Private Limited
488.	45986	M/s. Herbert Chemicals Limited	516.	76530	M/s. Imcon Engineers Private Limited
489.	88738	M/s. Herby Cosmetics Private Limited	517.	25367	M/s. Indian Building Elements Co. Private Limited
490.	44527	M/s. Hercules Paper Board Private Limited	518.	30612	M/s. Indian Polyamines & Industries Limited
491.	47363	M/s. Heritage Pharmaceuticals Private Limited	519.	14535	M/s. Indian Teakwood Products Private Limited
492.	31092	M/s. Hermesetas of India Limited	520.	81204	M/s. Indobel Composities Private Limited
493.	90260	M/s. Hi Tech Lubricants Private Limited	521.	75491	M/s. Indrani Sales Private Limited
494.	54915	M/s. Hi-Tech-Nirman Engineering and Construction Company Private Limited	522.	71792	M/s. Indranil Hotels & Resorts Private Limited
495.	45387	M/s. Highpolymeric Insulation Industries Private Limited	523.	69647	M/s. Indu Properties Private Limited
496.	61839	M/s. Highway Marketing Private Limited	524.	45701	M/s. Indu Silica Products Private Limited
497.	50990	M/s. Himadri Finvest Private Limited	525.	14634	M/s. Indus Press & Publicity Private Limited
498.	39471	M/s. Himadri Wood Products Private Limited	526.	48297	M/s. Informatika Software Private Limited
499.	22191	M/s. Hind Properties Private Limited	527.	90586	M/s. Information Keysrokes Online Private Limited
500.	57671	M/s. Hiralall Oil Company Private Limited	528.	59852	M/s. INI Management Services Private Limited
501.	43047	M/s. Hitek Developments (India) Private Limited	529.	89375	M/s. Innoplan (India) Private Limited
502.	28644	M/s. Hitread Engineering Works Private Limited	530.	77365	M/s. Inset Merchandise Private Limited
503.	59698	M/s. HKM Consultancy Services Private Limited	531.	87196	M/s. Institute of Hotel Management and Tourism Private Limited
504.	59326	M/s. HMC Infotech Private Limited	532.	28738	M/s. Instrument Systems Eastern Private Limited
505.	91093	M/s. HMP Rallifan Marketing Company Limited	533.	39280	M/s. Insu Instruments Private Limited
506.	65434	M/s. HMP Shahabad Cements Limited	534.	29386	M/s. Insurance Consultants & Re-Insurance Brokers (India) Private Limited

1	2	3	1	2	3
535.	27180	M/s. International Cafeteria Private Limited	564.	92672	M/s. Jenson & Nicholson Industrial Coatings Private Limited
536.	68704	M/s. International Fund Management Company Limited	565.	92683	M/s. Jenson & Nicholson Powder Coatings Private Limited
537.	36520	M/s. Intervision Video Agents Private Limited	566.	75609	M/s. Jepee Marble & Minerals Private Limited
538.	91106	M/s. Intrepid Digitech Private Limited	567.	72407	M/s. Jewel Pack India Private Limited
539.	82075	M/s. Investment Strategy and Risk Analysis Private Limited	568.	53481	M/s. Jorrine Carbon Private Limited
540.	94470	M/s. Iris Tea Estate Private Limited	569.	27824	M/s. Joshi Hire Purchase & Traders Private Limited
541.	77945	M/s. Ishan Consultancy Private Limited	570.	19972	M/s. Jute Fibre Co. Limited
542.	74596	M/s. Ishita Exim Private Limited	571.	38041	M/s. Jyoti Vastralaya Private Limited
543.	76727	M/s. ISR Marketing Private Limited	572.	46849	M/s. K & R Mercantiles Private Limited
544.	43659	M/s. ISS Holdings Limited	573.	65385	M/s. K P B Books Private Limited
545.	49045	M/s. Jackers Investments & Finance Private Limited	574.	29398	M/s. Kajhuma India Private Limited
546.	82655	M/s. Jagdamba Management Private Limited,	575.	49395	M/s. Kaka Roadlinks Private Limited
547.	65762	M/s. Jagdhatri Advisory Private Limited	576.	53825	M/s. Kalika Coal & Allied Services Private Limited
548.	34913	M/s. Jain Jute Carriers Private Limited	577.	72401	M/s. Kamakshi Exmim Private Limited
549.	79365	M/s. Jain Merchants Private Limited	578.	37897	M/s. Kanoi Commercials Private Limited
550.	30631	M/s. Jainsons Marketing Private Limited	579.	30615	M/s. Kanoria Packaging Private Limited
551.	32474	M/s. Jajodia Tim Co Private Limited	580.	90651	M/s. Kapeesh Marketing Private Limited
552.	11213	M/s. James & Co. Private Limited	581.	52932	M/s. Kapur Veneer & Wood Products Private Limited
553.	58021	M/s. Janabith Savings & Credit (India) Limited	582.	87259	M/s. Karimbux Impex Private Limited
554.	21463	M/s. Janardan Rice Mills Private Limited	583.	79182	M/s. Karnavati Dealcomm Private Limited
555.	94985	M/s. Jani Novelties Private Limited	584.	74125	M/s. Kasa Distrubutors Private Limited
556.	45671	M/s. Jap Construction & Fabrication Private Limited	585.	60305	M/s. Kasturi Stockinvest Private Limited
557.	46685	M/s. Jay Vijay Trade and Finance Private Limited	586.	62277	M/s. Kaveri Sugar Private Limited
558.	63716	M/s. Jayer Oils & Chemicals Private Limited	587.	85809	M/s. Kayhim Pharmaceuticals Private Limited
559.	64075	M/s. Jaypee Capital Services Private Limited	588.	77409	M/s. KBS Finvest Private Limited
560.	45236	M/s. JCTR Chemicals Private Limited	589.	40108	M/s. Kedarnath Mannalal Private Limited
561.	73663	M/s. Jeevansudha Tradelink Private Limited	590.	29270	M/s. Kedia Forging and Engineering Works Private Limited
562.	24857	M/s. Jeloka Enterprises Private Limited	591.	46016	M/s. Kedia Saree Private Limited
563.	30938	M/s. Jems Electromech Private Limited	592.	75358	M/s. Kenilworth ABC Agencies Private Limited
			593.	74126	M/s. Kennex Dealers Private Limited
			594.	59071	M/s. Kernel Computers Private Limited

1	2	3	1	2	3
595.	68151	M/s. Keshan Textiles Private Limited	625.	59988	M/s. Kuber Vyapaar Private Limited
596.	65493	M/s. Khaitan Fiscal & Management Services Private Limited	626.	76269	M/s. L. Madanlal Metals Private Limited
597.	66979	M/s. Khandelwal Farms Private Limited	627.	71197	M/s. LA Noire Fuels Limited
598.	21786	M/s. Khas Govindpur Coal Co Private Limited	628.	83690	M/s. Labpur Cold Storage Private Limited
599.	43957	M/s. Khatundi Constructions Private Limited	629.	80616	M/s. Lahoti Fintrade Private Limited
600.	67192	M/s. KIC Polymers Private Limited	630.	86739	M/s. Lakshmi Agencies & Services Private Limited
601.	29726	M/s. Kimti Benefit Fund Private Limited	631.	47071	M/s. Lallji Ram Chajumall Private Limited
602.	38072	M/s. Kinetic Services Private Limited	632.	60223	M/s. Lancy Housing Financial Services Limited
603.	90040	M/s. Kinjal Export & Manufacturing Private Limited	633.	58448	M/s. Lansdowne Developers Private Limited
604.	27495	M/s. Kiron Jewellery Private Limited	634.	57279	M/s. LAPOG Investment & Marketing Private Limited
605.	50963	M/s. Kirti Holdings Private Limited	635.	72327	M/s. Lasani Construction Private Limited
606.	78300	M/s. Kishan Lakshmi Agro & Manure Products Private Limited	636.	63983	M/s. Laurel Merchants Private Limited
607.	44028	M/s. Kishori Lal & Sons Private Limited	637.	67493	M/s. Lavish Textiles Private Limited
608.	47661	M/s. Kit Kat Foods Private Limited	638.	83139	M/s. Lawboy Finvest Private Limited
609.	72741	M/s. Kitty Management Services Private Limited	639.	82218	M/s. LCB Consultants Private Limited
610.	43248	M/s. KL Dies Toys Private Limited	640.	57443	M/s. Leo Card Board Private Limited
611.	31204	M/s. KLIM Commercial Co. Private Limited	641.	79778	M/s. Lexsys Expotek Private Limited
612.	57105	M/s. KMP Oils Private Limited	642.	89685	M/s. Life Guard Services Private Limited
613.	85143	M/s. KMR International Private Limited	643.	52069	M/s. Limtex Advertising Private Limited
614.	30766	M/s. Kochar Brothers Private Limited	644.	43597	M/s. Little Huts & Homes Private Limited
615.	4085	M/s. Kohinoor Flour Milling Agency Private Limited	645.	80946	M/s. Lokenath Consultancy Private Limited
616.	27322	M/s. Kojani Jute Baling Co. Private Limited	646.	80883	M/s. Longlife Dealcomm Private Limited
617.	66515	M/s. Konkan Oils Private Limited	647.	88749	M/s. Lords Exports Private Limited
618.	67190	M/s. KPK International Limited	648.	78696	M/s. Lovkush Agencies Private Limited
619.	31840	M/s. Kransvip Engineering Private Limited	649.	63694	M/s. Lucknow Zarda Factory Private Limited
620.	86033	M/s. Krativ Textstyles Private Limited	650.	63909	M/s. Lumax Merchants Private Limited
621.	93853	M/s. KRD Software Private Limited	651.	74875	M/s. Lundia Steel & Fab Limited.
622.	41944	M/s. KRN Exports Private Limited	652.	47307	M/s. M H T Foods Private Limited
623.	89233	M/s. KSD Mercantile Private Limited	653.	22613	M/s. M P Builders Limited
624.	91720	M/s. KSPAN Maritime Academy Private Limited	654.	56776	M/s. M. Bhattacharyya Laboratories Private Limited
			655.	60164	M/s. M. D. S. Softech Private Limited
			656.	90566	M/s. M. R. Pollypack Private Limited
			657.	93917	M/s. M. S. C. Insurance Agents Private Limited



1	2	3	1	2	3
658.	47173	M/s. Ma-Tara Board & Paper Mill Private Limited	687.	48973	M/s. Marvellon Industrial Plastics Private Limited
659.	91349	M/s. MAA Infotrade Private Limited	688.	45228	M/s. Mascot Tannery Private Limited
660.	88365	M/s. MAA Mangal Chandi Aluminium Private Limited	689.	46279	M/s. Mastermind Creative Consultants Limited
661.	76099	M/s. MAA Saraswati Resources Private Limited	690.	72996	M/s. Maureen Fashion Private Limited
662.	86930	M/s. Madhavlal & Company Private Limited	691.	87741	M/s. Maxitranz Private Limited
663.	72587	M/s. Madhurima Goods Private Limited	692.	56756	M/s. MBS Techmatix Private Limited
664.	80917	M/s. Madri Traders Private Limited	693.	46261	M/s. Meera Village Resort Private Limited
665.	68050	M/s. Macy's Advisory Private Limited	694.	81039	M/s. Meera Greenfields Private Limited
666.	38974	M/s. Magno Plas Private Limited	695.	82985	M/s. Mega Screen Advertising & Marketing Private Limited
667.	57139	M/s. Magnum Conclave Finance & Investment Limited	696.	56284	M/s. Megatherm Projects Private Limited
668.	69341	M/s. Mahadhan Tracon Private Limited	697.	25967	M/s. Mercantile Transport Private Limited
669.	61237	M/s. Maharagyi Investments Private Limited	698.	78957	M/s. Metro Goods Private Limited
670.	82193	M/s. Maharani Properties Private Limited	699.	42973	M/s. Metro Politan Builders Private Limited
671.	39996	M/s. Mahasangham Finance & Industrial Investment Private Limited	700.	24164	M/s. MICPO Manufacturers Private Limited
672.	76168	M/s. Mahaveer Structural Private Limited	701.	84453	M/s. Micro Impexs Private Limited
673.	60185	M/s. Majumdar Exports Private Limited	702.	73446	M/s. MIDCO Consultants Services Private Limited
674.	78572	M/s. Malabar Pearl Private Limited	703.	88279	M/s. Millat Trading Company Private Limited
675.	44590	M/s. Malhotra Brothers Private Limited	704.	69844	M/s. Millia Vincom Private Limited
676.	52747	M/s. Malsisaria Fiscal Services Private Limited	705.	89741	M/s. Mindwork Softtech Private Limited
677.	46689	M/s. Mahta Trade and Finance Private Limited	706.	50680	M/s. Mink Information Private Limited
678.	75084	M/s. MAM Electricals Private Limited	707.	66824	M/s. Mink Leather Fashions Private Limited
679.	77310	M/s. MAM Reprographics Private Limited	708.	87188	M/s. Minu Minerals Private Limited
680.	89510	M/s. MAM's Cosmetics Private Limited	709.	78464	M/s. Miranda Merchants Private Limited
681.	75225	M/s. Manisha Consultancy Private Limited	710.	24680	M/s. Mitter Manufacturing Co. Private Limited
682.	48200	M/s. Mantry Exporters Private Limited	711.	86457	M/s. MMC Holdings Private Limited
683.	47078	M/s. Maria Consumer Products Private Limited	712.	92736	M/s. MMG Media Private Limited
684.	41373	M/s. Marlin Laboratories Private Limited	713.	51311	M/s. MMI Impex Private Limited
685.	81737	M/s. Marmec Private Limited	714.	74463	M/s. Mobar Mining Limited
686.	74055	M/s. Marubhumi Goods & Services Private Limited	715.	22190	M/s. Mobile Finance Private Limited
			716.	17206	M/s. Mobility Private Limited
			717.	78209	M/s. Modern Dealcomm Private Limited

1	2	3	1	2	3
718.	43321	M/s. Modern Publishers & Traders Private Limited	747.	90177	M/s. Naman Suppliers Private Limited
719.	50420	M/s. Modern Spuncrete Private Limited	748.	63033	M/s. Nandini Textiles Private Limited
720.	34229	M/s. Modi & Lakhotia Construction Co. Private Limited	749.	91528	M/s. Narayani Nitwel Private Limited
721.	54321	M/s. Mohit Construction Private Limited	750.	57800	M/s. Narayani Granites Private Limited
722.	51718	M/s. Monex Consultants Private Limited	751.	79721	M/s. Narula Developers Private Limited
723.	45051	M/s. Monex Finance Private Limited	752.	11031	M/s. Narundi Trading Co. Limited
724.	28906	M/s. Monifreeze Private Limited	753.	63436	M/s. Narvik Exim Private Limited
725.	80488	M/s. Monoj Screen Printing and Knitting Works Private Limited	754.	94203	M/s. Naskar Construction Private Limited
726.	78095	M/s. Mridul Commercial Private Limited	755.	43829	M/s. Nathweld & Metal Industries Private Limited
727.	79025	M/s. Mrignayani Suppliers Private Limited	756.	9925	M/s. National Model Industries Limited
728.	67495	M/s. Mudita Chemical Private Limited	757.	22403	M/s. National Udyog Private Limited
729.	44249	M/s. Multi Estates Private Limited	758.	47274	M/s. Nature Cure Pharmaceuticals Private Limited
730.	87159	M/s. Multi Tech Socio Economic Survey Consultants and Enterprises	759.	28375	M/s. Nav Bharat Plastics Moulders Private Limited
731.	93229	M/s. Multicon Housing Project Private Limited	760.	66552	M/s. Navaketan Emporium Private Limited
732.	45058	M/s. Multipurpose Developers Services Private Limited	761.	27700	M/s. Navdeepam Radio Plastic Industries Private Limited
733.	72340	M/s. Multivision Projects Development Enterprises Limited	762.	63321	M/s. Navdurga Syntex Private Limited
734.	67876	M/s. Muniraj Merchants Private Limited	763.	35879	M/s. Navin Commercial Private Limited
735.	76061	M/s. Munna Babu Foods Private Limited	764.	45678	M/s. Navin Industrial Spares Private Limited
736.	34282	M/s. Murarka Electricals Private Limited	765.	79204	M/s. Nerolac Commerce Private Limited
737.	62950	M/s. Murex Exports Private Limited	766.	93635	M/s. New Age Insurance Agents Private Limited
738.	83521	M/s. Myrinda Systems Private Limited	767.	93536	M/s. New Frontier Fire Fighter Private Limited
739.	50035	M/s. N K Fiscal Services Private Limited	768.	70834	M/s. New Health Products Company Private Limited
740.	80636	M/s. N R B Interior & Designer Private Limited	769.	51652	M/s. New India Finance Limited
741.	23649	M/s. N R Mukherjee Private Limited	770.	85698	M/s. Newfield Modular Design Private Limited
742.	53726	M/s. N. G. International Private Limited	771.	77827	M/s. Newjet Marketing Private Limited
743.	8570	M/s. N. M. Roychowdhury Co. Private Limited	772.	91860	M/s. Newlife Foundation Private Limited
744.	71139	M/s. N. S. Woolen Garments Private Limited	773.	39379	M/s. Newtech Rolls Mfg. & Properties Private Limited
745.	31904	M/s. Naha Engineering & Co Private Limited	774.	28525	M/s. Nigam Brothers (Sales) Private Limited
746.	79705	M/s. Naman Agencies Private Limited	775.	90173	M/s. Nikhar Commercial Private Limited
			776.	63266	M/s. Nikhil Adcon Private Limited

1	2	3	1	2	3
777.	35055	M/s. Nikunj Construction Co. Private Limited	807.	33941	M/s. P H Associates Private Limited
778.	81055	M/s. Nilyog Commercial Private Limited	808.	46971	M/s. P K Valves Private Limited
779.	85859	M/s. Nippon Techna Software Private Limited	809.	94519	M/s. P. K. Das Associates & Construction Private Limited
780.	72952	M/s. Nirikshan Goods & Supply Private Limited	810.	31643	M/s. P. K. Tea Private Limited
781.	62414	M/s. Nischinta Consultants Private Limited	811.	62399	M/s. P. O. D. Agri Forestry Private Limited
782.	86010	M/s. Norfrost AC Systems Private Limited	812.	48405	M/s. P. S. Rubber Udyog Private Limited
783.	79478	M/s. North East Road Links Private Limited	813.	75238	M/s. Pacific Tradecom Private Limited
784.	86295	M/s. North Point Resorts Private Limited	814.	71740	M/s. Padmavati Consultancy Services Private Limited
785.	65857	M/s. North West Projects Private Limited	815.	93125	M/s. Paes Brands Sports Private Limited
786.	37162	M/s. Northern India Blade manufacturing Co. Private Limited	816.	39952	M/s. Paharimata Properties Private Limited
787.	74935	M/s. NRI Retreats Private Limited	817.	58912	M/s. Palace Exports Private Limited
788.	53552	M/s. NV Servo Tech Private Limited	818.	59930	M/s. Pallibandhu Savings and Investment Company Limited
789.	86087	M/s. Objectivity Software (India) Private Limited	819.	84679	M/s. Paradise Vegetation Farm Private Limited
790.	51908	M/s. OBS Graphics Private Limited	820.	76376	M/s. Paramount Confectioners & Traders Private Limited
791.	56243	M/s. Odyssey Housing Company Private Limited	821.	73799	M/s. Paramount Vision Private Limited
792.	28022	M/s. Okayti Tea Estate Private Limited	822.	74056	M/s. Paras Vintrade Private Limited
793.	57559	M/s. Olympus Books Private Limited	823.	69861	M/s. Parikrama Mercantile Private Limited
794.	63658	M/s. Om Anandam Developers Private Limited	824.	51422	M/s. Parmount Worldwide Constructions Private Limited
795.	52184	M/s. Omkrishna Developers & Contractors Private Limited	825.	63231	M/s. Parrot Nestcon Private Limited
796.	37332	M/s. Orange Valley Tea Limited	826.	81522	M/s. Pasco Financing & Leasing Company Private Limited
797.	80674	M/s. Orbit Appliances Private Limited	827.	51810	M/s. Patokola Rice Mills Private Limited
798.	70965	M/s. Orbit Construction Private Limited	828.	86875	M/s. Patriot Security Services Private Limited
799.	59727	M/s. Orion Inter Trade Private Limited	829.	32495	M/s. PBHAG Chemicals Private Limited
800.	64005	M/s. Ormag Global Private Limited	830.	75211	M/s. Pearl Tradecom Private Limited
801.	75332	M/s. Oster Trading Private Limited	831.	89764	M/s. Pecon Engineers (India) Private Limited
802.	63887	M/s. Otoklin Vinimay Private Limited	832.	52631	M/s. Peean Industrial Fabrics Private Limited
803.	72139	M/s. Otto Packaging Private Limited	833.	22659	M/s. Pelican Engineering Corpn. Private Limited
804.	57078	M/s. Over-Take Savings Housing & Finance Company Limited	834.	66546	M/s. Percy Iron Private Limited
805.	34109	M/s. Own (India) Finance Limited			
806.	88007	M/s. P D P Polymer Private Limited			

1	2	3
835.	76422	M/s. Perfect Wires Private Limited
836.	60208	M/s. Petunia Holdings Private Limited
837.	86675	M/s. Pinnacle Shipping Private Limited
838.	75236	M/s. Pitambari Tradecom Private Limited
839.	18216	M/s. Plasto Iron (India) Private Limited
840.	36333	M/s. Plaza Electronics Private Limited
841.	80978	M/s. Plutus Infotech Private Limited
842.	68015	M/s. Plutus Tours & Travels Private Limited
843.	42997	M/s. PMP Seals Private Limited
844.	11582	M/s. Poddar Mining Corpn Private Limited
845.	57067	M/s. Polykyd Resin Private Limited
846.	28023	M/s. Poolbong Tea Garden Private Limited
847.	90701	M/s. Prabhat Rajani Institute of Information Technology Private Limited
848.	57659	M/s. Prabhu Nibas Housing & Land Development Private Limited
849.	48400	M/s. Pragati Gears Limited
850.	37377	M/s. Pragati Projects Private Limited
851.	81943	M/s. Prakash Sales Agency Private Limited
852.	61032	M/s. Prakritplant Media Limited
853.	18599	M/s. Prasad & Stephens (India) Private Limited
854.	39114	M/s. Prasad Commercial Private Limited
855.	50066	M/s. Prasena Centre Engineers Private Limited
856.	26917	M/s. Pratapmal Gobindram (Pharmaceutical) Private Limited
857.	73108	M/s. Premier Adcon Services Private Limited
858.	36320	M/s. Preti Marketing Private Limited
859.	63642	M/s. Primasonic Television Private Limited
860.	82984	M/s. Prime Petroproducts Private Limited
861.	60209	M/s. Primrose Estates Private Limited
862.	60005	M/s. Prink Finance & Investment Company Limited
863.	80799	M/s. Print-O-Advertisement Private Limited

1	2	3
864.	40058	M/s. Printed Circuits International Limited
865.	24324	M/s. Printers & Stationers (India) Private Limited
866.	42755	M/s. Printoflex Private Limited
867.	88904	M/s. Procomann Private Limited
868.	87950	M/s. Prolaug Computers Private Limited
869.	88474	M/s. Promega Aircon Impex Private Limited
870.	88134	M/s. Prosoft Engineers & Associates Private Limited
871.	90802	M/s. Prosys E.Com Private Limited
872.	68192	M/s. Protex Syntex Private Limited
873.	42495	M/s. Protostar Investment Private Limited
874.	50854	M/s. Prudential Services Private Limited
875.	86896	M/s. PSA Marketing Private Limited
876.	49052	M/s. Puja Trunkys Private Limited
877.	16069	M/s. Pure Drug & Chemical Laboratory Private Limited
878.	86733	M/s. Pure Home Products Private Limited
879.	78466	M/s. Pushpak Commodities Private Limited
880.	72360	M/s. Quality Frites Limited
881.	63480	M/s. Quilemen Vinimay Private Limited
882.	23048	M/s. R. Sen & Co. Timber Treatment Private Limited
883.	32608	M/s. R. B. H. Finance & Investments Limited
884.	85945	M/s. R. K. Embroidery Private Limited
885.	58347	M/s. R. K. Land & House Promoters Private Limited
886.	27590	M/s. R. L. Saraf & Co. (Jute & Gunny) Private Limited
887.	57050	M/s. R. R. Confectioners Private Limited
888.	59919	M/s. R. R. Mercantile Private Limited
889.	37259	M/s. Raas Marketing Private Limited
890.	51621	M/s. Raceway Components Private Limited
891.	30609	M/s. Rachna Syntex Private Limited
892.	40140	M/s. Radha Krishna Rice Mills Private Limited
893.	84602	M/s. Radhe Finvest Private Limited

1	2	3	1	2	3
894.	76873	M/s. Radiant Distributors Private Limited	924.	88266	M/s. Rex Apartments Private Limited
895.	69722	M/s. Radix Solutions Private Limited	925.	88182	M/s. Rex Developers Private Limited
896.	55384	M/s. Raghav Tubes Private Limited	926.	80386	M/s. Ridhiyam Impex Private Limited
897.	42943	M/s. Rahul Polytex Private Limited	927.	68980	M/s. Ringer Tieup Private Limited
898.	44377	M/s. Rai Singh Properties Private Limited	928.	29583	M/s. Rise Savings & Chit Fund Private Limited
899.	20030	M/s. Railway Labour Limited	929.	59648	M/s. Rita Paperchem Private Limited
900.	43550	M/s. Raisons Agro Industries Private Limited	930.	91912	M/s. River and Estuary Management Services Private Limited
901.	88318	M/s. Raj Refreshment Private Limited	931.	52741	M/s. Rkak Marketing Private Limited
902.	41163	M/s. Raja Cold Storage Private Limited	932.	59918	M/s. RKO Mercantile Private Limited
903.	44743	M/s. Rajasthan Electro Systems Private Limited	933.	91579	M/s. RMS Solutions Private Limited
904.	19474	M/s. Rajgarhia Trading Co. Private Limited	934.	30635	M/s. Roberts Mclean Services Private Limited
905.	65035	M/s. Rajlaxmi Food Products Private Limited	935.	32561	M/s. Roberts Mclean Cosmetics Private Limited
906.	75227	M/s. Rajput Engineering (India) Company Private Limited	936.	48230	M/s. Robin Exports Private Limited
907.	82806	M/s. Rakesh Print Private Limited	937.	50812	M/s. Rocket Housing Finance Company Private Limited
908.	91098	M/s. Ralliwolf HMP Marketing Company Limited	938.	49053	M/s. Rohan Engineers Private Limited
909.	89269	M/s. Ranjita Creations Private Limited	939.	32563	M/s. Rohcom Trading & Investment Limited
910.	43155	M/s. Ratan Deep Estates Private Limited	940.	80177	M/s. Rohit Commerce Private Limited
911.	16089	M/s. Rays Private Limited	941.	60451	M/s. Roland Petro Products Private Limited
912.	89323	M/s. RCG Technologies Private Limited	942.	78465	M/s. Rolland Sales Services Private Limited
913.	60190	M/s. RDG Computers Private Limited	943.	50796	M/s. Rotomac Services Private Limited
914.	66554	M/s. Rebena Cosmetics Private Limited	944.	81931	M/s. Roy Tek Consultants Private Limited
915.	79312	M/s. Reckon Dealers Private Limited	945.	59040	M/s. Roy Trading India Private Limited
916.	91696	M/s. Redstar Enterprises Private Limited	946.	80901	M/s. Royal Falcom Exim Private Limited
917.	46102	M/s. Redsun Shiva Circuits Private Limited	947.	66616	M/s. Royal Tanneries Private Limited
918.	42510	M/s. Relevance Commercial Private Limited	948.	87172	M/s. Roych Organics Private Limited
919.	83032	M/s. Reliable Express Private Limited	949.	70176	M/s. Rozelle Merchandise Private Limited
920.	24312	M/s. Reliable Metal Industries Private Limited	950.	54842	M/s. RRNK Share & Stock Broking Services Private Limited
921.	74688	M/s. Reliable Radiators (Calcutta) Private Limited	951.	90117	M/s. RS Developers Private Limited
922.	63097	M/s. Reliant Leasing & Securities Private Limited	952.	67417	M/s. Rubee Tours & Courier Services Private Limited
923.	43107	M/s. Resource Business Services Private Limited	953.	78310	M/s. Rudira Enterprises Private Limited

1	2	3
954.	52252	M/s. Ruia Housing Development Private Limited
955.	87566	M/s. Rumani Hotels & Resorts Private Limited
956.	63290	M/s. Runner Courier and Cargo Private Limited
957.	67429	M/s. Ruptara Abhra Private Limited
958.	66543	M/s. Ruptara Food Private Limited
959.	76036	M/s. Rormal Ratanlal Traders Private Limited
960.	80604	M/s. Rusel Structures Private Limited
961.	37604	M/s. S. & C. Specialities Private Limited
962.	8913	M/s. S. S. Devi's Jambad Coal Concern Private Limited
963.	83638	M/s. S. S. K. Indica Software Private Limited
964.	40175	M/s. S. S. Marine Private Limited
965.	57125	M/s. S. D. Nirman Housing Development & Finance Company Limited.

T. P. SHAMI  
Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following companies

Kolkata, the 22nd July 2005

No. ROC/WB/IPC/Master File-2/560/SES-2003.—Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sub-Section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 under SES-2003 the names of the following 300 companies have this day been struck off from the 'Register' of Registrar of Companies and are dissolved :—

List of Companies approved under Section 560(5)  
Record

Sl. No.	Reg No.	Company Name
1	2	3
1.	55977	M/s. S. G. Electronics Private Limited
2.	39015	M/s. S. K. Sons Traders Private Limited
3.	93547	M/s. S. M. Guest House Private Limited
4.	54812	M/s. S. M. Investment & Marketing Private Limited

1	2	3
5.	39642	M/s. S. N. Ferrometals Private Limited
6.	63635	M/s. S. R. B. Overseas Private Limited
7.	71143	M/s. S. S. Computech Exports Private Limited
8.	47272	M/s. Sabri Export Private Limited
9.	30318	M/s. Sadhukhan, Traders Private Limited
10.	45054	M/s. Safar Footwear Private Limited
11.	80091	M/s. Safety Fincom Private Limited
12.	43601	M/s. Sagarika Investment Co. Private Limited
13.	38649	M/s. Sahal Travels Private Limited
14.	82938	M/s. Sai Hardas Ram Enclaves Private Limited
15.	65697	M/s. Saimounds Exports Private Limited
16.	56225	M/s. Sakaler Tare Finance and Investment Limited
17.	75456	M/s. Salasarji Steel Private Limited
18.	74353	M/s. Samagra Tie-up Private Limited
19.	74713	M/s. Samprati Commerce Private Limited
20.	60587	M/s. Samrat Feed Mills Private Limited
21.	29925	M/s. Samroch Exports Private Limited
22.	47331	M/s. Sangam Holdings Private Limited
23.	86738	M/s. Sanganeria Finance Private Limited
24.	42925	M/s. Sangita Kiran Builders Private Limited
25.	87158	M/s. Sanjog Associated Corporate Services Private Limited
26.	64662	M/s. Sanmati Securities Private Limited
27.	50619	M/s. Sanroj Marketing and Enterprises Private Limited
28.	28123	M/s. Santosh Tools Manufacturers Private Limited
29.	58843	M/s. Sapphire Exports Private Limited
30.	64886	M/s. Sarad Agencies Private Limited
31.	47015	M/s. Sarada Electrical Enterprise Private Limited
32.	87358	M/s. Saraf Auto Fin Private Limited
33.	12944	M/s. Saraf Brothers Private Limited
34.	5218	M/s. Sarala Printing Works Limited
35.	33449	M/s. Sardaram Manmohanlal Limited
36.	53262	M/s. Sarosh Estates Private Limited

1	2	3	1	2	3
37.	45807	M/s. Sarwamangala Properties Private Limited	65.	58834	M/s. Shailen Traders Private Limited
38.	53372	M/s. Satabdi Builders Private Limited	66.	70805	M/s. Shakit Holdings Private Limited
39.	73394	M/s. Satelite Polywood Private Limited	67.	28086	M/s. Sharadik Chemicals Limited
40.	41887	M/s. Satya Automobiles Private Limited	68.	34269	M/s. Sharadiya Finance & General Investment Company Private Limited
41.	71102	M/s. Saudit Finance & Investment Private Limited	69.	43647	M/s. Sharma Constructions and Investment Private Limited
42.	63502	M/s. Savantvadi Commodities Private Limited	70.	57157	M/s. Sharma Laxmi Narayan Properties Private Limited
43.	78000	M/s. Savera Consultancy & Trading Private Limited	71.	82039	M/s. Shashikant Commodeal Private Limited
44.	16700	M/s. Savitri Transport Private Limited	72.	17578	M/s. Shekko Traders Private Limited
45.	83136	M/s. Sayuz Trading & Commerce Private Limited	73.	45368	M/s. Shelter Housing Finance Company Limited
46.	70907	M/s. Scificet Dealers Private Limited	74.	47172	M/s. Shib Shankar Auto & Bike Industries Private Limited
47.	23802	M/s. Screen Show Private Limited	75.	71385	M/s. Shine Handloom Agency Private Limited
48.	47024	M/s. Sea Bud Hotel & Properties Private Limited	76.	27061	M/s. Shiva Hacksaw Private Limited
49.	42897	M/s. Sea Teachnologies Private Limited	77.	59316	M/s. Shiva Light & Sound Private Limited
50.	68054	M/s. Sear's Merchandise Private Limited	78.	74064	M/s. Shivmani Commodities Private Limited
51.	87177	M/s. Secret Eye Services Private Limited	79.	92148	M/s. Shoda Biotech Private Limited
52.	80331	M/s. Sekhar Bleaching Company Private Limited	80.	59090	M/s. Shoparna AD & Marketing Private Limited
53.	69006	M/s. Sekhmeen Investments Private Limited	81.	84020	M/s. Shorex Vincom Private Limited
54.	55404	M/s. Sen & Pandit Services Private Limited	82.	84515	M/s. Shree Ambey Enterprises Private Limited
55.	90908	M/s. Senbo Consultants Private Limited	83.	72117	M/s. Shree Amritnagar Cement Private Limited
56.	65893	M/s. Seniorita Advertising & Marketing Private Limited	84.	83124	M/s. Shree Rani Sati Marketing Private Limited
57.	65458	M/s. Sensex Corporate Finance Private Limited	85.	60462	M/s. Shree Shyamji Financial Services Private Limited
58.	74478	M/s. Sensicon Consultants Private Limited	86.	26137	M/s. Shri Kamal Mercantile Co Limited
59.	48528	M/s. Sentrans Properties & Management Private Limited	87.	69874	M/s. Shri Lakhavi Barter Private Limited
60.	45498	M/s. Sentrans Trading Company Private Limited	88.	81020	M/s. Shri Vigneshwar Projects Private Limited
61.	60755	M/s. Serviceman Trading Company Private Limited	89.	30036	M/s. Shriram (Overseas) Private Limited
62.	81885	M/s. Sethi Nirman Private Limited	90.	42721	M/s. Shriram Jems Private Limited
63.	86967	M/s. Seva Mandir Private Limited	91.	69787	M/s. Shriya Nestcon Private Limited
64.	47512	M/s. Shagun Textiles Enterprise Private Limited	92.	70054	M/s. Shriya Zaminwala Private Limited

1	2	3
93.	74841	M/s. Shruti Contractors Private Limited
94.	62890	M/s. Shubh Laxmi Equity Services Private Limited
95.	49524	M/s. Shyam Intereye Private Limited
96.	89093	M/s. Shyama Exclusive Private Limited
97.	85706	M/s. Shyamji Stock Brokerg Private Limited
98.	68863	M/s. Siddhmahadev Vyapaar Private Limited
99.	75482	M/s. Sidhartha Properties Private Limited
100.	74948	M/s. Sikaria Merchandise Private Limited
101.	90039	M/s. Silabati Hotel & Lodge Limited
102.	29122	M/s. Silcom Investment Private Limited
103.	59886	M/s. Siljati Exports Private Limited
104.	63033	M/s. Silverton Petroleum Limited
105.	49735	M/s. Simplex Land Promoters Private Limited
106.	51453	M/s. Simpson Trades & Agencies Private Limited
107.	83099	M/s. Simran Commodities Private Limited
108.	28024	M/s. Singell Tea Estate Private Limited
109.	79794	M/s. Singiri Trading Private Limited
110.	67874	M/s. Singla Mercantile Private Limited
111.	90470	M/s. Sinha Tea Co. Private Limited
112.	82624	M/s. Sioen Apparels India Limited
113.	27323	M/s. Sipnabs Engg. Private Limited
114.	77184	M/s. Sipra Properties Private Limited
115.	87619	M/s. SKM Properties & Developers Limited
116.	80014	M/s. SKS Trexim Private Limited
117.	50347	M/s. Sky Rocket Fiscal Services Private Limited
118.	78463	M/s. Skyline Dealcomm Private Limited
119.	34357	M/s. Smiles Biochem Private Limited
120.	67247	M/s. Smrity Financial Services Private Limited
121.	61395	M/s. SMS Agencies Private Limited
122.	30365	M/s. Sodhani Engineering Industries Private Limited
123.	49693	M/s. Soni Consultants Private Limited
124.	29482	M/s. Soni Metalising Co Private Limited

1	2	3
125.	56825	M/s. Sonthalia Trading & Investments Private Limited
126.	50036	M/s. Sonumarine Electricals Private Limited
127.	48229	M/s. South India Fertiliser & Industries Limited
128.	68223	M/s. Southend Investment and Finance Company Private Limited
129.	15335	M/s. Southern Industries Private Limited
130.	82874	M/s. Spandan Tracom Private Limited
131.	71388	M/s. Sparkle Tieup Private Limited
132.	86015	M/s. Sphinx Latex Private Limited
133.	50109	M/s. Sportive Finance and Investment India Limited
134.	78176	M/s. Spotlight Sales Promotion Private Limited
135.	92526	M/s. SPT Paints Manufacturing Co. Private Limited
136.	59194	M/s. SR Flyash Products Private Limited
137.	69157	M/s. Srabanthi Textiles Private Limited
138.	87361	M/s. Srashta Communications Private Limited
139.	80267	M/s. Sree Aurobinda Trading Private Limited
140.	88348	M/s. Sri Vinayak Latex Private Limited
141.	61162	M/s. Sridevi Holdings Private Limited
142.	65947	M/s. Sriji Investment & Trading Private Limited
143.	73490	M/s. Srishti Exim Private Limited
144.	67733	M/s. Sristi Consultants & Engineers Private Limited
145.	62219	M/s. SSAB Marinimpex Private Limited
146.	87487	M/s. SSM Properties & Developers Limited
147.	58854	M/s. Stallion Investment Company (India) Limited
148.	78309	M/s. Stapati Consultancy & Construction Services Private Limited
149.	80175	M/s. Star Tradelink Private Limited
150.	88873	M/s. Starlinger Bajaj Machines Private Limited
151.	80571	M/s. STC Properties Private Limited



1	2	3	1	2	3
152.	65530	M/s. Sterimed Research Laboratory Private Limited	180.	53059	M/s. Surabhi Business & Finance Co. Private Limited
153.	85426	M/s. Sterlite Distributors & Agencies Private Limited	181.	30008	M/s. Suranas Private Limited
154.	56682	M/s. Stone Telecom Limited	182.	56425	M/s. Sureka Aquatic Farms Limited
155.	43651	M/s. Strides Electronics Private Limited	183.	44495	M/s. Surya Fashion Private Limited
156.	83799	M/s. Strish Commercial Private Limited	184.	55067	M/s. Susree Jata Private Limited
157.	61167	M/s. Su-Bastu (India) Private Limited	185.	22005	M/s. Swadeshi Printing Works Private Limited
158.	44674	M/s. Subarna Loke Housing Development Company Private Limited	186.	73003	M/s. Swarnan Projects and Construction Private Limited
159.	82773	M/s. Success Printers Private Limited	187.	60453	M/s. Swamp Electrode Private Limited
160.	82645	M/s. Sudershan Agencies Private Limited	188.	84362	M/s. Swarnrekha Commodities Private Limited
161.	56263	M/s. Sudha Herb Oil Crystals Extractors Private Limited	189.	45968	M/s. Swati Distributor Private Limited
162.	73431	M/s. Sukanto Commodities Private Limited	190.	59010	M/s. Swiftair Travels Private Limited
163.	62264	M/s. Sukhchain Tea Private Limited	191.	85995	M/s. Sybond Investment Services Private Limited
164.	88356	M/s. Sumangal Merchandise Private Limited	192.	51644	M/s. Talbot Housing Finance Company Limited
165.	73158	M/s. Sumanshree Sales Private Limited	193.	83941	M/s. Tamakhuwala Developers Private Limited
166.	59175	M/s. Sumicons Engineers Private Limited	194.	53650	M/s. Tamralipta Agro India Private Limited
167.	79395	M/s. Sumit Texfabs Private Limited	195.	68027	M/s. Tania Cotton Yarns Limited
168.	89707	M/s. Sun Polyextrusions Limited	196.	36990	M/s. Tarak Construction Private Limited
169.	63484	M/s. Sunbeam Woodworks Private Limited	197.	53161	M/s. Taruchaya General Finance & Investment Company Limited
170.	44433	M/s. Sunder Mercantiles Limited	198.	52567	M/s. Taruchaya Housing Developemnt & Finance (India) Limited
171.	33100	M/s. Sunil Commercial Co. Private Limited	199.	28269	M/s. Taunus Enginecring Company Private Limited
172.	82528	M/s. Sunman Mercantile Private Limited	200.	35502	M/s. Taunus Strips Private Limited
173.	83214	M/s. Sunmark Estate (India) Private Limited	201.	65700	M/s Tayal Furniture & Finvest Private Limited
174.	92108	M/s. Sunrise E.com Network Private Limited	202.	54240	M/s. Tea Worth Private Limited
175.	84326	M/s. Super Flight Couriers & Cargo Private Limited	203.	87286	M/s. Techman Integrated Company Private Limited
176.	53198	M/s. Super Plast International Private Limited	204.	62413	M/s. Technica Commodities Private Limited
177.	60273	M/s. Superlife Estate & Investment Private Limited	205.	80988	M/s. Techno Pollution Control Private Limited
178.	62382	M/s. Supernite Sales Private Limited	206.	42089	M/s. Techno Sales & Agencies Private Limited
179.	29702	M/s. Supreme Cosmetics Private Limited			

1	2	3	1	2	3
207.	49402	M/s. Technoconvert Adhesive Products (India) Private Limited	237.	43085	M/s. Uday Financial & Management Consultants Private Limited
208.	64080	M/s. Terai Tea Process Limited	238.	77757	M/s. Udgam Traders Private Limited
209.	82752	M/s. Teshimla Tea processing Factory Private Limited	239.	51220	M/s. Ultra Consultancy & Services Private Limited
210.	90192	M/s. Third Eye Services Private Limited	240.	57545	M/s. Ultra Expo Private Limited
211.	53068	M/s. Tibrewala Trades & Fiscal Private Limited	241.	31124	M/s. Umang Export Private Limited
212.	63884	M/s. Timbak Trexim Private Limited	242.	18627	M/s. United Cine Laboratories Private Limited
213.	75220	M/s. Timcon Builders Private Limited	243.	72375	M/s. Unity Dealers Private Limited
214.	42087	M/s. Tiruluxmi Textiles Private Limited	244.	84264	M/s. Upadhyay Traders Private Limited
215.	86642	M/s. Tirusal Softchem Private Limited	245.	43736	M/s. Usha Industrial Services Limited
216.	95394	M/s. TNS Logistics Private Limited	246.	65845	M/s. Usha Metcore Limited
217.	78462	M/s. Top People Marketing Private Limited	247.	85458	M/s. Usha Priti Hotels (India) Private Limited
218.	75210	M/s. Torrent Vyapaar Private Limited	248.	59580	M/s. Utility Properties Private Limited
219.	77979	M/s. Torsha Vanijya Private Limited	249.	70863	M/s. Valley Marketing Private Limited
220.	92715	M/s. Total Cable Connect Private Limited	250.	73430	M/s. Vasudha Commotrade Private Limited
221.	63470	M/s. Touton Sales Private Limited	251.	70115	M/s. Veekay Infotech Private Limited
222.	85934	M/s. townscape Developers Private Limited	252.	33744	M/s. Veekay Tea & Trading Co Private Limited
223.	33663	M/s. Trans Corporate Private Limited	253.	85835	M/s. Vellara Traders Private Limited
224.	81639	M/s. Transmission Technologies Private Limited	254.	88105	M/s. Verdant Management Private Limited
225.	31557	M/s. Transpower System (India) Private Limited	255.	77161	M/s. Vidhan Dealers Private Limited
226.	56383	M/s. Treasure Manufactures and Property Developer (India) Private Limited	256.	37448	M/s. Vijay Vanaspati and Industries Limited
227.	38414	M/s. Trebor Global Private Limited	257.	50637	M/s. Vijayshree Products Private Limited
228.	55198	M/s. Trend Setters (Exports) Private Limited	258.	75522	M/s. Vikas Homes Private Limited
229.	73801	M/s. Trico Fashion Exports Private Limited	259.	63723	M/s. Vikira Traders (India) Private Limited
230.	76220	M/s. Trident Tour & Trade Links Private Limited	260.	44359	M/s. Vindhyachal Finance & Investments Limited
231.	58709	M/s. Trijag Enterprises Private Limited	261.	74515	M/s. Vintek Computers Private Limited
232.	53115	M/s. Trivedi Electromech Private Limited	262.	40248	M/s. Viraam Hotels Private Limited
233.	89364	M/s. Trotternama Racing Private Limited	263.	26473	M/s. Vishveshwari Khandra Colliery Co Private Limited
234.	75237	M/s. Tussel Trading Private Limited	264.	82395	M/s. Vision Printpacks Private Limited
235.	30457	M/s. U. M. (India) Private Limited	265.	63004	M/s. Vision System Private Limited
236.	50160	M/s. Uddaan Travels Limitd	266.	75316	M/s. Vizag Vyapaar Private Limited
			267.	69865	M/s. Voluntur Trading Private Limited

I	2	3
268.	93122	M/s. Vyas Exports Private Limited
269.	32064	M/s. Warley (India) Private Limited
270.	79748	M/s. Waterloo Plaza Private Limited
271.	91459	M/s. Webplaza Calcutta.Com Private Limited
272.	59395	M/s. Welcon Engineers & Developers (India) Private Limited
273.	51920	M/s. Weldone Constructions Private Limited
274.	89468	M/s. Wellbred Commercial Private Limited
275.	87799	M/s. Wellesley Medicentre & Research Laboratory Private Limited
276.	93723	M/s. West Land Insurance Agents Private Limited
277.	89474	M/s. West Wood Care Health Limited
278.	43271	M/s. Wild Grass Nature Resort Private Limited
279.	78098	M/s. Wincon Projects Limited
280.	51099	M/s. Wong Hotels & Resorts Private Limited
281.	64176	M/s. Woolie Tie-Up Private Limited
282.	85069	M/s. Worthy Infotech Limited
283.	85072	M/s. Worthy Vidyas Limited
284.	86736	M/s. Wosli Properties Private Limited
285.	67496	M/s. Xavier's Agro Private Limited
286.	75856	M/s. Xcellent Systems Private Limited
287.	79723	M/s. Xebec Construction Private Limited
288.	53420	M/s. Xitiz Trade & Commerce Private Limited
289.	66558	M/s. Yardley Energy Private Limited
290.	77267	M/s. Yellsports Info Private Limited
291.	86694	M/s. Yessemitsu Projects (India) Limited
292.	72628	M/s. Yoke Mercantile Private Limited

I	2	3
293.	72859 *	M/s. YSL Securities Limited
294.	43349	M/s. Zest Interior Decorators Private Limited
295.	75995	M/s. Zeus Advertising & Communications Private Limited
296.	72279	M/s. Zimkele Dealers Private Limited
297.	78812	M/s. Zodiac Suppliers Private Limited
298.	85795	M/s. Zoom Impex Private Limited
299.	32834	M/s. Zuid Pharmaceuticals Private Limited
300.	52357	M/s. Zwingli Electrical Equipment Private Limited

T. P. SHAMI  
Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956 and of the  
M/s. Poona Trading Limited

Bangalore-34, the 29th July 2005

No. 4395/SI. No. ROCB/SVK/560(5)/05-06.—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the Company of M/s. Poona Trading Limited, has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of the  
M/s. Kalyani Holdings Private Limited

Bangalore-34, the 29th July 2005

No. 7736/SI. No. ROCB/SVK/560(5)/05-06.—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the Company of M/s. Kalyani Holdings Private Limited, has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Karnataka

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.